


वार्षिक हिसाब ANNUAL ACCOUNTS

2016-17



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

लेखा विवरण 2016-17



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
खड़गपुर - 721302



स्पीड पोस्ट
गोपनीय

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा का कार्यालय
केन्द्रीय, कोलकाता
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL, KOLKATA,

संख्या-ओए ॥(एबी)/एआर/2016-17/आईआईटी खड़गपुर/439
दिनांक 05 दिसम्बर 2017

सेवा में,
सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली - 110001


**विषय :- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का वर्ष 2016-17 के
लेखा परीक्षण संबंधी पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

महोदय,

मैं वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र में अग्रेषित कर रहा हूँ। वर्ष 2016-17 के लिए संस्थान के वार्षिक लेखा विवरण की प्रति भी संलग्न है।

- कृपया इस कार्यालय को, पृथक लेखा परीक्षा विवरण (अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण दोनों) की दो प्रतियां, जैसीकि संसद में प्रस्तुत की गई है, इस स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
- कृपया वर्ष 2016-17 की परीक्षित लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा विवरण को संसद के दोनों सदन में रखने की तिथि इस कार्यालय को भी संप्रेषित की जाएं।

संलग्न-यथाकथित

भवदीय,

(पी.के.सिंह)

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
केन्द्रीय, कोलकाता

जी. आई. प्रेस बिल्डिंग, 8 किरण शंकर राय रोड (1 मंजिल), कोलकाता - 700001
Govt. of India Press Building, 8, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700001
दूरभाष : 033-2254-0221, (ग्राम: ACCOUNTCENT), पोस्ट बॉक्स : 2699 फैक्स - 033-22135377



गोपनीय

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा का कार्यालय
केन्द्रीय, कोलकाता
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL, KOLKATA,

संख्या-ओए ॥(एबी)/ एआर/2016-17/आईआईटी खड़गपुर/440

दिनांक 05 दिसम्बर 2017

वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के लेखा विवरण से संबंधित अनुलंघकों के साथ पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर-721302 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित की जा रही है।

अनुलंघकों सहित पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के हिंदी संस्करण तैयार करने की व्यवस्था अपने स्तर पर की जाए एवं उसे मंत्रालय को सीधे प्रेषित किया जाए।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि संसद में प्रस्तुति हेतु, भारत सरकार को प्रेषित करने से पूर्व अनुलंघकों सहित लेखा परीक्षित लेखा प्रतिवेदन एवं पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सर्वोच्च संस्था के समक्ष विचार करने एवं अंगीकार करने हेतु प्रस्तुत किया जाए।

वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की दो प्रतियां (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों संस्करण) जिसमें अनुलंघकों के साथ लेखा परीक्षित लेखा-विवरण तथा पृथक लेखा परीक्षा विवरण हों, जैसा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस कार्यालय को अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाएं।

संलग्नक-यथाकथित

65/12/2017

उपनिदेशक (निरीक्षण)

जी. आई. प्रेस बिल्डिंग, 8 किरण शंकर राय रोड (1 मंजिल), कोलकाता - 700001
Govt. of India Press Building, 8, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700001
दूरभाष : 033-2254-0221, (ग्राम: ACCOUNTCENT), पोस्ट बॉक्स : 2699 फैक्स - 033-22135377

**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के लेखा परीक्षण से संबंधित
भारत के महा लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का 31 मार्च 2017 के वर्षांत हेतु
पृथक लेखा प्रतिवेदन**

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर अधिनियम 1961 की धारा 23 (2) के साथ पढ़ते हुए, के अंतर्गत 31 मार्च 2017 के वर्षांत की तिथि पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की संलग्न बैलेंस शीट, आय-व्यय लेखा एवं प्राप्तियां तथा भुगतान का इस तिथि को वर्षांत के लिए लेखा परीक्षण किया है। इस वित्तीय विवरण में दो शाखा इकाइयों का भी लेखा संयुक्त है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व संस्थान प्रबंधन का है। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षण पर आधारित अपना विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां लेखा प्रक्रिया के विषय में (अकाउंटिंग ट्रीटमेंट) सर्वश्रेष्ठ लेखा व्यवहारों, लेखा मानकों एवं प्रकटीकरण नियमों आदि के लिए अनुरूपण वर्गीकरण एवं पुष्टि मात्र के संदर्भ में हैं। वित्तीय लेनदेन के बारे में विधि, नियम एवं नियामक (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पक्षों आदि के संदर्भ में, लेखा प्रेक्षण, यदि कोई है, निरीक्षण प्रतिवेदनों / सीएजी लेखा परीक्षण रिपोर्टों में अलग से उल्लिखित किए गए हैं।

3. हमने अपना लेखा परीक्षण सामान्यतया भारत में प्रचलित लेखा परीक्षण मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों का मूल आधार है कि हम वित्तीय विवरणों के विषय में लेखा परीक्षण से तर्कसंगत आश्वासन पाने के लिए योजनाबद्ध होकर परीक्षण करते हैं कि ये भौतिक त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में जांच आधारित परीक्षा, साक्ष्यों पर आधारित राशियों का वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण शामिल होता है। प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा अनुमानित विशेष के साथ ही वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण जांचना भी लेखा परीक्षण में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारे मत के समर्थन में हमारा लेखा परीक्षण तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करता है।

4. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

- i. हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को हमने अपने सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के आधार पर प्राप्त कर लिया है;
- ii. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय तथा व्यय लेखा / प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 29-4/2012-FD दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा प्रदत्त प्रपत्र के अनुसार अपवाद का उल्लेख करते हुए बनाया गया है।
- iii. हमारे विचार में जैसा कि हमने लेखा पुस्तिकाओं का परीक्षण किया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खडगपुर द्वारा लेखा पुस्तिकाएं एवं अन्य संबंधित अभिलेख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 की धारा 23(2) के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
- iv. हम आगे सूचित करते हैं कि

लेखा पर टिप्पणी

क. तुलन पत्र

1.1 देयताएं

1.1.1 कॉर्पस / मूल निधि (अनुसूची-1) - ₹ 1695.60 करोड़

इस शीर्ष में ₹ 0.83 करोड़ का अधिक कथन हुआ है क्योंकि पिछले वर्ष 2015-16 एवं इस वर्ष 2016-17 में संस्थान मुख्य से प्राप्त क्रमशः ₹ 0.71 करोड़ एवं ₹ 0.12 करोड़ की राशि को प्रायोजित शोध एवं औद्योगिकी सलाहकारिता द्वारा आय के रूप में माना है और वर्तमान देयताएं (अनुसूची-3) के बजाय कॉर्पस निधि (अनुसूची-1) के अंतर्गत “मूल एवं परियोजना निधि-स्त्रिक” में दर्शाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं (अनुसूची-3) में ₹ 0.83 करोड़ का न्यून कथन हुआ है।

1.1.2 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-3) -₹ 827.66 करोड़

इस शीर्ष में वर्तमान परिसंपत्तियों के स्थान पर नकारात्मक कुल (नैगेटिव बैलेंस) को वर्तमान देयताओं में “स्थानांतरणीय कटौतियाँ” में शामिल करने से ₹ 0.16 करोड़ का न्यून कथन हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियां (अनुसूची-7) में ₹ 0.16 करोड़ का न्यून कथन हुआ है।

1.2 परिसंपत्तियां

1.2.1 स्थाई परिसंपत्तियां- प्रगति पर पूंजीगत कार्य (अनुसूची-4): ₹ 359.27 करोड़

उपर्युक्त राशि में ₹ 5.21 करोड़ का आधिक्य कथन स्रिक एवं प्रौद्योगिकी अतिथि गृह की अचल परिसंपत्तियों के कुल मूल्य को अचल परिसंपत्तियों (चल / अचल) में शामिल करने से हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप अचल परिसंपत्तियों में ₹ 5.21 करोड़ का न्यून कथन हुआ है।

1.2.2 ऋण, अग्रिम एवं जमा- (अनुसूची 8)- ₹ 642.93 करोड़

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र का उल्लंघन करते हुए प्राप्य अनुदान में योजना अनुदान से “स्रिक को अग्रिम” एवं “विदेशी विनिमय हेतु प्रावधान” में क्रमशः ₹ 12.53 करोड़ एवं ₹ 7.43 करोड़ को शामिल करने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त शीर्ष में ₹ 19.96 करोड़ का अधिक कथन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान देयताओं में ₹ 19.96 करोड़ की राशि प्राप्य के रूप में दर्शाई गई है। अंततः वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-3) में ₹ 19.96 करोड़ का अधिक कथन हुआ है।

ख. आय एवं व्यय खाता

2.1 व्यय

2.1.1 मूल्य ह्रास (अनुसूची-4)- ₹ 73.58 करोड़

उपर्युक्त शीर्ष में ₹ 0.68 करोड़ का न्यून कथन हुआ है क्योंकि “वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण” शीर्ष के अंतर्गत ₹22.54 करोड़ की स्रिक परियोजना परिसंपत्तियों का मूल्य @8 प्रतिशत के बजाय @5 प्रतिशत मूल्य ह्रास की दर से “संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण” के अंतर्गत प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय से अधिक आय का ₹ 0.68 करोड़ अधिक कथन भी हुआ है।

ग. प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

3.1 पिछले वर्ष की लेखा परीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने का वावजूद भी संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रपत्र के अनुसार वर्ष 2016-17 का प्राप्तियां एवं भुगतान खाता तैयार नहीं किया है। लेखांकन प्रपत्र के अनुसार व्ययों (स्थापना व्ययों, शैक्षणिक व्ययों, प्रशासनिक व्ययों, चल परिसंपत्तियों एवं प्रगतिशील कैपिटल वर्क्स की मरम्मत एवं अनुरक्षणों) के लिए अलग शीर्ष लेखांकन में दर्शाए जाने चाहिए। यद्यपि संस्थान ने प्राप्तियां एवं भुगतान खाता अन्य प्रारूप में तैयार किया है और सभी व्ययों को (₹ 990.01 करोड़ के किए गए निवेश, ₹ 3.11 लाख वित्तीय के अलावा) एक शीर्ष “ विविध लेनदारों (सन्ड्री क्रेडिटर्स) / चालू देयता एवं प्रावधान के लिए भुगतान” के अंतर्गत (कार्मिकों, विद्यार्थियों आदि को शामिल करते हुए) दर्शाए हैं। इस कारण प्रपत्र के अनुसार अलग-अलग शीर्ष में भुगतानों का लेखा परीक्षण निर्धारित नहीं किया जा सका है।

घ. जीपीएफ, सीपीएफ एवं एनपीएस खाता

4.1 यद्यपि बैंक ने 56 सावधि जमा प्राप्तियों के 8 निवेशों के लिए ₹ 4.09 करोड़ की राशि परिपक्वता मूल्य के रूप में प्रदान की है और यह राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में ₹ 3.91 करोड़ शामिल की गई है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज से आय तथा व्यय से अधिक आय में ₹ 0.18 करोड़ का न्यून कथन हुआ है।

4.2 पाँच निवेशों के संबंध में, निवेशों की प्रोद्भूत ब्याज तथा व्यय से अधिक आय के प्रोद्भूत ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना से ₹ 0.32 करोड़ का न्यून कथन हुआ है।

ड. सामान्य

5.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रपत्र के उल्लघन में स्रिक खाते के लिए “संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण” तथा “वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण” के लिए अलग से शीर्ष नहीं बनाए गए हैं बल्कि दोनों ही खातों को साथ में मिला दिया गया है।

5.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रपत्र के उल्लघन में संस्थान ने उन अचल परिसंपत्तियों की बुक वैल्यू एवं आभासी मूल्य ह्रास को लेखांकन टिप्पणी में प्रकट नहीं किया, जो संस्थान की अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-4) में शामिल नहीं की गई थीं क्योंकि उनका स्वामित्व प्रायोजकों के पास था।

5.3 यद्यपि संस्थान ने वर्ष 2016-17 के दौरान कैपिटल व्यय में स्रिक को ₹ 24.00 करोड़ मूल्य का अग्रिम समायोजित किया है, स्रिक खाते में इस समायोजन के प्रभाव को न तो अचल परिसंपत्तियाँ- प्रायोजित परियोजना (अनुसूची-4 ए) और न परियोजना निधि (अनुसूची-1बी) में दर्शाया गया है।

5.4 गैर-स्रिक परियोजनाओं के शेष के निवेश से अर्जित व्याज को संबंधित परियोजना खाते में डाले जाने के स्थान पर स्रिक की आय में शामिल किया गया है।

च. अनुदान सह सहायता

संस्थान मुख्यतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों की वित्तीय सहायता से संचालित होता है। यद्यपि संस्थान ने संशोधित लेखांकन प्रपत्र के अनुसार अलग शीर्षों में साक्ष्य प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दर्शाए गए हैं इसलिए अनुदानों के उपयोग का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका है (संदर्भ पैरा 3.1) तथापि इस संदर्भ में संस्थान ने लेखा परीक्षक को एक विवरण प्रस्तुत किया है। उस विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान संस्थान को कुल ₹ 441.51 करोड़ (योजना अनुदान : ₹ 180.33 करोड़ एवं गैर योजना अनुदान ₹ 261.18 करोड़) है। कुल ₹ 441.51 करोड़ के अनुदान में से संस्थान ने ₹ 552.08 करोड़ (योजना अनुदान : ₹ 206.60 करोड़ एवं गैर योजना अनुदान : ₹ 345.48 करोड़) उपयोग किए हैं। योजना अनुदान के अंतर्गत (₹ 26.27 करोड़) आय से अधिक व्यय को धर्मादा निधि (एंडोमेंट फंड) से अस्थाई ऋण लेकर पूरा किया गया और गैर-योजना अनुदान में आय से अधिक व्यय (₹ 84.30 करोड़) को आंतरिक संसाधन सृजन से पूरा किया गया।

(1) इसके अतिरिक्त संस्थान को पिछले वर्ष के बसूली योग्य शेष को समायोजित करने के उपरांत ₹ 34.75 करोड़ का अनुदान अनुसंधान पार्क (एनआईटीटी) के लिए मिला है एवं कैपिटल वर्क शीर्ष के अंतर्गत ₹ 5.12 करोड़ व्यय हुए हैं और ₹ 29.63 करोड़ बिना खर्च हुए शेष हैं।

(II) संस्थान को टीईक्यूआईपी-II के तहत ₹ 1.63 करोड़ मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुआ है एवं उसमें से ₹ 1.18 करोड़ रुपये (20%उपरिभार प्रभारों सहित) वर्ष 2016-17 में खर्च हुए हैं जिसका परिणाम है कि ₹0.45 करोड़ बिना व्यय हुए शेष हैं।

IV) संस्थान को ₹ 25.59 करोड़ की राशि जीआईएएन (वैश्विक शैक्षणिक नैटवर्क नवोन्मेष- ज्ञान) कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कार्यक्रम में सहभागी विभिन्न संस्थानों को वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त व्यय पिछले वर्ष के बिना व्यय शेष में से पूरा किया गया और इस प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के पास बिना व्यय शेष राशि ₹ 9.60 करोड़ शेष है।

छ. कुल प्रभाव

पिछले पैराग्राफ में टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह हुआ है कि परिसंपत्तियां एवं देयताओं का 31 मार्च 2017 मार्च को ₹ 19.80 करोड़ का आधिक्य कथन किया गया है एवं वर्ष में जीपीएफ, सीपीएफ एवं एनपीएस खाता भी आय से अधिक व्यय (आधिक्य) भी 31 मार्च 2017 की समाप्ति पर ₹ 0.14 करोड़ अधिक कथन किया गया है।

ज. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों का उल्लेख लेखा परीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया गया है उनकी जानकारी निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र द्वारा समाधानात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दे दी गई है।

v. पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों की शर्तों के साथ हम यह सूचित करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता एवं प्राप्तियां तथा भुगतान खाता जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, लेखांकन पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vi. हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम सूचनाओं के आधार पर एवं जो स्पष्टीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उनके अनुसार संदर्भित वित्तीय विवरण को लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ते हुए, विशिष्ट मामलों में जिनके विषय में ऊपर कहा जा चुका है, उन्हें छोड़ते हुए की शर्तों के साथ, एवं अन्य मामलों में इस लेखा परीक्षण रिपोर्ट की अनुलग्नकों में विनिर्दिष्ट सूचनाओं से, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा व्यवहारों के अनुरूप सत्य एवं त्रुटिहीन व्याख्या है।

क) जहाँ तक यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के 31 मार्च 2017 के तुलन पत्र से संबंधित मामला है और,

ख) जहाँ तक यह वर्षात की उस तिथि को आय एवं व्यय खाते के आधिक्य से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान : कोलकाता

दिनांक: 05.12.2017

(पी. के. सिंह)

लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक

(केन्द्र) कोलकाता

अनुलग्नक

क. आंतरिक लेखा परीक्षण व्यवस्था की पर्याप्तता

आंतरिक लेखांकन प्रणाली निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त है:

- (i) कोई आंतरिक लेखा परीक्षण संहिता प्रयोग में नहीं है।
- (ii) आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकार्यों को एक बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को आउटसोर्स किया हुआ है और वह फर्म संस्थान का केवल वित्तीय तथा लेखांकन भाग ही देखती है जबकि समझौते के नियम एवं शर्तों में विभिन्न कार्य व्यापक रूप से दिए गए हैं।
- (iii) संस्थान के आंतरिक लेखा परीक्षण स्कंध में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं (मात्र दो कर्मचारी हैं) और मात्र एक समन्वयन प्रकोष्ठ के रूप में कार्य हुए हैं।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित क्षेत्रों में अपर्याप्तताएं हैं-

- (i) कोई आंतरिक लेखांकन संहिता प्रयोग में नहीं है।
- (ii) अनेक मामलों में संस्थान एक अनुचित प्रक्रिया अपनाई जा रही थी जिसमें सिक के बिलों को एकल हस्ताक्षर से भुगतान किया जा रहा है। अतः अधिक भुगतान की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- (iii) शेष देयताएँ एवं साथ ही प्राप्य राशियों की नियमित अवधि पर समीक्षा नहीं की जाती है।
- (iv) सामग्री की प्राप्ति के प्रमाण हेतु पूर्व-संख्यांकित वस्तु प्राप्ति नोट्स (जीआरएन) जारी करने की कोई प्रणाली व्यवहार में नहीं है। इस प्रकार जीआरएन की कोई भी प्रतिलिपियां लेखा विभाग को अग्रेषित नहीं की गई हैं एवं क्रय विभाग को प्राप्त वस्तुओं की कोई सूची अपने कार्यालय में समुचित रिकार्ड रखने के लिए नहीं भेजी गई हैं।
- (v) आपूर्तिकर्ताओं के आंतरिक वाउचरों (इनवोयसेज) पर प्रत्यक्षतः लेखा विभाग के माध्यम से कार्रवाई नहीं होती है।

(vi) साजो-सामान के आधिक्य/ न्यूनता की आविधिक जाँच कर रिपोर्ट करने की कोई प्रणाली नहीं है।

(vii) क्रय अनुभाग में खरीदें केन्द्रीयकृत नहीं हैं।

(viii) स्रिक लैजरोँ और सहयोगी खातों में वाउचरोँ के संबध में बिना किसी सूचनात्मक टिप्पणी नोट के आदान-प्रदान की प्रविष्टियाँ की गई हैं। इस कारण से लेखा परीक्षण को सौंपे गए लैजरोँ से आदान-प्रदान की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सका है तथा शीर्षवार लेखा वर्गीकरण की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

ग. परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

स्रिक सहित संस्थान ने अचल परिसंपत्तियाँ रजिस्टर नहीं बनाया है। यद्यपि संस्थान में अचल परिसंपत्तियों के लिए वर्ष 2006-07 के बाद से वर्षवार भंडार रजिस्टर (वर्ष के दौरान जोड़ते हुए) और वर्ष 2013-14 से स्रिक खातों के लिए रखा गया है। यद्यपि वर्षवार भंडार रजिस्टर में किसी अचल परिसंपत्ति का प्रारम्भिक एवं अंतिम बैलेंस नहीं दर्शाया गया है और इन अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कभी भी नहीं किया गया है। इस प्रकार अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में, इन अचल परिसंपत्तियों की अवस्था एवं वास्तविक अस्तित्व जिनकी कीमत ₹ 1497.60 करोड़ है (नैट वैल्यू) को लेखा परीक्षण रिपोर्ट में निर्धारित नहीं किया जा सका है।

घ. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता : संस्थान वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमित रहा है।

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर
A.	तुलन पत्र	
	देयताएं	
1.1	कॉर्पस / कैपिटल फंड (अनुसूची 1) - ₹ 1695.60 करोड़	लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार जहां तक आवश्यक हो, संशोधन संबंधी प्रविष्टियों के लिए सिक को आवश्यक सलाह दी गई है। वही वर्ष 2017-18 में ऑडिट में दिखाया जाएगा।
1.1.1	उपरोक्त शीर्ष में क्रमशः 2015-16 और 2016-17 के दौरान ₹ 0.71 करोड़ और ₹ 0.02 करोड़ के कारण 0.83 करोड़ रुपये अधिक कथन हुए हैं क्योंकि संस्थान-मुख्य से प्राप्त किए गए को सिक द्वारा आय के रूप में मान्यता दी गई थी और वर्तमान देयताएं (अनुसूची -3) के बजाय कोर्पस फंड में 'कैपिटल एंड प्रोजेक्ट फंड-सिक' में शामिल किया गया (अनुसूची-1)। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधान (अनुसूची -3) में ₹ 0.83 करोड़ का न्यून कथन हुआ है।	
1.1.2	वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची -3) ₹ 827.66 करोड़ उपरोक्त शीर्ष में चालू परिसंपत्तियों के बजाए वर्तमान देनदारियों में 'हस्तांतरणीय कटौती' के तहत नकारात्मक शेष राशि को शामिल करने के कारण ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनकथन हुआ है। इसके साथ ही चालू परिसंपत्तियों (अनुसूची- 7) की ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनकथन हुआ है।	देनदारियों के एक ही समूह के तहत देनदारियों के अन्य शीर्षों के साथ विशेष प्रमुख देनदारियों को बंद करना, अर्थात् वर्तमान देनदारियां अनजाने में हो चुकी हैं किंतु ऐसी देनदारियों के निवारण से वित्तीय विवरणों की स्थिति पर कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। हालांकि, जैसा कि लेखा परीक्षक द्वारा सुझाया गया है, भविष्य में इसे ध्यान में रखा जाएगा।
1.2	संपत्ति	तुलन पत्र में दिखाई गई अचल संपत्ति में शामिल हैं:
	अचल संपत्ति - प्रगति में पूंजीगत कार्य (अनुसूची -4): ₹. 359.27 करोड़	(i) अचल संपत्ति (ii) चल संपत्ति
1.2.1	उपरोक्त में अचल संपत्ति (मूर्त / अमूर्त) के तहत दिखने के बजाय, सिक और टेक्नोलॉजी गेस्ट हाउस के अचल संपत्तियों को शामिल करने के कारण 5.21 करोड़ रुपये का अधिक कथन हुआ है। इसके साथ ही परिणाम यह हुआ कि अचल संपत्तियों में भी रूप	(iii) प्रगति में पूंजीगत कार्य इसलिए, उपरोक्त तीन घटकों का योग कुल अचल संपत्ति की नेट वैल्यू का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि ऑडिट द्वारा वर्णित है, सिक और प्रौद्योगिकी अतिथि गृह की

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर
	5.21 करोड़ का न्यून कथन हुआ है।	<p>शुद्ध परिसंपत्तियों को क्लबिंग करते हुए रु 5.21 करोड़ की राशि बिना प्रयास में 2016-17 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के साथ मिल रही है। चूंकि, परिसंपत्तियों को विधिवत रूप से अवमूल्यन किया जा चुका है अतः वर्ष 2016-17 के लिए संस्थान की आय और व्यय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।</p> <p>वित्तीय विवरण में अचल परिसंपत्तियों के समूह के अलावा गलत वर्गीकरण का कोई भी प्रभाव नहीं है। इसलिए, ऑडिट द्वारा बताई गई अचल संपत्तियों में कोई कमी नहीं हुई है।</p> <p>हालांकि, 2017-18 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा उपरोक्त के मद्देनजर, पैरा को छोड़ा जा सकता है।</p>
1.2.2	<p>ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची- 8): रु. 642.93 करोड़</p> <p>योजना अनुदान में प्राप्य अनुदान से 12.53 करोड़ एवं रुपये 7.43 करोड़ रुपये क्रमशः 'सिक के लिए अग्रिम' और 'विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान' के रूप की राशि को शामिल करने के कारण उपर्युक्त शीर्ष में रुपये 19.96 करोड़ का अधिक कथन हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का उल्लंघन है। इसी तरह, प्राप्य राशि के नामे 19.96 करोड़ रूपए का प्रावधान वर्तमान देनदारियों में भी बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची- 3) के रूप में रु. 19.96 करोड़ का अधिक कथन हुआ है।</p>	<p>रुपये 19.96 करोड़ का प्रावधान लेखा मानक 29 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है क्योंकि यह निम्नलिखित स्थितियों को पूरा करता है:</p> <p>(i) संस्था की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है, अर्थात् खरीद आदेश जारी किया गया है।</p> <p>(ii) पुष्टि किया गया दायित्व वर्तमान में मौजूद है क्योंकि सामग्री वितरित हो गई है।</p> <p>(iii) यह पिछले घटना से संबंधित है या इसके बाद उत्पन्न होता है, भविष्य में होने वाली घटना से बाहर नहीं है।</p> <p>(iv) संभव है कि आउटफ्लो से सामग्री का दायित्व वितरित करने के बाद बाध्यता का निपटान हो जाएगा।</p> <p>(v) दायित्व पर एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है।</p> <p>इसके अलावा, देनदारियों के प्रावधान के बारे में, संस्थान ने पुष्टि की जिम्मेदारी के नामे एक प्रावधान किया था जो तुलन पत्र शीट की तारीख में मौजूद था और कहा गया है कि देयताएं पिछली घटना से उत्पन्न हुई हैं, भविष्य में होने वाली घटना से बाहर नहीं हैं। लेखांकन मानक -29 में निर्धारित शर्त के अनुसार प्रावधान किया गया है।</p> <p>इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जा</p>

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर
		<p>सकता है:</p> <p>(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या- 4-I / 2015-TS-I ने दिनांक 18.02.2016 को स्पष्ट किया था कि व्यय व्यय आमतौर पर उपयोग में परिलक्षित होता है। अनुसूची 3 सी योजना और गैर-योजना अनुदान-सह-सहायता के उपयोग की प्रतिकृति है। प्रतिलिपि अनुलग्नक -I में संलग्न है।</p> <p>(ii) वर्ष 2016-17 के दौरान 12.53 करोड़ रुपये की विदेशी उपकरणों की खरीद के लिए देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया था, जिसके लिए सामग्री 31.03.2017 से पहले वितरित की गई थी। चूंकि सामग्री 2016-17 वर्ष में पहले से ही वितरित की गई थी लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, तो उसी वर्ष उसी निधि में देयता दी जानी चाहिए जिसमें से इसका निपटारा किया जाएगा।</p> <p><u>उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रुपये 12.53 करोड़ जो कि वर्ष 2016-17 में योजना अनुदान से किए गए हैं, की विदेशी खरीद सही हैं।</u></p> <p>(iii) वर्ष के दौरान एक और प्रावधान स्रिक द्वारा किए गए परियोजना कार्यों के लिए व्यय के प्रति देनदारियों के लिए 7.43 करोड़ रुपए की राशि के लिए बनाया गया था। योजना अनुदान से अनुमोदित परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए उपरोक्त भुगतान स्रिक को किया गया था। यह प्रतिबद्ध व्यय की प्रकृति में है और वर्ष के दौरान योजना अनुदान से भुगतान किया गया था।</p> <p><u>मानव संसाधन विकास मंत्रालय पत्र संख्या 4-I /2015-TS-I दिनांक 18.02.2016 को के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए योजना अनुदान के लिए उक्त वचनबद्ध व्यय के प्रति 7.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।</u></p> <p>लेखा परीक्षक कृपया ध्यान दें कि अगर मामले में, प्रतिबद्ध देयताएं भविष्य में तय नहीं होंगी, तो अगले वर्ष में अस्थायी प्रावधान / देनदारियों को योजना अनुदान में वापस लिखे जाएंगे।</p> <p>इसलिए, भारतीय जीएपीपी, लेखा मानक 29 पर विचार करते हुए, वित्तीय विवरण में उस अवधि के संबंधित अवधि</p>

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर
		<p>के व्यय का प्रदर्शन करने के सिद्धांत, वर्ष के दौरान बनाए गए देनदारियों के लिए प्रावधान सही है।</p> <p>ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए पैरा हटाया जा सकता है।</p>
<p>B. 2.1 2.1.1</p>	<p>आय और व्यय खाते</p> <p>व्यय</p> <p>मूल्यहास (अनुसूची -4): रु. 73.58 करोड़</p> <p>उपरोक्त शीर्ष में 0.68 करोड़ रुपये का न्यूनकथन हुआ है। सिक - परियोजना परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास चार्ज करने के कारण 'लैब / वैज्ञानिक उपकरण' के तहत 8 प्रतिशत के बजाय 'प्लांट एंड मशीनरी' के अंतर्गत 5 प्रतिशत @ से 22.54 करोड़ चार्ज हुआ है। इसके परिणामस्वरूप 0.68 करोड़ रुपये व्यय से अधिक आय की अतिरिक्त राशि का अधिक कथन हुआ है।</p>	<p>लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार जहां तक आवश्यक हो, मिलान और सुधार के लिए सिक को आवश्यक सलाह दी गई है। वही वर्ष 2017-18 में ऑडिट में दिखाया जाएगा।</p>
<p>C. 3.1</p>	<p>प्राप्ति और भुगतान खाता</p> <p>पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख के बावजूद, संस्थान ने 2016-17 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्तियां और भुगतान खाता तैयार नहीं किया था। प्रारूप के अनुसार अलग-अलग खर्च (स्थापना व्यय, शैक्षणिक व्यय, प्रशासनिक व्यय, मरम्मत और रखरखाव और अचल संपत्ति और प्रगति पूंजी निर्माण पर व्यय) के खातों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हालांकि संस्थान ने रसीदों और भुगतान खाते में अलग-अलग प्रारूप में तैयार किया था और सभी खर्चों को प्रदर्शित किया था (एक निवेश के व्यय को छोड़कर 990.01 करोड़ रुपये, वित्त लागत- 3.11 लाख) एक शीर्ष के तहत ' आकस्मिक लेनदारों / निपटान वर्तमान देयता और प्रावधान (कर्मचारी / छात्र आदि सहित) ' जैसे, प्रारूप के अनुसार शीर्ष-वार भुगतान ऑडिट में नहीं जा सका।</p>	<p>संस्थान ने पहले ही उल्लेख किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचित संशोधित प्रारूप से रसीद और भुगतान का विवरण थोड़ा अंतर है। इसके कारण है और निम्नलिखित जरनलों की प्रविष्टियां पारित की गईं</p> <p>(ए) टीडीएस, जीएसटी आदि जैसे वैधानिक प्रावधानों का बेहतर नियंत्रण, नकली भुगतान, मिलान और अनुपालन के लिए विक्रेताओं / सप्लायर्स / लेनदारों / देनदार / कर्मचारी बही का रख-रखाव आवश्यक है।</p> <p>(बी) जर्नल प्रविष्टियां पारित की जाती हैं, जबकि विक्रेता / सप्लायर / कर्मचारियों / छात्रों को भुगतान के लिए कोई भी बिल प्रोसेस किए जाते हैं। यह</p> <p>डेबिटिंग: व्यय का प्रमुख खाता</p> <p>क्रेडिटिंग: विक्रेता / सप्लायर / आकस्मिक लेनदारों / कर्मचारी खातों</p> <p>(सी) वास्तविक भुगतान करने के समय निम्नलिखित</p>



भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर
		<p>जरनलों की प्रविष्टियां पारित की जाती हैं:</p> <p>डेबिटिंग: विक्रेता / सप्लायर / आकस्मिक लेनदारों / कर्मचारी खाता</p> <p>क्रेडिट: बैंक / नकद खाता</p> <p>में किया जाता है।</p> <p>इसलिए, इस प्रणाली के तहत, रसीद और भुगतान विवरण केवल विक्रेता / सप्लायर / संबंधित लेनदारों / कर्मचारी खाते के भुगतान को दर्शाते हैं, जो मौजूदा देयताओं और प्रावधानों के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए दिखाए गए हैं न कि लेखा परीक्षक द्वारा जैसा कि शीर्ष व्यय से करने का दिशानिर्देश किया गया है।</p> <p>सिस्टम अकाउंटिंग की प्रोद्भवन प्रणाली पर आधारित है, अर्थात् लेनदेन खाता-बहियों में देनदारियों की मान्यता पहले और फिर वास्तविक भुगतान के समय निपटान किया जाता है।</p> <p>रसीद के मामले में वर्ष 2016-17 के लिए इसी सिद्धांत का पालन किया गया है</p> <p>लेखा परीक्षक पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक मोड (जैसे टैली सॉफ्टवेयर) के तहत रखे गए अभिलेखों से भी तैयार किए खातों की शीर्षवार व्यय की जांच कर चुके हैं।</p> <p>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस पैराग्राफ को हटाया जा सकता है।</p>
D. 4.1	<p>जीपीएफ, सीपीएफ और एनपीएस खाता</p> <p>हालांकि बैंक ने 8 निवेशों के लिए 4.09 करोड़ रुपये की परिवक्तवता दे दी है जिसमें 56 फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद शामिल हैं, जिसे सामान्य भविष्य निधि खाते में रुपये 3.91 करोड़ शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप रुपये 0.18 करोड़ ब्याज आय की कम दिखाई गई और व्यय से अधिक आय के रूप में दिखाया गया है।</p>	<p>लेखा परीक्षक द्वारा बताई गई ब्याज की छोटी पहचान बैंकों द्वारा ब्याज से कम ब्याज क्रेडिट करती है और जैसा कि जीपीएफ खाते को नकद आधार पर बनाकर रखा गया है, और जीपीएफ के खाता बहियों में बैंक से प्राप्त वास्तविक ब्याज को मान्यता दी गई थी। संस्थान द्वारा पहचान की गई है और वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के साथ इस मासले को उठाया गया है। बैंक ने समझाया कि यह गलती उनकी तरफ से तकनीकी त्रुटि के कारण थी और वे हमारे खातों में छोटी ब्याज का क्रेडिट कर देंगे। पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक- II में संलग्न है।</p>

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर
		<p>अब, उस पत्र के आधार पर बैंक ने पहले ही हमारे बैंक खातों में राशि को क्रेडिट कर जमा कर दिया है। राशि का शेष हिस्सा जल्द ही जमा किया जाएगा।</p> <p>जैसा कि लेखा परीक्षक से पहले ही राशि की पहचान की गई है और संबंधित बैंक द्वारा पहले से ही क्रेडिट दिया जा चुका है, पैरा हटाया जा सकता है।</p>
4.2	<p>पांच निवेशों के संबंध में अर्जित ब्याज की गलत गणना के कारण, निवेश पर व्यय ब्याज और व्यय से अधिक आय का रुपये 0.32 करोड़ अधिक कथन हुआ है।</p>	<p>लेखा परीक्षक कृपया ध्यान दें कि साल 2015-16 में किए गए निवेशों पर वर्ष 2015-16 के अर्जित ब्याज को 2015-16 के लिए जीपीएफ के खाता बहियों में मान्यता प्राप्त नहीं थी क्योंकि खातों को नकद आधार पर बनाए रखा जा रहा है।</p> <p>वर्ष 2016-17 के दौरान जब कहा गया कि निवेश परिपक्व हो गया है, तो अर्जित कुल ब्याज नकद आधार पर खाते में पहचाने गए थे क्योंकि अर्जित ब्याज खाते में कोई राशि नहीं थी।</p> <p>परिणामस्वरूप, संचित ब्याज वर्ष 2015-16 में मान्यता प्राप्त नहीं थी लेकिन वर्ष 2016-17 में खातों बहियों में अर्जित पूरे ब्याज के पुनर्गठन के कारण, पिछले वर्ष में हुई त्रुटि / चूक को वर्ष 2016-17 में निराकरण किया गया है।</p> <p>इसलिए, कोई संशोधन प्रविष्टियों को पारित करने की आवश्यकता नहीं है और उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ को हटाया जा सकता है।</p>
ड.	सामान्य	
5.1	<p>मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित खाते के प्रारूप के उल्लंघन में, 'संयंत्र, मशीनरी और उपकरण' और 'वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण' के लिए अलग-अलग खाताधारक सिक खाते में नहीं रखे गए थे, बल्कि दोनों खातों को क्लब कर दिया गया था।</p>	<p>वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए सिक द्वारा खरीदे गए उपकरण वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण हैं लेकिन उक्त उपकरणों को वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरणों के बजाय उपकरणों शीर्ष के तहत बुक किया गया था।</p> <p>लेखा परीक्षक कृपया ध्यान दें कि संपत्तियों का स्वामित्व अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है, इसलिए खाते में कोई मूल्यहास नहीं लिया गया था। इसलिए, मूल्यहास दर में परिवर्तन के कारण वर्ष 2016-17 के लिए बही-खातों में</p>

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर
		<p>कोई प्रभाव नहीं पड़ा।</p> <p>हालांकि भविष्य में अनुमोदित प्रमुख खातों के तहत संपत्ति के वर्गीकरण के लिए सिक को सूचित किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, पैराग्राफ को हटाया जा सकता है।</p>
5.2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन के मामले में, संस्थान ने लेखांकन टिप्पणियों मूल्यों के नोट्स और अचल परिसंपत्तियों के मूल्यगत मूल्यहास का खुलासा नहीं किया, जो संस्थान के अचल संपत्तियों (अनुसूची -4) में शामिल नहीं थे क्योंकि स्वामित्व प्रायोजकों का ही बना रहा।	लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार जहां तक आवश्यक हो, मिलान और सुधार के लिए सिक को आवश्यक सलाह दी गई है। वही वर्ष 2017-18 के ऑडिट में दिखाया जाएगा
5.3	हालांकि, वर्ष 2016-17 के दौरान सिक को अग्रिम पूंजीगत व्यय के 24 करोड़ रुपये समायोजित किए गए किंतु सिक खाते ने अचल संपत्ति-प्रायोजित परियोजना (अनुसूची- 4 ए) और न ही परियोजना निधि (अनुसूची -1 बी) में समायोजन के प्रभाव का प्रदर्शन नहीं किया गया।	लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार जहां तक आवश्यक हो, मिलान और सुधार के लिए सिक को आवश्यक सलाह दी गई है। वही वर्ष 2017-18 के ऑडिट में दिखाया जाएगा।
5.4	गैर-सिक परियोजनाओं के शेष के निवेश से प्राप्त ब्याज को संबंधित परियोजना खातों के बजाय सिक की आय के रूप में शामिल किया गया था।	लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार जहां तक आवश्यक हो, मिलान और सुधार के लिए सिक को आवश्यक सलाह दी गई है। वही वर्ष 2017-18 के ऑडिट में दिखाया जाएगा।

भारतीय संस्थान खड़गपुर

वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर												
च.	<p>अनुदान-सह-सहायता</p> <p>संस्थान को मुख्य रूप से भारत सरकार से अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। चूंकि प्राप्तियां और भुगतान खातों में खाते के संशोधित प्रारूप के अनुसार कोई अलग शीर्ष नहीं दिखाया गया था, इसलिए अनुदानों का उपयोग ऑडिट में नहीं किया जा सकता है। (संदर्भ पैरा 3.1) हालांकि, इस संबंध में एक बयान संस्थान द्वारा ऑडिट करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। बयान के मुताबिक, 2016-17 के दौरान संस्थान को कुल अनुदान रुपये 441.51 करोड़ (योजना अनुदान: रुपये 1,80.33 करोड़ और गैर-योजना अनुदान: 261.18 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए हैं। इन 441.51 करोड़ रुपये के कुल अनुदानों में से संस्थान ने रुपये 552.08 करोड़ (योजना: 206.60 करोड़ और गैर-योजना अनुदान: रु 345.48 करोड़) का उपयोग किया गया है। योजना अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय (26.27 करोड़ रुपये) को एंडॉवमेंट फंड से अस्थायी ऋण लेना और गैर-योजना अनुदान (84.30 करोड़ रुपये) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति आंतरिक संसाधनों से की गई।</p>	<p>लेखा परीक्षक कृपया ध्यान दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 4-I / 2015-TS-I दिनांक 18.02.2016 के माध्यम से स्पष्ट किया था कि आमतौर पर वायदा किया गया व्यय उपयोग व्यय में परिलक्षित होता है। अनुसूची 3 सी योजना और गैर- योजना अनुदान में सहायता के उपयोग की प्रतिकृति है। संलग्न अनुलग्नक- III</p> <p>मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 18.02.2016 को ध्यान में रखते हुए, मूल्यहास को छोड़कर प्रोद्भूत के आधार पर अनुदान सहायता (अर्थात आवर्ती और गैर-आवर्ती) का उपयोग तैयार किया गया है। योजना और गैर-योजना के तहत अनुदान सहायता के उपयोग की सारांशित स्थिति नीचे दी गई है:</p> <p>1. योजना अनुदान सहायता का उपयोग</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>राशि (रुपए) करोड़</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राप्त अनुदान</td> <td>180.33</td> </tr> <tr> <td>कम: एसओई / यूसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए पिछले वर्ष अर्थात 2015-16 के पुनः प्राप्त करने योग्य शेष राशि</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>उपयोग के लिए उपलब्ध निधि</td> <td>160.33</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 के लिए योजना व्यय</td> <td>209.79</td> </tr> <tr> <td>दिनांक 31.03.2017 को व्यय न हुआ कुल</td> <td>(-) 49.46</td> </tr> </tbody> </table> <p>रुपये करोड़ में</p> <p>यह देखा गया है कि लेखा परीक्षक ने रुपये की रिकवरी योग्य शेष राशि को ध्यान में नहीं रखा है। वर्ष 2016-17 के लिए 20 करोड़ की योजना अनुदान इस संदर्भ में, वर्ष 2015-16 से संबंधित योजना अनुदान शीर्ष के तहत एमएचआरडी की स्वीकृति पत्र संख्या क्रमांक 4-1 / 2015-टीएस-I दिनांकित 20.01.2017 के संबंध में वसूल योग्य शेष राशि के संबंध में आपके अवलोकन के लिए संलग्न है।</p>	विवरण	राशि (रुपए) करोड़	प्राप्त अनुदान	180.33	कम: एसओई / यूसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए पिछले वर्ष अर्थात 2015-16 के पुनः प्राप्त करने योग्य शेष राशि	20.00	उपयोग के लिए उपलब्ध निधि	160.33	वर्ष 2016-17 के लिए योजना व्यय	209.79	दिनांक 31.03.2017 को व्यय न हुआ कुल	(-) 49.46
विवरण	राशि (रुपए) करोड़													
प्राप्त अनुदान	180.33													
कम: एसओई / यूसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए पिछले वर्ष अर्थात 2015-16 के पुनः प्राप्त करने योग्य शेष राशि	20.00													
उपयोग के लिए उपलब्ध निधि	160.33													
वर्ष 2016-17 के लिए योजना व्यय	209.79													
दिनांक 31.03.2017 को व्यय न हुआ कुल	(-) 49.46													

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर										
		<p>संदर्भ अनुसूची- IV</p> <p>उपरोक्त के मददेनजर, लेखा परीक्षक से अनुरोध है कि वे दिनांक 20-01-2017 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र के आधार पर अनुदान सहायता के उपयोग के निर्धारण के लिए वर्ष 2016-17 के लिए शुरुआती वसूल योग्य शेष राशि पर विचार करें।</p> <p>2. गैर-योजना अनुदान सहायता का उपयोग</p> <p align="right">करोड़ रुपये</p> <table border="1" data-bbox="821 961 1333 1507"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>राशि (रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राप्त अनुदान (पारगमन में अनुदान सहित)</td> <td align="right">315.00</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यहास को छोड़कर गैर-योजना / आवर्ती व्यय</td> <td align="right">368.19</td> </tr> <tr> <td>आंतरिक संसाधन से पैदा करने से अतिरिक्त व्यय प्राप्त</td> <td align="right">53.19</td> </tr> <tr> <td>31.03.2017 को खर्च न हुआ कुल</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त के आधार पर उपयोग राशि की समीक्षा की जा सकती है।</p>	विवरण	राशि (रुपये में)	प्राप्त अनुदान (पारगमन में अनुदान सहित)	315.00	वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यहास को छोड़कर गैर-योजना / आवर्ती व्यय	368.19	आंतरिक संसाधन से पैदा करने से अतिरिक्त व्यय प्राप्त	53.19	31.03.2017 को खर्च न हुआ कुल	0.00
विवरण	राशि (रुपये में)											
प्राप्त अनुदान (पारगमन में अनुदान सहित)	315.00											
वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यहास को छोड़कर गैर-योजना / आवर्ती व्यय	368.19											
आंतरिक संसाधन से पैदा करने से अतिरिक्त व्यय प्राप्त	53.19											
31.03.2017 को खर्च न हुआ कुल	0.00											
	(i) संस्थान ने 34.75 करोड़ रुपये अनुदान प्राप्त किया था पिछले वर्ष के वसूल योग्य शेष समायोजन के बाद रिसर्च पार्क (एनआईआईटी) के तहत और उन्होंने प्रगति के प्रमुख पूंजीगत कार्य के तहत रु 5.2 करोड़ खर्च किए, जिसमें 29.63 करोड़	दिनांक 31.03.2017 को खर्च न हुई शेष राशि रु. 24.40 करोड़ एनआईटीटी (अनुसंधान पार्क) अनुदान सहायता के तहत थी जबकि ऑडिट के अनुसार 26.63 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं।										

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर												
	<p>रुपये न व्यय हुई राशि शेष थी।</p>	<p>वर्ष 2016-17 के दौरान रुपये 49,62,50,000 की राशि लेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित 34.75 करोड़ रुपए के बजाय एनआईटीटी (रिसर्च पार्क) के लिए अनुदान सहायता में प्राप्त हुए हैं।</p> <p>एनआईटीटी (अनुसंधान पार्क) के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पिछले वर्ष की वसूली योग्य राशि के समायोजन के बाद रु. 14,87,71,250/- (संदर्भ-शेड्यूल-8), रुपये की राशि एनआईटीटी (रिसर्च पार्क) के खाते में उपयोग के लिए 34,74,78,750 उपलब्ध थे। (संदर्भ अनुसूची-2)</p> <p>एनआईटीटी (रिसर्च पार्क) शीर्ष के तहत अनुदान सहायता का</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">विवरण</th> <th style="text-align: center;">राशि (रुपए) करोड़</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनुदान-सह-सहायता</td> <td style="text-align: center;">49.63</td> </tr> <tr> <td>कम: वर्ष 2015-16 एसओई / यूसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए पिछले वर्ष के पुनः प्राप्ति योग्य शेष</td> <td style="text-align: center;">14.88</td> </tr> <tr> <td>उपयोग के लिए उपलब्ध निधि</td> <td style="text-align: center;">34.75</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 के लिए अनुपस्थित संतुलन</td> <td style="text-align: center;">10.35</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 के लिए व्यय न हुआ शेष</td> <td style="text-align: center;">24.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपयोग इस प्रकार है:</p> <p>कुल व्यय रुपये 10.35 करोड़ में से बिना समायोजित अग्रिम रु. 5.23 करोड़ दिनांक 31.03.2017 को है जो कि पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया था।</p>	विवरण	राशि (रुपए) करोड़	अनुदान-सह-सहायता	49.63	कम: वर्ष 2015-16 एसओई / यूसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए पिछले वर्ष के पुनः प्राप्ति योग्य शेष	14.88	उपयोग के लिए उपलब्ध निधि	34.75	वर्ष 2016-17 के लिए अनुपस्थित संतुलन	10.35	वर्ष 2016-17 के लिए व्यय न हुआ शेष	24.40
विवरण	राशि (रुपए) करोड़													
अनुदान-सह-सहायता	49.63													
कम: वर्ष 2015-16 एसओई / यूसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए पिछले वर्ष के पुनः प्राप्ति योग्य शेष	14.88													
उपयोग के लिए उपलब्ध निधि	34.75													
वर्ष 2016-17 के लिए अनुपस्थित संतुलन	10.35													
वर्ष 2016-17 के लिए व्यय न हुआ शेष	24.40													

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर												
		<p>यह भी देखा गया है कि लेखा परीक्षक ने वर्ष 2016-17 के लिए एनआईटीटी (रिसर्च पार्क) के शुरुआती पुनः गणना करने योग्य शेष को ध्यान में नहीं लिया है। इस संदर्भ में, एनआईटीटी (रिसर्च पार्क) शीर्ष के तहत वर्ष 2015-16 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति पत्र संख्या क्रमांक 4-27 / 2013-टीएस-आई दिनांक 24.01.2017 को वसूल योग्य शेष राशि की स्वीकृति के संबंध में आपके अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है। संदर्भ हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र अनुलग्नक- V में संलग्न है</p> <p>उपरोक्त के मददेनजर, ऑडिट से अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 के लिए प्रारम्भिक बसूली योग्य शेष के निर्धारण के लिए दिनांक 20.01.2017 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र के आधार पर अनुदान सहायता के उपयोग के लिए वर्ष 2016-17 के लिए व्यय न हुए शेष राशि पर विचार करें।</p>												
	<p>(ii) संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1.63 करोड़ रुपये की टीईक्यूआईपी-II अनुदान प्राप्त किया था और वर्ष 2016-17 के दौरान 1.18 करोड़ रुपये (उपरिप्रभार 20% सहित) खर्च किया था जिसके परिणामस्वरूप 0.45 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।</p>	<p>दिनांक 31.03.2017 को व्यय न हुई बकाया राशि लेखा परीक्षक द्वारा बताए गए रुपये 5.45 के बजाय रु. 0.47 करोड़ टीईक्यूआईपी- II अनुदान-सह- सहायता के तहत है।</p> <table border="1" data-bbox="820 1270 1328 1795"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>राशि (रुपये में) करोड़</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रारम्भिक न व्यय हुआ शेष</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>अनुदान-सह-सहायता प्राप्त</td> <td>1.63</td> </tr> <tr> <td>वर्ष 2016-17 के लिए प्रयोग हेतु उपलब्ध निधि</td> <td>1.65</td> </tr> <tr> <td>मूल्य हास छोड़कर वर्ष 2016-17 के लिए व्यय</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td>दिनांक 31.03.2017 को व्यय न हुआ शेष</td> <td>0.47</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	राशि (रुपये में) करोड़	प्रारम्भिक न व्यय हुआ शेष	0.02	अनुदान-सह-सहायता प्राप्त	1.63	वर्ष 2016-17 के लिए प्रयोग हेतु उपलब्ध निधि	1.65	मूल्य हास छोड़कर वर्ष 2016-17 के लिए व्यय	1.18	दिनांक 31.03.2017 को व्यय न हुआ शेष	0.47
विवरण	राशि (रुपये में) करोड़													
प्रारम्भिक न व्यय हुआ शेष	0.02													
अनुदान-सह-सहायता प्राप्त	1.63													
वर्ष 2016-17 के लिए प्रयोग हेतु उपलब्ध निधि	1.65													
मूल्य हास छोड़कर वर्ष 2016-17 के लिए व्यय	1.18													
दिनांक 31.03.2017 को व्यय न हुआ शेष	0.47													

भारतीय संस्थान खड़गपुर

वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर
		वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त न व्यय शेष का निर्धारण करने के लिए लेखा-परीक्षा ने प्रारम्भिक न व्यय शेष पर विचार नहीं किया है। उपरोक्त के मददेतजर, लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किए गए अनुपस्थित शेष के बारे में फिर से जांच की जा सकती है।
	(iii) संस्थान ने एमएचआरडी के जीआईएन-ज्ञान (ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अकादमिक नेटवर्क) कार्यक्रम के लिए 25.59 करोड़ रुपये की राशि भी प्राप्त की थी और 2016-17 के दौरान इस कार्यक्रम में विभिन्न सहभागी संस्थानों को 38.00 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। अतिरिक्त व्यय को पिछले वर्ष की बकिया राशि से पूरा किया गया था और इस प्रकार, आईआईटी, खड़गपुर के पास 9.60 करोड़ रुपये की राशि न व्यय हुई है।	लेखा परीक्षक के साथ सहमत
	ज. शुद्ध प्रभाव पिछले पैराग्राफों में टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव यह था कि 31 मार्च 2017 तक संपत्ति और देयताएं रु. 19.80 करोड़ रुपये अधिक कथन हुई थीं और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय (अधिशेष) का 0.14 करोड़ रुपये न्यून कथन हुआ है।	मुख्य खाते में आय और व्यय (अधिशेष) पर लेखा परीक्षक के पैरा की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव शून्य है। मुख्य लेखा के बैलेंस शीट पर ऑडिट पैरा की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव की प्रबंधन के उत्तर के आधार पर कृपया समीक्षा की जा सकती है। कृपया ध्यान दें कि लेखा परीक्षक के अनुसार बैलेंस शीट के प्रभाव निम्नानुसार हैं: (i) लेखा परीक्षक पैरा 1.1.2 (16 लाख रुपये) के लिए इस मामले में मौजूदा देनदारियों को 16 लाख रुपये कम दिखा दिया गया है और वर्तमान परिसंपत्तियों को भी रुपये 16 लाख घटाया गया है। वर्तमान देनदारियों को 16 लाख के साथ नैटिंग के कारण वर्ष 2016-17 के लिए घालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाने के बजाय कम दिखाया गया है। (ii) लेखा परीक्षक पैरा 1.2.2 (19.96 करोड़ रुपये) के लिए इस मामले में, दोनों शीर्ष (योजना अनुदान में बिना व्यय शेष अनुदान-सह-सहायता और देनदारियों के लिए प्रावधान) एक ही समूह में हैं जिन्हें वर्तमान देयताएं कहा जाता है। इसलिए,

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर
		<p>समूह के अंदर अंतर-हस्तांतरण / गलत-अंतरण, समय देनदारियों / परिसंपत्तियों के पक्ष से कोई बभाव नहीं होता है।</p> <p>हालांकि, संस्थान ने लेखांकन समाधान के लिए उचित कारणां को प्रस्तुत किया है, जो लेखा परीक्षक द्वारा उनके पैरा 1.1.1 और 1.2.2 में वृष्णाछ की गई हैं, इन्हें इटाया जा सकता है एवं प्रबंधन के उत्तर के आधार पर शुद्ध प्रभाव की समीक्षा की जा सकती है।</p> <p>इसके आगे सीपीएफ, जीपीएफ और एनपीएस की आय और व्यय के संबंध में लेखा परीक्षक पैरा की टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव को नोट किया जाता है।</p>
	अनुसूची	
क	<p>आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>निम्न कारणों से आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली अपर्याप्त है।</p> <p>कोई भी आंतरिक लेखा परीक्षण सहित कार्य-व्यवहार में नहीं थी।</p>	मामले की अनुपालन हेतु समीक्षा की जा रही है।
	<p>आंतरिक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को एक बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को आउटसोर्स किया हुआ है और वह फर्म संस्थान का केवल वित्तीय तथा लेखांकन भाग ही देखती है जबकि समझौते के नियम एवं शर्तों में विभिन्न कार्य व्यापक रूप से दिए गए हैं।</p>	मामले की अनुपालन हेतु समीक्षा की जा रही है।
	<p>संस्थान के आंतरिक लेखा परीक्षण स्कोप में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं और कार्य नियुक्ति की शर्तें नहीं हैं। (साब दो कर्मचारी कार्यरत हैं)।</p>	मामले की अनुपालन हेतु समीक्षा की जा रही है।
ब	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>निम्न कारणों से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है।</p> <p>कोई भी लेखांकन सहित कार्य-व्यवहार में नहीं थी।</p>	मामले की अनुपालन हेतु समीक्षा की जा रही है।

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर
	संस्थान वर्ष 2016-17 के लेखा परीक्षण निरीक्षण के लिए प्रबंधन का उत्तर का पालन कर रहा था अनेक मामलों में संस्थान में एक अनुचित प्रक्रिया अपनाई जा रही थी जिसमें सिक के बिलों को एकल हस्ताक्षर से भुगतान किया जा रहा है। अतः अधिक भुगतान की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।	जैसा कि लेखा परीक्षक ने सुझाव दिया है, कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।
	शेष देयताएँ एवं साथ ही प्राप्य राशियों की नियमित अवधि पर समीक्षा नहीं की जाती है।	भविष्यगत अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
	सामग्री की प्राप्ति के प्रमाण हेतु पूर्व-संख्यांकित वस्तु प्राप्ति नोट्स (जीआरएन) जारी करने की कोई प्रणाली व्यवहार में नहीं है। इस प्रकार जीआरएन की कोई भी प्रतिलिपियाँ लेखा विभाग को अग्रेषित नहीं की गई हैं एवं क्रय विभाग को प्राप्त वस्तुओं की कोई सूची अपने कार्यालय में समुचित रिकार्ड रखने के लिए नहीं भेजी गई हैं।	दिनांक 01.04.2017 से नूतन ईआरपी प्रणाली पहले ही लागू कर दी गई है। नूतन ईआरपी प्रणाली के तहत बस्तुएं अब बस्तु प्राप्ति नोट्स (जीआरएन) के माध्यम से ही प्राप्त हो रही हैं।
	आपूर्तिकर्ताओं के आंतरिक वाउचरों (इनवॉयसेज) पर प्रत्यक्षतः लेखा विभाग के माध्यम से कार्रवाई नहीं होती है।	आपूर्तिकर्ताओं की आगत पत्रियां (इनवॉयस) संबंधित विभाग से आवश्यक प्रमाणीकरण के उपरांत ही लेखा अनुभाग में भुगतान हेतु प्रेषित की जा रही हैं। अतः संस्थान द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली जीएफआर के अनुपालन में संगत है।
	साजो-सामान के आधिक्य / न्यूनता की आवधिक जाँच कर रिपोर्ट करने की कोई प्रणाली नहीं है।	भविष्यगत अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
	क्रय अनुभाग में खरीदें केन्द्रीयकृत नहीं हैं।	भविष्यगत अनुपालन हेतु नोट किया गया है।

भारतीय संस्थान खड़गपुर
वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखांकन पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद अनुसार उत्तर

लेखा परीक्षा अनु. संख्या	लेखा आपति	प्रबंधन का उत्तर
	<p>सिक के बहीखातों (लैजरो) और सहयोगी खातों में वाउचरों के संबंध में बिना किसी सूचनात्मक टिप्पणी नोट के आदान-प्रदान की प्रविष्टियां की गई हैं। इस कारण से लेखा परीक्षण को सौंपे गए लैजरो से आदान-प्रदान की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सका है तथा शीर्षवार लेखा वर्गीकरण की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है।</p>	<p>भविष्यगत अनुपालन हेतु नोट किया गया है।</p>
ग	<p>परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली</p> <p>सिक सहित संस्थान ने अचल परिसंपत्तियाँ रजिस्टर नहीं बनाया है। यद्यपि संस्थान में अचल परिसंपत्तियों के लिए वर्ष 2006-07 के बाद से वर्षवार भंडार रजिस्टर (वर्ष के दौरान जोड़ते हुए) और वर्ष 2013-14 से सिक खातों के लिए रखा गया है। यद्यपि वर्षवार भंडार रजिस्टर में किसी अचल परिसंपत्ति का प्रारम्भिक एवं अंतिम बैलेंस नहीं दर्शाया गया है और इन अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कभी भी नहीं किया गया है। इस प्रकार अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में, इन अचल परिसंपत्तियों की अवस्था एवं वास्तविक अस्तित्व जिनकी कीमत ` 1497.60 करोड़ है (नेट वैल्यू) को लेखा परीक्षण रिपोर्ट में निर्धारित नहीं किया जा सका है।</p>	<p>पहले अचल संपत्ति रजिस्टर मानवीय विधियों द्वारा प्रत्येक विभाग /केन्द्र / स्कूल /अनुभाग में तैयार किया जाता रहा है।</p> <p>नूतन ईआरपी प्रणाली के प्रचलन में आने के बाद, अचल संपत्ति रजिस्टर ईआरपी के तहत दिनांक 01 अप्रैल 20017 के बाद से तैयार किया जा रहा है।</p> <p>किसी व्यक्ति को दिनांक 31 मार्च 2018 तक की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के साथ ही परिसंपत्तियों की पहचान हेतु नियुक्ति कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।</p>
घ	<p>वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता : संस्थान वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमित रहा है।</p>	<p>नोट किया गया ।</p>

31 मार्च 2017 के लिए तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

फंड का स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्थायी निधि/मूलधन एवं ऋण			
समग्र निधि / मूलधन निधि	1	16955960424	14915833727
आरक्षित एवं अधिशेष	1A	0	0
विनिर्धारित / अक्षय निधि	2	6494349027	6025627754
चालू ऋण एवं व्यवस्था	3	8276585288	8002471484
कुल		31726894738	28943932965
निधि का अनुप्रयोग		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अचल संपत्तियां	4		
- मूर्त परिसंपत्तियां		11267894520	10941448325
- अमूर्त परिसंपत्तियां		115482558	66135673
- कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस		3592654544	2839096484
निवेश- विनिर्धारित / अक्षय निधि से	5	5194639231	5120859089
- दीर्घ अवधि			
- लघु अवधि			
निवेश- अन्य	6	3579323805	3112947443
चालू परिसंपत्तियां	7	1547627825	1223836397
ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	6429272255	5639609554
कुल		31726894738	28943932965
विशिष्ट लेखा नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा टिप्पणियां	24		



(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)



(सी. ए. वी. भट्टाचार्य)
उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)



(पी. पाइन)
कुलसचिव



(पी. पी. चक्रवर्ती)
निदेशक

दिनांक: 10 जुलाई 2017



31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	264684547	442936955
अनुदान / रियायतें	10	3923045250	3522391148
निवेश से आय	11	19942615	51927277
अर्जित व्याज	12	27445995	37740238
अन्य आय	13	227976877	203450495
पिछले कालखंड की आय	14	4342266	20173220
कुल(A)		4467437551	4278619333
व्यय			
स्टाफ वेतन एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15	2607226573	2583426629
शैक्षणिक खर्चे	16	995312909	876362639
प्रशासनिक एवं सामान्य खर्चे	17	616856587	576005999
यातायात प्रभार	18	3387557	3587791
मरम्मत एवं रख रखाव	19	203724487	175155366
वित्त लागत	20	402181	353613
अवमूल्यन	4	735847515	1265407175
अन्य खर्चे	21	25326687	42405560
पिछले कालखंड के खर्चे	22	2787324	68981655
कुल(B)		5190871819	5591686427
अवमूल्यन समायोजन से पूर्व आय से अधिक व्यय कुल(B-A)		723434268	1313067094
परिसंपत्तियों को योजना निधि/परियोजना/परिसंपत्तियों आदि का स्वामित्व स्थानांतरण आदि से परिसंपत्तियों के क्रय हेतु समतुल्य राशि के लिए अक्षय निधि/ मूल आरक्षित में स्थानांतरण		735353178	1264775313
आधिक्य / (घाटा) मूल निधि में ले जाने से शेष		11918910	(48291780)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखांकन टिप्पणियां	24		

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

(सी.ए. वी. भट्टाचार्य)
उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)

(पी. पाइन)
कुलसचिव

(पी.पी. चक्रवर्ती)
निदेशक

दिनांक: 10 जुलाई 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक कुल राशि		
बैंक में कुल राशि	650137524	438826954
नगद कुल राशि	226220	301948
प्राप्त अनुदान		
गैर योजना	2611800000	2800000000
योजना	1803300000	1951252000
वर्ष के दौरान प्राप्त पिछले वर्ष का पारगमन अनुदान (एनआईटीटी- अनुसंधान पार्क)		30000000
ऋण, अग्रिम एवं जमा	1547049011	1097744221
परिपक्व निवेश-विनिर्धारित/ विशिष्ट निधि	5396579207	5657860142
परिपक्व निवेश-अन्य	4432315108	5833994907
निवेश से प्राप्त ब्याज	17050070	51293030
ब्याज से आय	18171868	28090133
विनिर्धारित/अक्षयनिधि/विशिष्ट निधि हेतु प्राप्त कुल राशि	875447676	451808023
अन्य प्राप्तियां	250347133	267569637
कुल	17602423818	18608740996
भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विविध लेनदार/वर्तमान दायित्वों के समायोजन हेतु किया गया भुगतान एवं प्रावधान (कार्मिकों एवं विद्यार्थियों आदि सहित)	7102141545	6651609136
किया गया निवेश-विनिर्धारित/विशिष्ट निधि	5724273591	5161305344
किया गया निवेश-अन्य	4175816568	5763598510
वित्त व्यय	311105	353614
विदेशी उपकरण क्रय हेतु एलसी	0	381510649
अंतिम शेष राशि		
बैंक में कुल राशि	599880926	650137524
नगद कुल राशि	82	226220
कुल	17602423818	18608740996

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

(सी.ए. बी. भट्टाचार्य)
उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)

(पी. पाइन)
कुलसचिव

(पी.पी. चक्रवर्ती)
निदेशक

दिनांक: 10 जुलाई 2017



31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 1 : स्थाई निधि/ मूल निधि

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में कुल	13645147236		778408108	
घटाना : पूर्व लेखा-परीक्षा रिपोर्ट / निरीक्षण के अनुसार अव्यय शेष योजना अनुदान में स्थानांतरित	0		13299530	
घटाना: पिछले वर्ष का प्रौद्योगिकी अतिथि गृह से लाभ अक्षय निधि में शामिल और अब पुनःसमूहीकरण	1845425	13643301810		765108578
जोड़ :				
वर्ष 2014-15 तक के योजना अनुदान से निर्मित कुल परिसंपत्ति			11798315462	
घटाना : संचित समायोजित अवमूल्यन 2014-15 तक	0		187897168	
आरक्षित निधि से स्थानांतरित नियोजित अनुदान एवं विनिर्धारित निधि से निर्मित कुल परिसंपत्ति	0		11610418294	
जोड़ : प्रायोजित परियोजना राशि से क्रय परिसंपत्तियां जहां संस्थान का स्वामित्व निहित	160593417		52470121	
जोड़ : एमएचआरडी से योजना अनुदान मूल निधि व्यय हेतु की सीमा तक	1370257928		1818149555	
जोड़- वर्ष 2016-17 में व्यय/ व्यापारिक देयताएं उपयोगित/अक्षय निधि में स्थानांतरित के लिए प्रावधान	113806008			
जोड़: एमएचआरडी से अनुदान हीरक जयंती सहित पूंजीगत व्यय का उपयोग	24908800			
कुल	1669566153		13481037970	
घटाना: राजस्व आय एवं व्यय से स्थानांतरित नियोजित अनुदान के क्रय परिसंपत्ति पर अवमूल्यन	734202550	935363603	1075961530	12405076440
विनिर्धारित / विशिष्ट निधि 2015-16 से निर्मित परिसंपत्ति			211959011	
घटाना : समायोजित अवमूल्यन 2014-15 तक			45657	
विनिर्धारित निधि से क्रय कुल परिसंपत्ति वर्ष 2014-15 तक के संचित अवमूल्यन के बाद मूल आरक्षित खाते में स्थानांतरण	0		211913354	
जोड़ : वर्ष में विनिर्धारित निधि से निर्मित अचल संपत्ति				
एनआईआईटी (साइंस पार्क)	51134137		200000000	
वर्ष में जीएसएसओटी	940149		1701591	
बहु विशेषज्ञ अस्पताल	259273042		262112394	
एनएसएस/एम.टैक छात्रवृत्ति	2003252		25000	
अन्य अनुदानित चैयर				
कुल	313350580		675752339	
घटाना: राजस्व आय एवं व्यय से स्थानांतरित विनिर्धारित निधि से क्रय परिसंपत्ति पर अवमूल्यन	1150628	312199952	870958	674881381
जोड़ : अचल संपत्ति निर्माण के लिए दान		529029013		
जोड़- बैंक गारंटी के एवज में प्रतिभूति के लिए कालखंड पूर्व समायोजन		34240367		
जोड़ : आय एवं व्यय खाते से व्यय से अधिक आय स्थानांतरण		11918910		-48291780
कुल		15466053655		13796774619
सक्रिय परियोजना व्यय हेतु आय-व्यय खाते में स्थानांतरित		65112522		151627383
उप-कुल		65112522		151627383
वर्षांत में संस्थान खाते में कुल		15400941133		13645147236
जोड़ : मूलधन एवं परियोजना निधि-सक्रिय		1528508820		1254107680
जोड़ : मूलधन निधि - प्रौद्योगिकी अतिथि गृह		26510471		16578812
वर्षांत में कुल		16955960424		14915833728


Naayak
(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 1A: आरक्षित एवं आधिक्य

(राशि रुपये में)


विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
			12023483693	11822377305
1) मूलधन आरक्षित : पिछले खाते के अनुसार घटना : पूर्व कालखंड समायोजन घटना : वर्ष 2014-15 में अवमूल्यन दर में परिवर्तन से वचत में वर्ष 2014-15 का लघु अवमूल्यन जोड़ : (a) स्थाई निधि / मूल निधि में योगदान (i) अनुदान सहयोग राशि 2016-17 से निर्मित परिसंपत्ति (ii) स्थाई निधि से स्थानांतरित विनिर्धारित एवं अन्य निधि से निर्मित परिसंपत्ति			13209220 187897168	11822377305
घटना: (b) स्थाई निधि से पूर्व वर्ष स्थानांतरित के अवमूल्यन को घटना Less: (c) वर्ष के दौरान अवमूल्यन (योजना अनुदान/ विनिर्धारित/ विशिष्ट राशि से अर्जित संपत्ति पर अवमूल्यन) घटना : अनुदान सहयोग राशि एवं विनिर्धारित निधि से निर्मित कुल परिसंपत्ति स्थाई निधि में स्थानांतरित				0 11822377305
2) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ना घटना: वर्ष के दौरान समायोजन (अचल संपत्ति के उपरगामी पुनर्मूल्यांकन पर अवमूल्यन)				0
3) विशिष्ट आरक्षित पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ना घटना: वर्ष के दौरान घटौती				0
कुल		0		0


(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 2 : विनिर्धारित / अक्षय निधि


विवरण	अक्षय निधि	आईडीएफ	बहु विशेषज्ञता अस्पताल	अनुसंधान पार्क (एनआईआईटी)	हीरक जयंती	जीएस एसओटी	आरसी एवं आरएससी	आईईएस पीएफ	सीईटी	छात्रवृत्ति एनएसएम/ एम.टेक
A) निधि का प्रारम्भिक कुल	3378722117	801187337	714547083	0	0	81931193	784733	66527767	13324772	65244288
B) निधि में जोड़ना										
i) दान/अनुदान/अन्य				347478750				9259911		391875
ii) पारगमन में अनुदान										
iii) स्थाई निधि/सहायिकाएं/राजस्व खाते में स्थानांतरित										
iv) निवेश से आय	130675784	24557653	24902218			5049088		3037460	722919	2282209
v) संचित व्याज	112136975	43420496	18394658			1178554		2067425	297298	1889045
vi) कालखंड पूर्व समायोजन										
vii) संस्थान खाते में वापसी ऋण										
viii) एमएचआरडी/ अन्य विनिर्धारित निधि से प्राप्य योग्य निधि	24908800									
ix) योजना अनुदान से व्यय/विनिर्धारित/अक्षय निधि/ ऋण देयता हेतु प्राप्त फंड	27897349				24908800					
x) आवेदन शुल्क										
xi) पैंशन प्राप्त कर्ताओं से प्राप्त अंशदान										
xii) सदस्यों से प्राप्त अबल संपत्ति										
xiii) अन्य			6817000					3246580		63900860
कुल (A+B)	3674341026	869165486	764660958	347478750	24908800	88158835	10044644	74879232	14344989	133708278
C) फंड उद्देश्यों हेतु उपयोगिता/व्यय										
i) मूलधन व्यय										
a) चल रहे स्थाई निर्माण कार्य			259273042	51134137	24908800					
b) अबल संपत्ति						940149				2003252
c) अग्रिम	545250		167543958	52365863						
d) एनएसएस को अग्रिम										
e) प्रारम्भिक खर्च				23748						
f) संस्थान में वापसी योग्य ऋण /अन्य विनिर्धारित निधि	24908800									
g) योजना अनुदान में स्थानांतरित परियोजना व्यय राशि										
h) कालखंड पूर्व कैपीटल बर्न /परियोजना स्थानांतरण के लिए योजना राशि समायोजन	200000000									
कुल	225454050	0	426817000	103523748	24908800	940149	0	0	0	2003252
ii) राजस्व व्यय										
a) आकरिमकताएं							193753			
b) यातायात प्रभार							151579			16046
c) वेतन एवं मजदूरी			1440000				1300563			
d) मानदेय							550912			948778
e) प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय										
f) कालखंड पूर्व समायोजन -										
g) आय-व्यय खाते में स्थानांतरित कालखंड पूर्व आय										
h) कालखंड पूर्व समायोजन - वर्ष पूर्व संस्थान खाते में पूर्व समायोजित										
i) पाठ्यक्रम फीस एवं छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवं सम्मान							4772109	3399402		56869192
j) भोजी, संभोजी एवं कार्यशाला										
k) मरम्मत एवं रख-रखाव						138612				
l) पैंशनरों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति										
m) औपधि विक्रेता को भुगतान										5023
n) देय ऊपरी खर्च										
o) ईएम स्टाफ के भुगतान										
p) बैंक प्रभार सहित अन्य प्रशासनिक खर्च	633	633	9848508			390664	1712449	57		682628
कुल	633	633	11288508	0	0	694810	8681365	3399459	0	58521666
कुल (C)	225454683	633	438105508	103523748	24908800	1634959	8681365	3399459	0	60524918
वर्षांत में कुल(A+B-C)	3448886343	869164854	326555450	243955002	0	86523876	1363279	71479773	14344989	73183359
द्वारा दर्शाया गया:										
नकद एवं बैंक कुल	6427212	55364	9509993	243955002		530838	1474105	1277364	663752	4758472
निवेश	3119997940	827905866	298770800			84824556		68134983	13383939	66535842
संचित किंतु बकाया नहीं व्याज	113164748	41203626	18394657			1178554		2067425	297298	1889045
घटाना: बकाया किंतु भुगतान नहीं हुआ	-200000000		-120000			-10072		-110826		
एमएचआरडी/ अन्य विनिर्धारित/अन्य से प्राप्य योग्य निधि	409296443									
कुल (D)	3448886343	869164855	326555450	243955002	0	86523876	1363279	71479773	14344989	73183359
E) बिक - विनिर्धारित निधि										
कुल (D + E)										


(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)



(राशि रुपये में)

बीजीसोम	जीआईएस	बीसीराय स्मृति	विजय कियावत अक्षय निधि	नेहरु संग्रहालय	अनुदानित चेर प्राध्यापक	पीआरएमएस एमएफपी	ओएससी	सहायिका निधि	अनुमोदित परियोजना हेतु संस्थान अंशदान	आईएसडब्ल्यूटी	कुल	
											चालू वर्ष	पिछला वर्ष
36005656	4708708	247441	1718095	2958449	141373268	404359040	127382448			11859320	5852881716	5718247384
					20585626			71790462		17056529	466563153	155677595
1719948	128078	25655	32719	118383	7758018	20402135	3161869	32780678	500000000	626826	532780678	238121912
1137985	174808		78920		3191464	10537679	6570993				225200962	235493843
											201076300	0
											0	79600000
											24908800	484744651
											52806149	485640151
											0	3198900
											8982850	0
	5798002					8982850					5798002	9889440
								5547		550000	74519987	16237284
38863590	10809596	273096	1829735	3076832	172908376	444281704	137115310	104576687	500000000	30092675	7445518597	7426851160
											0	0
											0	0
											0	0
										646270	335315979	762595081
											3589671	6024051
											220455071	43251800
											0	0
											23748	4367459
											24908800	643556242
			100000								100000	0
											200000000	0
0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	646270	784393269	1459794633
											0	0
											515214	0
											4741609	1536734
											13429475	11871580
											2514597	8400480
											0	0
											0	9086975
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
	5440096	633		52	2735807	60604		1817675		648885	23339321	34816490
0	5440096	633	0	52	16031779	46639299	0	6412003	0	9665368	166776301	114174811
0	5440096	633	100000	52	16031779	46639299	0	6412003	0	10311638	951169570	1573969444
38863590	5369500	272464	1729735	3076780	156876597	397642405	137115310	98164684	500000000	19781037	6494349027	5852881716
423645	3013866	272464	461234	3076780	3931324	6187436	108530	98659277		5544208	390330867	140710377
37301961	2180826		1189581		150559861	380917290	130435787			12500000	5194639231	4985359089
1137984	174808		78920		3191465	10537680	6570993				199887202	249720224
					-806053						-201541544	-10219266
								-494593			911033272	487311293
38863590	5369500	272464	1729735	3076780	156876597	397642405	137115310	98164684	500000000	19781037	6494349027	5852881718
												172746038
												6025627754


 (एस. नायक)
 सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 3: वर्तमान देयता एवं प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
A. वर्तमान देयता				
1. स्टाफ से जमा				
2. विद्यार्थियों से जमा		100153672		96296672
3. विविध लेनदार				
a) वस्तुओं हेतु			17831139	
b) सेवाओं हेतु	76629799		81478456	
c) अन्य	98079918		6200435	
d) विक्रेता	8887112		3145900	
e) सहायिका हेतु बकाया देयता				
- जेईई				
- गेट				
- विजय क्रियावत अक्षय निधि				
-आरसी एवं आरएससी	110826		154989	
- एचएएल पीठ प्राध्यापक				
- एचएएल-संस्थान को देय दावा				
- अन्य दानित पीठ	300000		13,50,033	
- पैंशनर्स को चिकित्सा सुविधा			23,28,705	
- बहु विशेषज्ञता अस्पताल			1,20,000	
- जीआईएस			52,439	
- नेहरु संग्रहालय			6,66,631	
- छात्रवृत्ति देयता			5546469	
- अक्षय निधि				
4. जमा-अन्य (ईएसडी, प्रतिभूति जमा सहित)		184007655		118875196
5. सांविधिक देयता (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी, टैक्स, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस)		90175952		84426261
a) अतिकालदेय				
b) अन्य	2813820	2813820	44371872	44371872
6. अन्य वर्तमान देयताएं				
a) वेतन	178814678		75163189	
b) छात्रवृत्ति हेतु अतिकालदेय देयता	1748075			
c) टीसीसीएस लि.	90		90	
d) कैपिटलाइजेशन ऑफ बक्सर्स			143520	
e) करियर अवार्ड			617756	
f) नकद देय व्यय	238270		265074	
g) डिपोजिट बर्क			3824942	
h) स्टूडेंट्स फेस्ट	49100		49100	
i) अचल संपत्ति निर्माण हेतु दान			9229270	
j) जीआईएस	120		120	
k) विद्यार्थियों हेतु बैंक ऋण			386275	
l) स्रिक			30856	
m) वैज्ञानिक शोध पुरस्कार			280522	
n) बायजकास्ट फेलोशिप	309615		309615	
o) स्पॉन्सरशिप/सेमिनार/कांफ्रेंस	1568188		1568188	
p) टीएनआईटीटी हेतु अनुदान	-1649015			
q) गैरपहचान/विविध प्राप्तियां			2414808	
r) सीपीएफ को देय				

Swayam

(एस. नायक)

सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 3: वर्तमान देयता एवं प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
s) राजेन्द्र मिश्रा स्कूल	-100		7204750	
t) विशिष्ट फैलोशिप			300000	
u) माइनिंग स्पान्सर	537705		537705	
v) टीएमईएस	250000	181866726	250000	102575780
7. ऋण देयता -				
a) अक्षय निधि	545250		27897349	
b) अग्रिम कोर्स फीस प्राप्ति	119508150		131900500	
c) अप्रयुक्त अनुदान सहायता	0			
d) पायलट प्रोजेक्ट हेतु अप्रयुक्त अनुदान	100000		100000	
e) सेमिनार हेतु अप्रयुक्त अनुदान	102152		102152	
f) पीएचई प्रशिक्षण हेतु अप्रयुक्त अनुदान	299000		299000	
g) स्पोर्ट्सशिप सीएनएफ सहित	2050474		3770975	
h) विद्यार्थी कल्याण निधि अप्रयुक्त	2602396		2602396	
i) अप्रयुक्त सीआरआर परियोजना निधि	10859158		124859158	
j) बाहरी देय छात्रवृत्ति			1748075	
k) योजना अनुदान में व्यय हेतु प्रावधान			0	
l) अचल संपत्ति निर्माण हेतु अनुदान			529029013	
m) गोपाल राजगढ़ीया (एसजीआरआईपी) अप्रयुक्त शेष			1752664	
n) ज्ञान परियोजना (जीआईएएन) का अप्रयुक्त शेष	1721963325		1509067508	
o) पेट्रोलियम अभियांत्रिकी के बहु शाखा का अप्रयुक्त शेष			31028014	
p) संस्थान के खाते से देय छात्रवृत्ति			2007642	
q) अन्य दायित्व	5982979	1864012884	1752693	2367917139
कुल (A)		2423030709		2814462920
B. प्रावधान				
1) ग्रेच्युटी	565680084		553740415	0
2) संस्थानों को पीजीडीबीए कोर्स फीस हेतु प्रावधान	8262000		8262000	
3) संचित छुट्टी नकदीकरण	641795716		527420500	
4) व्यापार वारंटी/दावे	21566276		23249243	
5) व्यय हेतु प्रावधान	125290483		132712362	
6) संसहायिकी ब्याज हेतु प्रावधान	34374813			
7) एनआईटीटी (रिसर्च पार्क) देयताओं हेतु प्रावधान	48865863			
8) बहु विशेषज्ञता अस्पताल की देयताओं हेतु प्रावधान	167543958			
9) परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	74274331	1687653524	85200000	1330584520
कुल (B)		1687653524		1330584520
कुल (A + B)		4110684233		4145047440
(C) प्रौद्योगिकी अतिथि गृह - वर्तमान दायित्व (विवरण सीट संलग्न)		7730964		4009916
(D) वर्तमान देयता - स्रिक		87846679		128937059
परियोजना निधि (परियोजना परिसंपत्ति प्रस्तुति) - स्रिक		4070323412		3724477069
कुल (A + B + C + D)		8276585288		8002471484

Arayan
(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 3(a): प्रायोजित परियोजना

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रारम्भिक कुल राशि		वर्ष में प्राप्तियां/ रिकवरी	कुल	वर्ष में कुल व्यय	अंत शेष कुल राशि	
		जमा	निकासी				जमा	निकासी
1	ग्लोबल इनिसिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क- एमएचआरडी	220015939		255944691	475960630	379976139	95984491	
	ग्लोबल इनिसिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क- यूकेईआरआई	24325000			24325000	0	24325000	
2	उप कुल (A)	244340939		255944691	500285630	379976139	120309491	0
	मिक्- प्रायोजित परियोजना मिक् खाते के अनुसार विवरण	1264726569		1172597905	2437324474	835670640	1601653834	
	उप कुल (B)	1264726569		1172597905	2437324474	835670640	1601653834	0
	कुल (A+B)	1509067508	0	1428542596	2937610104	1215646779	1721963325	0

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूचि 3(b): प्रायोजित फैलॉशिप एवं छात्रवृत्ति

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रारम्भिक कुल राशि		वर्ष में लेन देन	कुल	वर्ष में कुल व्यय	अंत शेष कुल राशि	
		जमा	निकासी				जमा	निकासी
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मंत्रालय अन्य							
	कुल	0	0	0	0	0	0	0

Asayee

(एस. नायक)

सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 3C एमएचआरडी से अप्रयुक्त अनुदान

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
A. प्लॉट अनुदान : भारत सरकार		
पिछला बकाया	-200014769	-20341912
कालखंड पूर्व समायोजन		148340565
एनआईटीटी (रिसर्च पार्क) के लिए आईडीएफ से राशि स्थानांतरित		93000000
हीरक जयंती परियोजना के लिए अक्षय निधि से राशि स्थानांतरित		37914242
समायोजित प्रारंभिक शेष	-200014769	258912895
जोड़ :(i) वर्ष के दौरान प्राप्तियां	1803300000	1951252000
(ii)एलसी मार्जिन राशि वर्ष में	130912362	
(iii) सीपीआर परियोजना से स्थानांतरित राशि	114000000	
कुल (A)	1848197593	2210164895
B. घटना :		
राजस्व व्यय हेतु प्रयोग किया	773045250	722391148
आरक्षित निधि/ अक्षय निधि/मूल निधि में स्थांतरित स्थाई व्यय हेतु प्रयोग किया	1370257928	1514576154
कार्पस में स्थानांतरित राशि		
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम/परियोजना व्यय सिक हेतु प्रावधान	74274331	42300000
विदेशी क्रय हेतु प्रावधान-आंशिक भुगतान	125290483	130912362
कुल (B)	2342867992	2410179664
व्यय नहीं हुई अनुदान राशि (A-B)	-494670399	-200014769
C. गैर नियोजित अनुदान: भारत सरकार		
पिछला बकाया	0	0
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	3150000000	2800000000
कुल (C)	3150000000	2800000000
D. घटना धन वापसी		
घटना राजस्व व्यय हेतु प्रयोग	3150000000	2800000000
घटना : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयोग		
कुल (B)	0	0
अनुदान में व्यय न हुई राशि (A-B)	-494670399	-200014769

Asayee

(एस. नायक)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलना-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची- 4 : अचल संपत्ति (समेकित)

विवरण	अचल संपत्ति दर	प्रारंभ ब्याक				अचल संपत्ति				नेट ब्याक				
		बनने के दौरान जोड़	बनने के दौरान खटौती	चालू ब्याक में लापत / मूल्यांकन	ब्याक में ब्याक	अधिभू/ कमी अचल संपत्ति हेतु पूर्ण काबू/ संभावित	ब्याक में शेयर समायाजन के बाद	ब्याक में शेयर	ब्याक में शेयर	बनने के दौरान जोड़	बनने के दौरान खटौती	चालू ब्याक में लापत / मूल्यांकन	ब्याक में ब्याक	ब्याक में ब्याक
स्वयं सम्पत्ति														
A) चल सम्पत्ति														
1 भूमि														
a) फ्री होल्ड	0%	158967666	0	0	158967666	0	0	0	0	0	0	0	0	158967666
b) लीजहोल्ड														
कुल		158967666	0	0	158967666	0	0	0	0	0	0	0	0	158967666
2 भवन														
a) ऑन फ्रीहोल्ड लैंड														
b) ऑन लीजहोल्ड लैंड	2%	7077047256	0	0	7174157379	0	0	424228882	0	424228882	141540945	0	0	6606445349
c) कार्यालय परिसर एवं गैर आवासीय भवन	2%		0	0										
d) आवासीय फ्लैट, एवं बैंक एवं पोस्ट ऑफिस एवं अतिथि गृह	2%		0	0										
e) सांख्यिकीय स्वीकृत/परिवार	2%		0	0										
f) भूमि पर सुपरग्रुन्ट्स एंटीटी से संबंधित	2%	3734042	31602971	0	35337013	74681	74681		632059		74681	706740	781421	34555592
3 रोड एवं ड्रेनेज	2%	12948866	0	0	12948866	258977	258977		0		258977	258977	517954	12430912
4 स्वीजिंग एवं ड्रेनेज		7083730164	128713094	0	7222443258	424562540	424562540		2574262		141874603	144448865	569011405	6663431853
5 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	2167613961	380977164	0	2548591125	291923638	291923638		19048858		108380698	127429556	419353195	2129237930
6 वाहन	10%	17237305	1872186	0	19109491	4563288	4563288		187219		1723731	1910949	6474237	12635254
7 फर्निचर एवं फिक्स्ड	7.50%	320093488	40235772	0	360329260	61547801	61547801		3017683		24007012	27024695	88572496	271756764
8 कार्यालय उपकरण	7.5%	314648522	11454722	0	326103244	89637178	89637178		859104		23598639	24457743	94094921	232008323
9 कंप्यूटर्स / परिफरल्स	20%	513561828	127288443	0	640830271	243979185	243979185		25453689		102712366	128166054	372145239	268685032



(एस. नायक)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची- 4 : अचल संपत्ति (समेकित)

विवरण	अचल संपत्ति दर	प्रति ब्याक										अचल संपत्ति		नेट ब्याक		(एन सी ई में)
		बालू चिन्तन एवं प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	चालू संपत्ति में लागत/मूल्यांकन	वर्ष में अचल संपत्ति में प्रारम्भ में शेष	अधिष्ठा/कमी अचल संपत्ति में प्रारम्भ में शेष	2015-16 में अचल संपत्ति में परिवर्तन हेतु पूर्व कालांतर में समाप्त	वर्ष में अचल संपत्ति के जोड़	वर्ष में अचल संपत्ति के घटाव	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अचल संपत्ति	वर्ष में अचल संपत्ति	चालू संपत्ति में अचल संपत्ति	
10 वैश्वीय स्वामित्व	5%	68375330	38366692	0	106742022	8308688	0	8308688	3418767	1918335	0	5337101	13645789	93096233	60066642	
11 पुस्तकालय पुस्तकें	10%	173784305	8928735	0	182713040	47912385	0	47912385	17378431	892874	0	18271304	66183689	116529351	125871920	
12 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	1222440394	230772573	0	1453212967	97795232	0	97795232	97795232	18461806	0	116257037	214052269	1239160898	1124645162	
13 दूर-दृश्य उपकरण	7.5%	260970	169000	0	429970	19573	0	19573	19573	12675	0	32248	51821	378150	241397	
14 सूक्ष्मदर्शी एवं जमापत्र	2%	34484423	9136075	0	43620498	1910940	0	1910940	689688	182722	0	872410	2783350	40837148	32573483	
15 अन्य अचल संपत्तियां	8%	74669898	428900	0	75089798	17920776	0	17920776	5973592	34312	0	6007904	23928680	51170118	56749122	
कुल		4907170424	849610262	0	5756790686	845518683	0	845518683	385697726	7006275	0	455767001	1301285685	4455495001	4061651740	
कुल अचल संपत्ति		12159868254	978323356	0	13138191610	1270081223	0	1270081223	527572330	72643537	0	600215867	1870297090	11267894520	10889787030	
B) चल संपत्ति																
i) पुस्तकालय जर्नल	40%	1377900261	177065525	0	1554965786	1325250903	0	1325250903	52649358	70826210	0	123475568	1448726471	106239315	52649358	
ii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	22477192	7913008	0	30390200	8990877	0	8990877	8990877	3165203	0	12156080	21146957	9243243	13486315	
कुल चल संपत्ति		1400377453	184978533	0	1585355986	1334241780	0	1334241780	61640235	73991413	0	135631648	1469873428	115482558	66135673	
C) Capital Working Progress		2839096484	1164258050	462800711	3540553823	0	0	0	0	0	0	0	0	3540553823	2839096484	
कुल (A+B)		16399342191	2327559939	462800711	18264101419	2604323003	0	2604323003	589212565	146634950	0	735847515	3340170518	14923930901	13795019187	
D) निर-की-स्वार्थ संपत्ति		48318686	556340	21039	48853987	1752072	0	1752072	1752072	106855	1052	1886876	3608949	45245038	48566614	
E) प्रौद्योगिकी अतिरिक्त श्रृंखला		6656521	2540882	0	9197403	1561839	0	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5094881	
कुल (A+B+C+D)		16454317398	2330657161	462821750	18322152809	2607636914	0	2607636914	591505940	146979381	1052	738484271	3346121187	14976031622	13846680482	

Karyak
(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची- 4 (क): विनिश्चित अचल संपत्ति

विवरण	अचल संपत्ति										अचल संपत्ति				
	अचल संपत्ति दर	चालू वित्त वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्य/कम	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चालू संपत्ति में लागत / मूल्य/कम	अधिक/कमी अचल संपत्ति हेतु पूर्व कालखंड समायाजन	वर्ष के दौरान हेतु पूर्व कालखंड समायाजन के बाद	वर्ष के दौरान शेयर वारंश में शेयर	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अचल संपत्ति	वर्ष के दौरान अचल संपत्ति	चालू संपत्ति में	पिछले वर्षों में	
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	11231763	2016351	0	13248114	1123176	0	0	0	0	100818	662406	1785582	11462532	10108687
2 वाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्निचर एवं फिक्सर्स	7.50%	1051856	52460	0	1104316	148748	0	0	0	0	3935	82824	231572	872744	903108
4 कार्यालय उपकरण	7.5%	1331291	0	0	1331291	99847	0	0	0	0	99847	99847	199694	1131597	1231444
5 कंप्यूटर्स / प्रिंटर/कॉपी	20%	528548	874590	0	1403138	156440	0	0	0	0	174918	280628	437068	966070	372108
6 वैज्ञानिक संपत्तियां	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 परत कावच पुस्तकें	10%	249245	0	0	249245	49850	0	0	0	0	0	24925	74774	144471	199396
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ट्यूबलैस एवं जलपूरि	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 अन्य अचल संपत्तियां	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		14392703	2943401	0	17336104	1578061	0	1578061	0	1150628	279670	1150628	2728689	14607415	12814643
चालू वर्ष का कुल		14392703	2943401	0	17336104	1578061	0	1578061	0	1150628	279670	1150628	2728689	14607415	12814643
पिछले वर्ष का कुल		682112394	310407179	0	972519573	1578061	0	1578061	0	1150628	279670	1150628	2728689	972519573	682112394
चालू वर्ष का कुल		678505097	313350580	0	989855877	1578061	0	1578061	0	1150628	279670	1150628	2728689	987126988	674927037

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति- जेईई

विवरण	अचल संपत्ति										अचल संपत्ति				
	अचल संपत्ति दर	चालू वित्त वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्य/कम	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चालू संपत्ति में लागत / मूल्य/कम	अधिक/कमी अचल संपत्ति हेतु पूर्व कालखंड समायाजन	वर्ष के दौरान हेतु पूर्व कालखंड समायाजन के बाद	वर्ष के दौरान शेयर वारंश में शेयर	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अचल संपत्ति	वर्ष के दौरान अचल संपत्ति	चालू संपत्ति में	पिछले वर्षों में	
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	998889	0	0	998889	99888	0	0	0	0	0	49944	149833	849056	899001
2 वाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्निचर एवं फिक्सर्स	7.50%	377893	0	0	377893	56684	0	0	0	0	0	28942	85026	292867	321209
4 कार्यालय उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 कंप्यूटर्स / प्रिंटर/कॉपी	20%	822617	189440	0	1012057	288874	0	0	0	0	37888	202411	491285	520772	533743
6 वैज्ञानिक संपत्तियां	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 परत कावच पुस्तकें	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ट्यूबलैस एवं जलपूरि	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 अन्य अचल संपत्तियां	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		2199399	189440	0	2388839	445446	0	445446	0	37888	37888	280698	726144	1662695	1753953
चालू वर्ष का कुल		2199399	189440	0	2388839	445446	0	445446	0	37888	37888	280698	726144	1662695	1753953

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति- गेट

विवरण	अधमूल्य दर	प्रति वर्ष				अधमूल्य				गेट				
		चाहूँ तिर वर्ष के अरु में लागू/मूल्यांकन	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहूँ वापस में लागत / मूल्यांकन	अधिक/कमी अधमूल्य हेतु पूर्व कालखंड समायाजन	2014-15 में अधमूल्य विधि में परिवर्तन हेतु पूर्व कालखंड समायाजन	वार्षिक में शेष समायाजन के बाद	वार्षिक में शेष वार्षिक में शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अधमूल्य	वर्ष में संचित अधमूल्य	चाहूँ वापस में
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	2247047	0	0	2247047	224704	0	0	112352	0	0	337056	1909991	2022343
2 बाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्निचर एवं फिक्स्ड	7.50%	207020	10200	0	217220	31054	0	0	15527	765	0	47346	169875	175967
4 कार्यालय उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 कंप्यूटर / प्रिंटर/स्कांनर	20%	420669	4305	0	424974	156493	0	0	84134	861	0	241488	183486	264176
6 वैश्वीय व्यापार	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 पुस्तकालय पुस्तकें	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 ग्रुप-ग्रुप उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 टूल/केलस एवं जलपूरति	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 अन्य अचल संपत्तियां	8%	2874736	14505	0	2889241	412251	0	0	212013	1626	0	625890	2263351	2462485
चाहूँ वर्ष का कुल		2874736	14505	0	2889241	412251	0	0	212013	1626	0	625890	2263351	2462485

अचल संपत्ति- जीएसएसओटी

विवरण	अधमूल्य दर	प्रति वर्ष				अधमूल्य				गेट				
		चाहूँ तिर वर्ष के अरु में लागू/मूल्यांकन	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहूँ वापस में लागत / मूल्यांकन	अधिक/कमी अधमूल्य हेतु पूर्व कालखंड समायाजन	2014-15 में अधमूल्य विधि में परिवर्तन हेतु पूर्व कालखंड समायाजन	वार्षिक में शेष समायाजन के बाद	वार्षिक में शेष वार्षिक में शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अधमूल्य	वर्ष में संचित अधमूल्य	चाहूँ वापस में
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	1214614	13099	0	1227713	121462	0	0	60731	655	0	182847	1044866	1093152
2 बाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्निचर एवं फिक्स्ड	7.50%	217840	52460	0	270300	23646	0	0	16338	3935	0	43919	226382	194194
4 कार्यालय उपकरण	7.5%	1331291	874590	0	1331291	99847	0	0	99847	99847	0	199694	1131597	1231444
5 कंप्यूटर / प्रिंटर/स्कांनर	20%	344760	874590	0	1219350	87924	0	0	68952	174918	0	331794	887556	256836
6 वैश्वीय व्यापार	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 पुस्तकालय पुस्तकें	10%	6560	0	0	6560	1312	0	0	656	0	0	1968	4592	5248
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 ग्रुप-ग्रुप उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 टूल/केलस एवं जलपूरति	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 अन्य अचल संपत्तियां	8%	3115065	940149	0	4055214	334191	0	0	246524	179507	0	760222	3294993	2780874
चाहूँ वर्ष का कुल		3115065	940149	0	4055214	334191	0	0	246524	179507	0	760222	3294993	2780874

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति-आरसी एवं आरएससी

विवरण	ग्रामि ब्लॉक				अवमूल्यन				नोट ब्लॉक					
	अवमूल्यन दर	चाहू तिल वर्ष के आर में लागत/मूल्योक्त	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहू प्राप्त में लागत / मूल्योक्त	वर्ष में वारंश में	अधिक/कमी अवमूल्यन हेतु पूर्व कालखंड समाप्तोत्तर	2014-16 में अवमूल्यन विधि में परिवर्तन हेतु पूर्व कालखंड समाप्तोत्तर	वारंश में शेप समाप्तोत्तर के बाद	वारंश में शेप	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान अवमूल्यन	वर्ष में संचित अवमूल्यन	चाहू प्राप्त में
1 संघ, भूमिहीन एवं उपकरण	5%	12975	0	0	12975	1298	0	1298	649	0	649	1947	11029	11677
2 बाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्नीचर एवं फिक्सर्स	7.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 कार्यालय उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 कंप्यूटर्स / पैरीफरल्स	20%	40700	0	0	40700	16280	0	16280	8140	0	8140	24420	16280	24420
6 वैश्वीय स्थापनाएं	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 पुस्तकालय पुस्तकें	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 श्रृंखला-श्रृंखला उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ट्रांसमिशन एवं अवापत्ति	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 अन्य अवयव संशोधन	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		53675	0	0	53675	17578	0	17578	8789	0	8789	26367	27309	36097
चाहू वर्ष का कुल		53675	0	0	53675	17578	0	17578	8789	0	8789	26367	27309	36097

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति-सीईटी

विवरण	ग्रामि ब्लॉक				अवमूल्यन				नोट ब्लॉक					
	अवमूल्यन दर	चाहू तिल वर्ष के आर में लागत/मूल्योक्त	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहू प्राप्त में लागत / मूल्योक्त	वर्ष में वारंश में	अधिक/कमी अवमूल्यन हेतु पूर्व कालखंड समाप्तोत्तर	2014-16 में अवमूल्यन विधि में परिवर्तन हेतु पूर्व कालखंड समाप्तोत्तर	वारंश में शेप समाप्तोत्तर के बाद	वारंश में शेप	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान अवमूल्यन	वर्ष में संचित अवमूल्यन	चाहू प्राप्त में
1 संघ, भूमिहीन एवं उपकरण	5%	1316960	0	0	1316960	131696	0	131696	65848	0	65848	197544	1119416	1185264
2 बाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्नीचर एवं फिक्सर्स	7.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 कार्यालय उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 कंप्यूटर्स / पैरीफरल्स	20%	48588	0	0	48588	19436	0	19436	9718	0	9718	29153	19435	29152
6 वैश्वीय स्थापनाएं	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 पुस्तकालय पुस्तकें	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 श्रृंखला-श्रृंखला उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ट्रांसमिशन एवं अवापत्ति	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 अन्य अवयव संशोधन	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		1365548	0	0	1365548	151132	0	151132	75566	0	75566	226697	1138851	1214416
चाहू वर्ष का कुल		1365548	0	0	1365548	151132	0	151132	75566	0	75566	226697	1138851	1214416



(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति- एनएसएस/एस.टैक/ध्वात्रवृत्तियां

विवरण	अवसूच्य दर	प्रति वर्ष के				अवसूच्य				प्रति वर्ष के				मिछले वर्षों में	
		चाहू तिल वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यवत्त	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहू वर्षों में लागत / मूल्यवत्त	वर्षों में अवसूच्य हेतु पूर्व सालखंड समायोजन	2014-15 में अवसूच्य हेतु परिचालन हेतु पूर्व सालखंड समायोजन	वर्षों में अवसूच्य के बाहर	वर्षों में अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य		वर्षों के दौरान अवसूच्य
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	0	2003252	0	2003252	0	0	0	0	0	100163	0	0	1903089	0
2 बाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	7.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 कार्यालय उपकरण	20%	65000	0	0	65000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 कंप्यूटर्स / पैरीफरल्स	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	39000
6 वैद्युतीय व्यापारों	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 फलकालय पुस्तकें	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 वैधानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 टूलबैल्स एवं जलपुर्ति	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 अन्य अचल संपत्तियां	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		65000	2003252	0	2068252	26000	0	0	26000	13000	100163	0	0	1929089	65000
चाहू वर्ष का कुल		65000	2003252	0	2068252	26000	0	0	26000	13000	100163	0	0	1929089	65000

अचल संपत्ति-बीजीसोम

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

विवरण	अवसूच्य दर	प्रति वर्ष के				अवसूच्य				प्रति वर्ष के				मिछले वर्षों में	
		चाहू तिल वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यवत्त	जोड़ वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहू वर्षों में लागत / मूल्यवत्त	वर्षों में अवसूच्य हेतु पूर्व सालखंड समायोजन	2014-15 में अवसूच्य हेतु परिचालन हेतु पूर्व सालखंड समायोजन	वर्षों में अवसूच्य के बाहर	वर्षों में अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य	वर्षों के दौरान अवसूच्य		वर्षों के दौरान अवसूच्य
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	8687214	0	0	8687214	868722	0	0	868722	434361	0	0	0	7384132	7818492
2 बाहन	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	7.50%	824016	0	0	824016	123602	0	0	123602	61801	0	0	0	638613	700414
4 कार्यालय उपकरण	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 कंप्यूटर्स / पैरीफरल्स	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 वैद्युतीय व्यापारों	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 फलकालय पुस्तकें	8%	238688	0	0	238688	47738	0	0	47738	23869	0	0	0	167081	190950
8 वैधानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 टूलबैल्स एवं जलपुर्ति	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 अन्य अचल संपत्तियां	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		9749918	0	0	9749918	1040062	0	0	1040062	520031	0	0	0	8189826	9749918
चाहू वर्ष का कुल		9749918	0	0	9749918	1040062	0	0	1040062	520031	0	0	0	8189826	9749918

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति- अन्य डोटेड चेयर

विवरण	अवमूल्यन दर	ग्रामि ब्लॉक				अवमूल्यन				नेट ब्लॉक				
		चाहू विल वर्ग के आरंभ में लागत/मूल्यमान	जोड़ वर्ग के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहू वपात में लागत / मूल्यमान	वर्गारंभ में	अधिक/कमी अवमूल्यन हेतु पूर्व सालखंड समायोजन	वर्गारंभ में शेप समायोजन के बाद	वर्ग के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अवमूल्यन	वर्ष के दौरान संचित अवमूल्यन	चाहू वपात में	पिछले वर्षांत में
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%													
2 बाहन	10%													
3 फर्निचर एवं फिक्स्ड फर्निचर एवं फिक्स्ड	7.50%	10000			10000	1500	1500	750		2250		7750	8500	
4 कार्यालय उपकरण	20%	29500			29500	6800	6800	5900		12700		16800	22700	
5 कंप्यूटर / पैरीफरल्स	5%													
6 वैद्युतीय स्थापनाएं	10%	3997			3997	800	800	400		1199		2798	3197	
7 पुस्तकालय पुस्तकें														
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%													
9 श्रव्य-दृश्य उपकरण	7.5%													
10 ट्यूबसेल एवं जलपूरति	2%													
11 अन्य अचल संपत्तियां	8%	43497	0	0	43497	9100	9100	7050	0	16149	0	27348	34397	
चाहू वर्ग का कुल		43497	0	0	43497	9100	9100	7050	0	16149	0	27348	34397	

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति- एनआईआईटी (अनुसंधान पार्क)

विवरण	अवमूल्यन दर	ग्रामि ब्लॉक				अवमूल्यन				नेट ब्लॉक				
		चाहू विल वर्ग के आरंभ में लागत/मूल्यमान	जोड़ वर्ग के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती	चाहू वपात में लागत / मूल्यमान	वर्गारंभ में	अधिक/कमी अवमूल्यन हेतु पूर्व सालखंड समायोजन	वर्गारंभ में शेप समायोजन के बाद	वर्ग के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अवमूल्यन	वर्ष के दौरान संचित अवमूल्यन	चाहू वपात में	पिछले वर्षांत में
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%													
2 बाहन	10%													
3 फर्निचर एवं फिक्स्ड फर्निचर एवं फिक्स्ड	7.50%													
4 कार्यालय उपकरण	20%													
5 कंप्यूटर / पैरीफरल्स	5%													
6 वैद्युतीय स्थापनाएं	10%													
7 पुस्तकालय पुस्तकें														
8 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%													
9 श्रव्य-दृश्य उपकरण	7.5%													
10 ट्यूबसेल एवं जलपूरति	2%													
11 अन्य अचल संपत्तियां	8%													
चाहू वर्ग का कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
चाहू वर्ग का कुल		40000000	51134137	0	451134137	0	0	0	0	0	0	451134137	400000000	


 (एम. नायक)
 सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अचल संपत्ति- बहु विशेषज्ञता अस्पताल

विवरण	अवसूचन दर	ग्राम ब्लॉक				अवसूचन				मेट ब्लॉक					
		वार्षिक बर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	जोड़ बर्ष के दौरान	जोड़ बर्ष के दौरान कटौती	चार बर्ष में लागत / मूल्यांकन	वर्ष में वर्गों के समायोजन के बाद	वर्ष में वर्गों के समायोजन	अधिक/कम अवसूचन हेतु पूर्व बालबूट समायोजन	2014-15 में अवसूचन विधि में परिवर्तन हेतु पूर्व बालबूट समायोजन	वर्ष के दौरान बट्टा	वर्ष के दौरान अवसूचन	वर्ष में संचित अवसूचन	चार बर्ष में	मेट ब्लॉक	
1 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%				0				0					0	
2 बाहन	10%				0				0					0	
3 फर्नीचर एवं फिक्स्ड	7.50%				0				0					0	
4 कार्यालय उपकरण	7.5%				0				0					0	
5 कंप्यूटर/ सैरीफरल	20%				0				0					0	
6 वैद्युतीय स्थापनाएँ	5%				0				0					0	
7 पुस्तकालय पुस्तकें	10%				0				0					0	
8 वैज्ञानिक एवं श्रमोपयोगिता उपकरण	8%				0				0					0	
9 श्रम-श्रम उपकरण	7.5%				0				0					0	
10 ट्रांसमिशन एवं अलर्जि	2%				0				0					0	
11 अन्य अचल संपत्तियां	8%				0				0					0	
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) चार बर्ष का कुल		262112394	259273042		521385436				0					0	
कैपिटल बर्कन प्रगति															262112394

Aranya
(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 4(ख): मुख्य अचल संपत्ति

अचल संपत्ति (मुख्य खाता)	अवमूल्यन दर	गॉस ब्लॉक						
		चालू वित्त वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	हीरक जयंती परिसम्पत्ति	वर्ष के दौरान अधिप्राप्य (प्लान कैश प्रोक्चुरमेंट)	खाता समायोजन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	चालू वर्षांत में लागत / मूल्यांकन
A) स्थाई सम्पत्ति								
1 भूमि								
a) फ्रीहोल्ड		0					0	0
b) लीजहोल्ड		158967666		0			0	158967666
कुल		158967666					0	158967666
2 भवन								
a) ऑन फ्रीहोल्ड लैंड		0				0	0	0
b) ऑन लीजहोल्ड लैंड	2%	7077047256	25041340	16366381	55702402	97110123		7174157379
c) कार्यालय परिसर एवं गैर आवासीय भवन	2%						0	
d) आवासीय झार्डर एवं बैंक एवं पोस्ट ऑफिस एवं अतिथि गृह	2%						0	
e) मालिकाना फ्लैट्स/परिसर	2%						0	
f) भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर्स एंटीटी से असंबंधित								
3 रोड एवं ब्रिज	2%	3734042	25901345	5384328	317298	31602971	0	35337013
4 स्वीरिज एवं ट्रेनेज	2%	12948866		0				12948866
कुल		7093730164	50942685	21750709	56019700	128713094	0	7222443258
5 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	5%	2153136262		1438442	377522371	378960813		2532097075
6 वाहन	10%	17237305		112472	1759714	1872186		19109491
7 फर्नीचर एवं फिक्स्सर्स	7.50%	318456719		39468055	705057	40173112		358629831
8 कार्यालय उपकरण	7.5%	313317231		11454722		11454722		324771953
9 कंप्यूटर्स / पैरीफरल्ल्स	20%	511789994		107710876	18489232	126200108		637990102
10 वैयक्तिक स्थापनाएं	5%	68375330	6937725	29772967	1656000	38366692		106742022
11 पुस्तकालय पुस्तकें	10%	173535060		8928735		8928735		182463795
12 वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	1222440394		202166565	28606008	230772573		1453212967
13 दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%	260970		169000		169000		429970
14 ट्यूबवैल्स एवं जलापूर्ति	2%	34484423	2339637	4742541	2053897	9136075	0	43620498
15 अन्य अचल संपत्तियां	8%	74669898		428900		428900	0	75098798
कुल		4887703586	9277362	406393275	430792279	846462916	0	5734166502
कुल अचल सम्पत्ति		12140401416	60220047	428143984	486811979	975176010	0	13115577426
B) चल सम्पत्ति								
i) पुस्तकालय जर्नल	40%	1377900261		177065525		177065525		1554965786
ii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	22477192		2590872	5322136	7913008		30390200
कुल चल सम्पत्ति		1400377453	0	179656397	5322136	184978533	0	1585355986
C) कैपिटल बकिंग प्रगति		2176984090	24908800	762457547	66484524	853850871	462800711	2568034250
कुल (A+B+C)		15717762959	85128847	1370257928	558618639	2014005414	462800711	17268967662

Arayan

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)



(राशि रुपये में)

अवमूल्यन										नेट ब्लॉक	
वर्षारंभ में	अधिक्य/ कमी अवमूल्यन हेतु पूर्व कालखंड समायोजन	2014-15 में अवमूल्यन विधि में परिवर्तन हेतु पूर्व कालखंड समायोजन		वर्षारंभ में शेष समायोजन के बाद	वर्षारंभ में शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाव	वर्ष के दौरान अवमूल्यन	वर्षांत में संचित अवमूल्यन	चातू वर्षांत में	पिछले वर्षांत में
0				0	0	0	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0	0	158967666	158967666
0				0	0	0	0	0	0	158967666	158967666
0				0	0	0	0	0	0	0	0
424228882					141540945	1942202	0	143483148	567712030	6606445349	6652818374
0							0	0	0	0	0
0							0	0	0	0	0
0							0	0	0	0	0
0							0	0	0	0	0
74681					74681	632059	0	706740	781421	34555592	3659361
258977					258977	0	0	258977	517954	12430912	12689889
424562540	0	0	0	0	141874603	2574262	0	144448865	569011405	6653431853	6669167624
290475870					107656813	18948041	0	126604854	417080723	2115016352	1862660392
4563288					1723731	187219	0	1910949	6474237	12635254	12674018
61311315					23884254	3012983	0	26897237	88208553	270421278	257145404
69537331					23498792	859104	0	24357896	93895228	230876725	243779900
243377378					102357999	25240022	0	127598020	370975399	267014703	268412616
8308688					3418767	1918335	0	5337101	13645789	93096233	60066642
47862536					17353506	892874	0	18246380	66108915	116354880	125672524
97795232					97795232	18461806	0	116257037	214052269	1239160698	1124645162
19573					19573	12675	0	32248	51821	378150	241397
1910940					689688	182722	0	872410	2783350	40837148	32573483
17920776					5973592	34312	0	6007904	23928680	51170118	56749122
843082926	0	0	0	0	384371946	69750091	0	454122037	1297204962	4436961540	4044620660
1267645465	0	0	0	0	526246549	72324353	0	598570902	1866216367	11249361059	10872755950
1325250903					52649358	70826210	0	123475568	1448726471	106239315	52649358
8990877				8990877	8990877	3165203	0	12156080	21146957	9243243	13486315
1334241780	0	0	0	8990877	61640235	73991413	0	135631648	1469873428	115482558	66135673
							0	0	0	2568034250	2176984090
2601887245	0	0	0	8990877	587886784	146315766	0	734202550	3336089795	13932877867	13115875713

Arayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 5: विनिर्धारित/अक्षय निधि से निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	150000000	41390000
2) बैंकों में मियादी जमा	5044639231	4943969089
3) अन्य		
कुल	5194639231	4985359089
(B) प्रौद्योगिकी अतिथि गृह- चालू सम्पत्ति (विवरण अलग से संलग्न)	0	0
(C) स्रिक - निवेश		135500000
कुल (A + B + C)	5194639231	5120859089

अनुसूची 5(A): विनिर्धारित/अक्षय निधियाँ/सहायिकाओं से निवेश (स्रिक को छोड़कर)

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अक्षय निधि खाता	3119997940	2899261231
संस्थान विकास निधि	827905866	630742351
बहु विशेषज्ञता अस्पताल	298770800	565199443
जीएसएसओटी	84824556	78430526
आईईएसपीएफ	68134983	62283824
सीईटी	13383939	12399380
छात्रवृत्तियां	66535842	55383195
बीजीसोम	37301961	33914813
जीआईएस	2180826	2000000
विजय कियावत अक्षय निधि	1189581	1093618
एचएएल पीठ प्राध्यापक	17708600	0
अन्य अनुदानित पीठ	132851261	133207728
पैंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा	380917290	393589221
ओएससी प्लान	130435787	117853760
आईएसडब्ल्यूटी	12500000	
कुल	5194639231	4985359089

अनुसूची 6: निवेश- अन्य

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) शासकीय प्रतिभूतियों में		0
2) राज्य सरकार प्रतिभूतियों में		
3) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/मियादी जमा शेयर		
5) अन्य	137374904	400000000
6) ईएसडी	101931502	91114415
7) विद्यार्थी अवधान राशि (आईसीएम)	120473356	108633236
8) जेडइ	229174837	212211424
9) गेट	346964701	244985397
10) जेएमईटी	24679618	22778081
कुल (A)	960598917	1079722554
(B) प्रौद्योगिकी अतिथि गृह- चालू सम्पत्ति (विवरण अलग से संलग्न)	0	0
(C) स्रिक - निवेश	2618724888	2033224889
कुल (A + B + C)	3579323805	3112947443

Sayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 7: वर्तमान सम्पत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1) भंडार				
a) स्टोर एवं स्पेयर्स	1064044		4184452	
b) भवन सामग्री				
c) जल आपूर्ति सामग्री		1064044		4184452
2. विविध देनदार :				
a) छह माह से अधिक अवधि के आउटस्टैंडिंग कर्ज	400000			
b) अन्य				
C) रकम	140498	540498		
3. नकद एवं बैंक में कुल राशि				
a) हाथ में नकद कुल राशि :				
स्थापना खाता	82		212241	
अनुदान खाता			13979	
आर सी एवं आरएससी खाते			2386	
गेट खाता			894	
जेईई खाता			11545	
आईईएसपीएफ खाता			960	
जीएसएसओटी खाता			9963	
पेंशन खाता			323	
कोलकाता विस्तार केन्द्र	3224		20000	
आर सीएस आईडीएम			-4647	
भुवनेश्वर विस्तार केन्द्र	56724	60030	45328	312972
b) अनुसूचित बैंकों में :				
चालू खाते में				
बैंक में नकद राशि (ईएसडी)	6922665		5106853	
विद्यार्थी अवधान राशि (आईसीएम)	2825098		2467915	
जेईई	5335948		1256868	
गेट	1262320		2704177	
जेएमईटी	1022662		973151	
जीएसएसओटी	530838		2067092	
आरसी एवं आरएससी	1474105		939722	
आईईएसपीएफ	1277364		1333807	
सीईटी	663752		631616	
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	4758472		10981443	
बीजीसोम	423645		396679	
जीआईएस	3013866		2443641	
बीसीराय मैमोरियल हास्पिटल	272464		247441	
विजय कियावत अक्षय निधि	461234		541991	
नेहरु संग्रहालय	3076780		3625080	
अनुदानित पीठ	3931324		2530315	
पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा	6187436		265511	
ओएससी योजना / ओबीसी	108530		107459	
बहु विशेषज्ञता अस्पताल	9509993		267044	
अक्षय निधि	6427212		4143892	

Sayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 7: वर्तमान सम्पत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
आईडीएफ	55364		28325	
सीईपी-आईएसडब्ल्यूटी	5544208		11859320	
एसबीआई वर्क्स खाता	450488		451120	
एसबीआई एसओपी खाता	419752		26198426	
बचत खाते में				
मुख्य खाता	84208715		4193671	
स्थापना खाता	24284378		24178220	
अनुदान बचत खाता	199316428		198912163	
ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (ज्ञान)	124601729		248269237	
पीएनबी पेंशन खाता	10042		10336	
एसबीआई पेंशन खाता	3537905		5288607	
सिंडिकेट पेंशन खाता	450436		12329	
पीओएस प्राप्तियां	1251803			
आईआईटी सहायिका निधि	98659277			
पीएनबी अन्य पीओएस प्राप्ति	98387			
एसबीआई विभागीय चालू एवं मुख्य	100000			
एसबीआई एंटी टैक्स	2950515	605425134	1263394	563696844
c) स्वीप जमा- एमएसएच				98300000
d) ट्रांजिट में अनुदान	538200000	538200000	82500000	82500000
उप कुल (1+2+3)		1145289706		748994268
4. प्रौद्योगिकी अतिथि गृह- चालू सम्पत्ति (विवरण अलग से संलग्न)		26667921		17339473
5. छिक्र चालू सम्पत्ति		375670198		457502656
कुल (1+2+3+4+5)		1547627825		1223836397

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 8: ऋण, अग्रिम एवं अन्य स्थाई संपत्तियां :

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1) कर्मचारियों को अग्रिम: (गैर-ब्याजधारी)				
a) वेतन				
b) उत्सव	2310071		1991471	
c) चिकित्सा अग्रिम	8074150		7813713	
d) एलटीसी	437539		4685240	
e) व्यक्तिगत अग्रिम	1093834		2440270	
f) सीपीडीए अग्रिम	3930975		4782871	
g) टीए अग्रिम	384650			
h) कर्मचारियों को आसान ऋण	545250	16776469		21713565
2) कर्मचारियों के लिए दीर्घ अवधि अग्रिम : (ब्याज धारी)				
a) वाहन ऋण	779303		2104321	

Asayan

(एस. नायक)

सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 8: ऋण, अग्रिम एवं अन्य स्थाई संपत्तियां :

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
b) आवास ऋण c) कंप्यूटर अग्रिम d) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)	27877749 1539073	30196125	38058416 829283	40992020
3) नकद अथवा अन्य किसी कीमत में प्राप्त होने वाली अग्रिम एवं अन्य राशियां				
a) स्थाई खाते पर b) सिक को अग्रिम c) जेईई d) गेट e) अन्य अग्रिम f) आपूर्तिकर्ता को अग्रिम g) फैलोशिप को अग्रिम (बायज कास्ट)/छात्र आकस्मिकता अग्रिम h) विभिन्न छात्रावासों एवं अन्य को अग्रिम i) विनिर्धारित निधि से एनएसएस को अग्रिम	74274331 136412494 806755 190400595	401894175	121787501 267712229 3482839 24048018 38569451 130912362 877046 6235089	593624535
4) प्रीपेड व्यय प्री पेमेंट्स a) बीमा b) सिक - सेवा कर				
5) जमा a) टेलीफोन b) लीज रेंट c) बिजली (बैंक में प्रतिभूति जमा) d) पीएमए अग्रिम	77306787 461196987	538503774		49527082
6) संचित आय: ओबीसी खाता हीरक जयंती अनुदान खाता बचत खाते पर विनिर्धारित/अक्षय निधि संस्थान विकास निधि बहु विशेषज्ञता अस्पताल ईएसडी खाता विद्यार्थी अवधान राशि (आईसीएम) जेईई गेट जेएमईटी अनुदान बचत जीएसएसओटी आईईएसपीएफ सीईटी छात्रवृत्ति वीजीसोम जीआईएस विजय कियावत अक्षय निधि एचएएल पीठ प्राध्यापक दानित पीठ पेंशन भोगियों हेतु चिकित्सा सुविधा ओएससी योजना अन्य	113164748 41203626 18394657 3937625.45 2318901 4504421 14689325.54 1071219 2892545.16 1178554 2067425 297298 1889045 1137984 174808 78920 107075 3084390 10537680 6570993 877299			

Shayam

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 8: ऋण, अग्रिम एवं अन्य स्थाई संपत्तियां :

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
8) प्राप्य दावे				
प्राप्य टीडीएस			57719	
एसटी/विभागों से प्राप्य			1161249	
विद्यार्थी फीस प्राप्य	15762699.75		9441073	
ओएससी योजना खाता			10040554	
जेएमईटी खाता			1799736	
छात्रवृत्ति में संस्थान से प्राप्य			2007642	
एम टेक निधि से प्राप्य			5505728	
एचएएल अनुदानित पीठ (वेतन एवं विज्ञापन)	27846350		0	
सीईपी से प्राप्य	13000000		14053115	
अनुदानित पीठ से प्राप्य			14041	
मासंवि मंत्रालय से योजना व्यय में प्राप्य अनुदान	494670399		200014769	
मासंवि मंत्रालय से हीरक जयंती में प्राप्य अनुदान	409296443		384387643	
मासंवि मंत्रालय से एनआईटीटी/आईएसडब्ल्यूटी में प्राप्य अनुदान	1736829	962312721	148771250	777254519
कुल (A)		2179861802		1767409298
B) i) प्रौद्योगिकी अतिथि गृह- चालू सम्पत्ति (विवरण अलग से संलग्न)		717831		
C) i) स्रिक - चालू परिसम्पत्ति		178369210		147723188
ii) स्रिक - निहित स्वामित्व के प्रायोजित परियोजना से निर्मित परियोजना सम्पत्ति		4070323412		3724477069
कुल (A + B + C)		6429272255		5639609554

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 9: अकादमिक रसीद

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
A) शैक्षणिक प्राप्तियां		
1) शिक्षण शुल्क	430942704	234159900
2) प्रवेश शुल्क		20472250
3) नामांकन शुल्क		
4) पुस्तकालय प्रवेश शुल्क		
5) प्रयोगशाला शुल्क	13099200	9519000
6) कला एवं हस्तशिल्प शुल्क		
7) पंजीकरण शुल्क	6931690	3821950
8) पाठ्यक्रम शुल्क		
9) प्रशिक्षण एवं स्थानन शुल्क	4652701	386550
10) शैक्षणिक सत्यापन शुल्क	2700000	1168639
11) आधुनिकीकरण शुल्क	1244200	1837850
12) सीट किराया		8053900
आंशिक कुल	459570495	279420039

Naayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 9: अकादमिक रसीद

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
जोड़ : अग्रिम 14-15 शुल्क प्राप्ति		92116478
घटाना : अग्रिम 15-16 शुल्क प्राप्ति	0	0
कुल (A)	459570495	371536517
परीक्षा शुल्क (B)		
1) प्रवेश परीक्षा शुल्क	4000	
2) वार्षिक परीक्षा शुल्क		
3) अंक तालिका, प्रमाण पत्र शुल्क		219750
4) प्रवेश परीक्षा शुल्क		
5) परीक्षा शुल्क	7196600	5238775
कुल (B)	7200600	5458525
अन्य शुल्क		
1) परिचय पत्र शुल्क	1170	790
2) आर्थिक दंड / विविध शुल्क	197	284377
3) चिकित्सा परीक्षा शुल्क	449100	1122400
4) यातायात शुल्क		
5) छात्रावास शुल्क	14291190	2335750
6) विद्यार्थी सुविधाएं अंशदान		
7) विद्युत एवं जल शुल्क	16693186	12071600
8) बीमा शुल्क	18095843	12999597
9) व्याज शुल्क	8732840	6346000
10) वैधानिक शुल्क	1384000	1467000
11) छात्र एमिनिटी शुल्क	13098600	9519000
12) छात्र क्ल्याम शुल्क	463500	595600
13) प्रतिरूप सत्यापन शुल्क प्राप्ति	1484650	624057
14) एम टेक अभियांत्रिकी से प्राप्त शुल्क		5390000
15) आईएसआई एवं आईआईएम (सी) सहित पीजीडीबीए कोर्स शुद्ध आय		
- पीजीडीबीए से सकल प्राप्ति	26302050	
- घटाना पीजीडीबीए पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	3338450	
17) अन्य	22963600	13146056
कुल (C)	255576	39686
कुल (C)	97913452	65941913
प्रकाशन विक्री		
1. प्रवेश फार्म विक्री		0
2. पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र आदि विक्री		0
3. प्रवेश फार्मों सहित विवरणिका विक्री		0
कुल (D)	0	0
अन्य शैक्षणिक प्राप्ति		
1. कार्यशालाएं, कार्यक्रम पंजीकरण शुल्क		0
2. पंजीकरण शुल्क (शैक्षणिक स्टाफ कालेज)		0
कुल (E)	0	0
घटाव: स्वीकृत परियोजना निधि में संस्थान का योगदान करने के लिए फंड ट्रांसफर	-300000000	
कुल (A+B+C+D+E+F)	264684547	442936955

Sayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 10: अनुदान / अनुदान (प्राप्त की जाने वाली हानिकारक अनुदान)

(राशि रुपये में)

विवरण	एमएचआरडी				कुल पिछला वर्ष
	योजना		गैर योजना	कुल	
	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	
पिछला बकाया	-200014769				
पूर्व कालखंड समायोजन					
सीआरआर से राशि स्थानांतरित	0				
हीरक जयंती परियोजना हेतु अक्षय निधि से राशि स्थानांतरित		-200014769		-200014769	258912895
जोड़: (i) वर्ष के दौरान प्राप्तियां		1803300000	3150000000	4953300000	4751252000
(ii) इस वर्ष में पूर्ण अवधि एलसी मार्जिन धन		130912362		130912362	0
(iii) सीआरआर निधि से सीआरआर संबंधी व्यय योजना निधि से स्थानांतरित		114000000		114000000	0
iv) राजस्व व्यय हेतु योजना अनुदान से राशि स्थानांतरित			773045250	773045250	722391148
कुल (A)		1848197593	3923045250	5771242843	5732556043
घटाना:					
राजस्व व्यय हेतु उपयोग किया गया		773045250	3923045250	4696090500	4244782296
घटाना: पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किया गया		1370257928		1370257928	1514576154
विदेशी क्रय हेतु प्रावधान		125290483		125290483	130912362
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (एलसी अग्रिम/परियोजना व्यय)		74274331		74274331	42300000
कुल (B)		2342867992	3923045250	6265913242	5932570812
कुल आगे ले जाया गया (A-B)	0	-494670399	0	-494670399	-200014769

31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 11: निवेश से आय: (विनिर्धारित/अक्षय निधि से स्थानांतरित फंड से निवेश पर आय)

(राशि रुपये में)

विवरण	विनिर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) ब्याज				
शासकीय प्रतिभूतियों पर			19942615	51927276.59
अक्षय निधि खाता	242812759	269016114		
संस्थान विकास निधि (आईडीएफ)	67978149	51064835		
बहु विशेषज्ञता अस्पताल	43296875	75537085		
जी एस सान्याल दूरसंचार स्कूल (जीएसएसओटी)	6227642	6450435		
संस्थान धर्मदा, छात्रवृत्ति पुरस्कार निधि (आईईएसपीएफ)	5104885	5313121		

Asayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 11: निवेश से आय: (विनिर्धारित/अक्षय निधि से स्थानांतरित फंड से निवेश पर आय)

(राशि रुपये में)

विवरण	विनिर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शिक्षा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईटी)	1020217	1070676		
छात्रवृत्ति	4171254	3783071		
विनोद गुप्ता प्रबंधन स्कूल (वीजीसोम)	2857933	2888010		
साधारण बीमा योजना (जीआईएस)	302886	296748		
बीसीरॉय स्मृति	25655			
विजय क्रियावत अक्षय निधि	111639	180176		
नेहरु संग्रहालय	118383	35277		
दानित पीठ	10949482	12789744		
पीआरएमएस	30939814	34716506		
ओएससी/ओबीसी	9732862	10097769		
अन्य बॉर्ड्स/डिबेंचर्स				
2) डिबिडेंड्स शेयरों में म्यूचल फंड प्रतिभूतियों में				
3) किराया				
4) मियादी जमा पर ब्याज				
कुल	425650437	473239567	19942615	51927277
विनिर्धारित / विनिर्धारित फंड में स्थानांतरित राशि	425650437	473239567	0	0
आय एवं व्यय खाता में स्थानांतरित	0	0	19942615	51927277

31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 12: अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बचत खातों पर:		
a) अनुसूचित बैंकों में	5093708	14391111
2) ऋण पर:		
a) कर्मचारीगण/स्टाफ	9575750	8496522
b) अन्य	1797535	
3) देनदारों एवं अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	10979002.42	14852605
4) विद्युत जमाओं पर ब्याज		
कुल	27445995	37740238

Asayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 13: अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
A. भूमि एवं भवन से आय				
1. छात्रावास कक्ष किराया				
2. लाइसेंस शुल्क/विद्युत/जल प्रभार वसूली	15619249		13445384	
3. प्रेक्षागृह किराया/ क्रीडा मैदान/कनवोकेशन केन्द्र प्रभार	43500		32600	
4. विद्युत प्रभार वसूल	35667897		31413434	
5. वसूल जल प्रभार	583715		572108	
6. अस्पताल प्रभार	180300			
7. टेलीफोन प्रभार वसूल	83706		23956	
8. अतिथि गृह प्रभार	599639		85645	
कुल		52778006		45573127
B. संस्थान प्रकाशनों की बिक्री				
C. कार्यक्रमों के आयोजन से आय				
1. जेईई से सकल प्राप्ति	44739563		66516087	
घटाना- जेईई पर किए प्रत्यक्ष खर्च	24410656	20328907	18324023	48192064
2. गेट से सकल प्राप्तियां	172799535		131196033	
घटाना-गेट पर किए प्रत्यक्ष खर्च	53245651	119553884	57440696	73755337
3. आईसीएम से सकल प्राप्तियां	8192250		8649094	
घटाना-आईसीएम पर किए प्रत्यक्ष खर्च	1783	8190468	1473	8647621
4. ईएसडी से सकल प्राप्तियां	7639628		7771178	
घटाना- ईएसडी पर किए प्रत्यक्ष खर्च	0	7639628	0	7771178
5. जेएमईटी से सकल प्राप्तियां	1838325		1933785	
घटाना-जेएमईटी पर किए प्रत्यक्ष खर्च		1838325	0	1933785
6. कनवोकेशन से सकल प्राप्ति	4476500		5605001	
घटाना: कनवोकेशन पर किए प्रत्यक्ष खर्च	10485462	-6008962	3954607	1650394
7. परियोजना व्यय				
समग्र निधि से परियोजना व्यय हेतु राशि स्थानांतरित	65112522		151627383	
घटाना : पूर्व के वर्षों में संस्थान कि ओर से स्रिक द्वारा किया गया परियोजना व्यय				
(i) वेतन	16024169		42614918	
(ii) उपभोग्य	44941092		97783582	
(iii) यात्रा व्यय	4142261		10836314	
(iv) विविध व्यय	5000	0	392569	0
8. सीईपी उपरी व्यय				1053115
D अन्य				
1. सलाहकारिता से आय				
2. आरटीआई शुल्क	5592		3822	
3. रायल्टी से आय				
4. आवेदन पत्र बिक्री (भर्ती)				

Asayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 13: अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
5. विविध प्राप्तियां (टैंडर फार्म, रद्दी पेपर आदि)	2006305		1422485	
6. सूचीबद्ध शुल्क			377000	
7. बिक्री/संपत्ति निपटान से लाभ				
a) अपनी परिसंपत्ति				
b) विना मूल्य के प्राप्त परिसंपत्तियां				
8. अन्य संस्थानों, कल्याण संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुदान/दान	6663783			
9. यातायात वसूली			286187	
10. खेत उत्पाद की बिक्री एवं नीलामी	3336396			
11. सामग्री की बिक्री/लागत से आय	359943			
12. उपभोग्य की बिक्री				
13. तरलता क्षति	1699804		1596015	
14. पुस्तकालय से आय				
15. विदेश सेवा/ लियन अंशदान	4155661		4189946	
16. आवर्ती व्यय हेतु विजय कियावत से प्राप्त			800000	
17. अन्य विविध	5429138	23656622	4352993	13028448
उप कुल (A+B+C+D)		227976877		201605069
E) प्रौद्योगिकी अतिथि गृह से शुद्ध आय (विवरण अलग से संलग्न)				
प्रौद्योगिकी अतिथि गृह से सकल आय			26763122	0
घटाना: प्रौद्योगिकी अतिथि गृह का प्रत्यक्ष आय			24917696	1845426
सर्वयोग (A+B+C+D+E)		227976877		203450495

31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 14: कालखंड पूर्व आय

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. शैक्षणिक प्राप्ति		
2. निवेश से आय		
3. अर्जित व्याज		
4. अन्य आय	4342265.92	11,63,519
5. सहायिका से अधिशेष-वर्ष 2013-14 के लिए जेएमईटी		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
7. हीरक जयंती निधि		
8. प्रारंभिक के योजना अनुदान के अव्यय शेष का समायोजन		35,16,796
9. पेट्रोल पीठ प्राध्यापक- दानित पीठ		1,47,93,978
10. जीएसएसओटी		71,996
11. नेहरु संग्रहालय		5,74,202
12. आरसी एवं आरएससी		52,729
13. बहु विशेषज्ञता अस्पताल	0	0
सर्वयोग (A+B+C+D)	43,42,266	2,01,73,220

Sayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 15: स्टाफ भुगतान और लाभ (प्रतिष्ठान) व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
स्टाफ भुगतान एवं लाभ (स्थापना)						
a) वेतन एवं मजूरी		1516789788	1516789788		1416862815	1416862815
b) भत्ते एवं बोनस		8981572	8981572		8760476	8760476
c) भविष्य निधि में अंशदान		2204510	2204510		2175749	2175749
d) छुट्टी वेतन			0			0
e) सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ		931829585	931829585		994101123	994101123.3
f) एलटीसी सुविधा		30774447	30774447		35758638	35758638
g) चिकित्सा सुविधा		66136602	66136602		61927457	61927457
h) संतान शिक्षा भत्ता		9221036	9221036		16571453	16571453
i) अन्य (उल्लेख करें)			0			0
j) समेकित व्यावसायिक विकास भत्ता		31344774	31344774		38444239	38444239
k) वर्दी		2350571	2350571		2275497	2275497
l) मानदेय/समयोपरि भत्ता		7593688	7593688		6495982	6495982
m) कर्मचारी कल्याण व्यय			0		53200	53200
कुल	0	2607226573	2607226573	0	2583426629	2583426629

31 मार्च 2017 के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 15A: कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष				पिछला वर्ष			
	पेंशन	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण	कुल	पेंशन	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण	कुल
01.04.2015 को प्रारम्भिक कुल राशि (a)		553740415	527420500	1081160915	0	535059462	452705514	987764976
घटाना : वर्ष में वास्तविक भुगतान (b)		54393329	43446311	97839640		57161780	56225007	113386787
31.03.2016 को उपलब्ध शेष c= (a-b)		499347086	483974189	983321275	0	477897682	396480507	874378189
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक प्रावधान (d)		565680084	641795716	1207475800		553740415	527420500	1081160915
A. चालू वर्ष में किया जा करने के लिए प्रावधान (d-c)		66332998	157821527	224154525	0	75842733	130939993	206782726
B. नवीन पेंशन योजना को अंशदान				43254142				40274788
C. स्वयं पेंशन एवं परिवार पेंशन भुगतान				627558281				599861504
D. स्वयं एवं परिवार पेंशन बकाया				3277947				103381626
E. पेंशन का सरांशीकरण				29977350				40637789
F. सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा				2349790				2982690
G. जमा सह बीमा भुगतान				1257550				180000
कुल (A+B+C+D+E)				931829585				994101123

Asayan

(एस. नायक)

सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 वर्षांत के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 16: शैक्षणिक व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
a) छात्रवृत्ति	768102539		768102539	703289670	32400	703322070
b) फील्ड वर्क/ कांफ्रेस में सहभागिता		49771512	49771512		37244660	37244660
c) सेमिनारों/वर्कशॉपों में व्यय		20470	20470		59091	59091
d) अतिथि प्राध्यापकों के भुगतान		16959535	16959535		4475901	4475901
e) परीक्षा		679346	679346		17279883	17279883
f) विद्यार्थी कल्याण व्यय/ विद्यार्थी समर्थन सेवा		53029419.5	53029420		29992091	29992091
g) प्रयोगशाला व्यय			0	822969	52661512	53484481
h) प्रकाशन			0		77518	77518
i) वृत्तिका (स्टाइपेंड)/योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति			0			0
k) अंशदान/पंजीकरण व्यय		166500	166500		654724	654724
l) अन्य प्रशासनिक व्यय			0			0
m) विभागीय संचालन व्यय		7970086	7970086			0
n) पुरस्कार एवं सम्मान		76100	76100		39000	39000
o) अन्य सहायक सेवा विभाग व्यय		64162588	64162588		25932813	25932813
p) प्रशिक्षण एवं शिक्षा व्यय			0		3800407	3800407
q) संसहायिका हेतु प्रावधान		34374813	34374813			
कुल	768102539	227210370	995312909	704112639	172249999	876362639

31 मार्च 2017 वर्षांत के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 17: प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
A. आधारीय ढांचा						
a) विद्युत एवं शक्ति		339292969	339292969		323767576	323767576
b) जल प्रभार			0			0
c) बीमा		90234	90234			0
d) भाड़ा दरें एवं शुल्क (संपत्ति करों सहित)		1079205	1079205		2016500	2016500

Sayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 वर्षांत के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 17: प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
B संचार			0			0
e) पोस्टेज एवं स्टेशरी		1779289	1779289		2151826	2151826
f) टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट प्रभार		6534002	6534002		10672429	10672429
C. अन्य			0			0
g) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		11546204	11546204		13232497	13232497
h) यात्रा एवं वाहन व्यय		18199535	18199535		16404452	16404452
i) आतिथ्य व्यय		10730818	10730818		16187353	16187353
j) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		1333740	1333740		4595454	4595454
k) व्यवसायिक प्रभार		9044670	9044670		8294243	8294243
l) विज्ञापन एवं प्रचार		12571115	12571115		10595598	10595598
m) पत्रिकाएं एवं जर्नल्स		77545	77545		65301	65301
n) सिक्यूरिटी प्रभार		50115216	50115216		39601521	39601521
o) शासी मंडल बैठक व्यय		82545	82545		372189	372189
p) महत्वपूर्ण दिवसों के आयोजन		334991	334991		342479	342479
q) रख रखाव व्यय		123636580	123636580	278642	122260252	122538894
r) भंडार एवं उपभोग्य		27976950	27976950	19230	3940788	3960018
s) वेबसाइट विकास खर्च		346304	346304		1153947	1153947
r) विविध एवं आकस्मिक		2084675	2084675		53722	53722
कुल	0	616856587	616856587	297872	575708127	576005999

31 मार्च 2017 वर्षांत के आय-व्यय विवरण की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 18: यातायातीय व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. वाहन (संस्थान संपत्ति)			0			
a) दैनंदिन व्यय		2847483	2847483		2646687	2646687
b) मरम्मत एवं अनुरक्षण			0			0
c) बीमा व्यय एवं मार्ग शुल्क		9264	9264		7200	7200
d) भाड़ा/ लीज पर लिए वाहन			0			0
f) भाड़ा/लीज व्यय		530810	530810		933904	933904
कुल	0	3387557	3387557	0	3587791	3587791

Naayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के आय-व्यय की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 19: मरम्मत एवं अनुरक्षण

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
a) भवन	3469643	63391368	66861011	15026547	67266578	82293125
b) फर्नीचर एवं फिक्सर्स	365595	6386294	6751889		3690920	3690920
c) प्लांट एवं मशीनरी		11142069	11142069		2231963	2231963
d) कार्यालय उपकरण		26598148	26598148	1972816	14866210	16839026
e) कंप्यूटर्स	36018	40718497	40754515	102415	23057750	23160165
f) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण		23369624	23369624	865109	9196029	10061138
g) श्रव्य दृश्य उपकरण		131979	131979		221667	221667
h) सफाई पदार्थ एवं सेवाएं		0	0		0	0
i) बागवानी		1183949	1183949		3129750	3129750
j) संपदा अनुरक्षण		0	0		0	0
k) अन्य (उल्लेख करें)		166436	166436		101716	101716
l) जल कार्य	593699	2568656	3162355	13750	23085663	23099413
m) वाहन		1358026	1358026		774037	774037
n) वैद्युतिक स्थापना एवं उपकरण	240984	6655359	6896343		5883035	5883035
o) स्वक्षता अनुरक्षण	236772	13917260	14154032		112495	112495
p) टेलीफोन अनुरक्षण		1194111	1194111		3556916	3556916
कुल	4942711	198781776	203724487	17980637	157174729	175155366

31 मार्च 2017 के आय-व्यय की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 20: वित्तीय लागत

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
बैंक प्रभार		402181	402181		353613	353613
कुल	0	402181	402181	0	353613	353613

Sayan

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

31 मार्च 2017 के आय-व्यय की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 21: अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
						0
a) डूबंत एवं अनिश्चित ऋण हेतु प्रावधान						0
b) खारिज की गई अशोध्य कुल राशि						0
c) अनुदान/अन्य संस्थान/संगठन को सहायिका						0
d) को अनुदान दिया गया						0
i) एचएमसी		15393407	15393407		35800000	35800000
ii) जिमखाना		6421200	6421200		3176700	3176700
iii) पीआरएमएस						0
iv) रियायती कैंटीन		729000	729000		669000	669000
v) अन्य विविध प्रशासनिक व्यय		2783080	2783080		2759860	2759860
कुल	0	25326687	25326687	0	42405560	42405560

31 मार्च 2017 के आय-व्यय की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 22: कालखंड पूर्व व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. स्थापना व्यय					20854873	20854873
2. शैक्षणिक व्यय						0
3. प्रशासनिक व्यय						0
4. यातायात व्यय						0
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण						0
6. छात्रवृत्ति					47110176	47110176
7. अन्य		2787324	2787324		1016606	1016606
कुल	0	2787324	2787324	0	68981655	68981655

Prayati

(एस. नायक)
सहायक कुलसचिव (लेखा)



31 मार्च 2017 के लेखांकन की आंशिक आधारीय अनुसूचियाँ

अनुसूची 23 - विशिष्ट लेखा नीतियां

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का लेखा विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिपत्र संख्या F.No.32-21/2013-TS-1 दिनांक 13 मई, 2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरण हेतु उपयुक्त रूप से स्वीकार किया गया है और उसके अनुरूप केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के लिए निर्धारित वित्तीय विवरणों के लिए प्रपत्र के अनुकूलन में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रपत्र वर्ष 2014-15 में लागू किया है अतः पिछले वर्ष की संख्याओं को वित्त वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण में लेन-देन के उचित प्रस्तुतिकरण हेतु रीग्रुप एवं रीकॉस्ट किया गया है।
2. परंपरागत लेखांकन:
वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराओं पर तैयार होते हैं, जब तक अन्यथा न कहा गया हो और अर्जित लेखांकन पद्धति के आधार को अलग से न लिया गया हो, और जहां लागू हो वहां "भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान" द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप स्वयं अनुपालन हेतु न किया गया हो।
3. अनुमानित का प्रयोग
वित्तीय विवरण लागू मानकों अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा अनुमानित एवं आकलन पर आधारित तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें उस कालखंड के लिए वित्तीय विवरण की तिथि को परिसंपत्तियां एवं देयताएं, फुटकर देयताएं, राजस्व एवं व्ययों की सूचित राशियों का विवरण होता है। वास्तविक परिणाम अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।
4. माल सूची मूल्यांकन
भंडार एवं पुर्ज (मशीनों के पुर्जों सहित) की कीमत पर मूल्यांकन किया गया है।
5. निवेश
निवेश लागत पर दर्शाए गए हैं।
6. विनिर्धारित/विशिष्ट निधियों के निवेश एवं इन निवेश पर अर्जित ब्याज आय:
यदि तुरंत व्यय के लिए आवश्यक नहीं हैं तो इस प्रकार की उपलब्ध निधियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं बाँड्स अथवा मियादी जमाओं में नियत समय के लिए बैंकों में जमा किया जाता है और शेष राशि को बचत खाते में छोड़ दिया जाता है।
इस प्रकार के निवेशों पर प्राप्त, अर्जित ब्याज एवं देय तथा अर्जित ब्याज किंतु देय नहीं, को संबंधित निधि में जोड़ दिया जाता है और उसे संस्थान की आय के रूप में नहीं माना जाता है।
7. अचल परिसंपत्तियां
अचल परिसंपत्तियों को प्रोद्भूत अवमूल्यन से घटाकर वास्तविक कीमत माना जाता है। परिसंपत्तियों, प्रभार, संस्थापन कीमत, कर्तव्य एवं कर तथा अन्य आकस्मिक व्ययों को मूल वास्तविक कीमत पर ही आंका जाता है जब तक कि अचल परिसंपत्तियां प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं।
8. अवमूल्यन
वर्ष 2014-15 से अचल परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है जैसा कि केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (सीईआई) के लिए संशोधित प्रपत्र जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा F.No. 32/21/2013-TS-I दिनांक 13.05.2015 पत्र में दिया गया है।

मूर्त चल संपत्तियां:			
1	भूमि	-	0%
2	साइट विकास	-	0%
3.	भवन	-	2%
4.	मार्ग एवं सेतु	-	2%
5.	ट्यूबवैल्स एवं जल आपूर्ति	-	2%
6.	सीवेज एवं ड्रेनेज	-	2%
7.	विद्युत संस्थापनाएं एवं उपकरण	-	5%
8.	संयंत्र एवं मशीनरी	-	5%
9.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	-	8%

10.	कार्यालय उपकरण	-	7.5%
11.	दृश्य एवं श्रव्य उपकरण	-	7.5%
12.	कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	-	20%
13.	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग्स	-	7.5%
14.	वाहन	-	10%
15.	पुस्तकालय पुस्तकें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स	-	10%
अमूर्त परिसंपत्तियां (ऋण मुक्ति):			
1.	ई-जर्नल्स	-	40%
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	40%
3.	पेटेंट्स एवं कॉपीराइट	-	9 Years

लेखांकन नीतियों में उपर्युक्त संशोधन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिपत्र संख्या F.No.32-21/2013-TS-1 दिनांक 13 मई, 2015 के अनुकूलन में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय विवरण प्रस्तुतियों हेतु निर्धारित प्रपत्र में किए गए हैं जिन्हें संस्थान ने वर्ष 2014-15 से आगे के लिए अपनाया है।

जहां संस्थान का स्वामित्व है वहां अनुदान-सह-सहायिकी, विनिर्दिष्ट/ विशिष्ट निधि/ प्रायोजित परियोजना निधि से निर्मित परिसंपत्तियों का मूल्यहास कॉर्पस / कैपिटल फंड में चार्ज किया गया है। यह एक प्रणालीगत एवं तार्किक आधार से मूल्यहास योग्य संपत्ति के सदुपयोगी काल खंड के ऊपर घटते हुए मूल्य हास प्रभार के साथ संपत्ति विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अनुदान-सह-सहायिकी एवं विनिर्दिष्ट निधि/ विशिष्ट निधि के लिए किया गया है।

9. राजस्व स्वीकृति

9.1 सहायता अनुदान

- गैर नियोजित अनुदान के लिए वर्गीकरण (राजस्व सहायता अनुदान) एवं मूलनिधिपरिव्यय के लिए योजना अनुदानसंबंधित अनुदानों के लिए अनुमोदन आदेशों के अनुरूप किए जाते हैं।
- इस प्रकार परिसंपत्तियों के अनुदान सह-सहायिकाएं प्राप्त होने पर परिसंपत्तियों के बाजार भाव पर आंकी जाती हैं तथा उसे कॉर्पस/कैपिटल फंड में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (सीईआईएज) के लिए निर्धारित संशोधित लेखांकन प्रपत्र में दिए गए लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर जोड़ा गया है। इन परिसंपत्तियों पर वर्ष भर में प्रभाषित मूल्य हास के बराबर की राशि परिसंपत्ति खाते में चार्ज की गई है एवं (सामग्री परिसंपत्तियों) कॉर्पस/कैपिटल फंड खाते में डेबिट की गई है।
- प्राप्त/प्राप्य अनुदानों से संबंधित व्ययों (अचल संपत्तियों को खरीदने सहित) को संबंधित अनुदान के साथ ही समायोजित किया गया है। अनुदान-सह-सहायिकी का व्यय न हुआ शेष धन वर्तमान देयताएं एवं समायोजन के लिए प्रावधानों शीर्ष के अंतर्गत अगले वर्षों में खर्चों के लिए अगले वर्ष के खाते में ले जाया गया है। प्राप्त अनुदानों की राशि में से संबंधित आय (यदि कोई है) के समायोजन के पश्चात् आय से अधिक व्यय को "ऋण एवं अग्रिम" के अंतर्गत आगे के वर्षों में जहां आवश्यक है भारत सरकार से प्राप्य राशि के शीर्ष में रखा गया है।
- अनुदान-सह-सहायिकी, विनिर्दिष्ट/विशिष्ट निधि/ प्रायोजित परियोजना निधि से क्रय परिसंपत्तियां जहां संस्थान में स्वामित्व निहित है, को कॉर्पस/खाता में केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों (सीईआईएज) के संशोधित प्रपत्र के अनुसार डाला गया है।

9.2 छात्रों से शैक्षणिक शुल्क

संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों (दीर्घ अवधि/लघु अवधि) के छात्रों से संग्रहीत शैक्षणिक शुल्क को प्रोदभवन आधार पर स्वीकार किया गया है एवं पाठ्यक्रम की अवधि में बांट दिया गया है।

9.3 सूचीबद्ध से अलग आय को "भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान" (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानक 9 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

9.4 अनुदान-सह-सहायिका पर व्याज

अनुदान-सह-सहायिका की खर्च न की गई राशि पर व्याज को आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया गया है।

9.5 आय कर : संस्थान की आय आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) (VI) के अंतर्गत आयकर से मुक्त है। अतः लेखांकन में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

10. वर्तमान चलन के अनुसार स्रिक की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को वित्तीय कथन में लाइन आइटम के रूप में दर्शाया गया है। प्रायोजित परियोजना निधि से सृजित जिन परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान के अधीन नहीं है, उन्हें संस्थान की अचल परिसंपत्तियों में न जोड़कर चालू परिसंपत्तियों में जोड़ा गया है और उतनी ही राशि संगत रूप से स्रिक / संस्थान के कॉर्पस से कम कर दी गई है तथा परियोजना निधि जैसे अलग से चालू देयताओं में लाइन आइटम की तरह स्थानांतरित की गई है। अन्य परिसंपत्तियां एवं देयताओं को वर्तमान में प्रभावी चलन के अनुसार लाइन आइटम की तरह दर्शाया गया है।

11. प्रौद्योगिकी अतिथि गृह का खाता अलग रूप से रखा गया है। प्रौद्योगिकी अतिथि गृह की कुल आय को वित्तीय कथन में शामिल किया गया है। अतिथि गृह की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वित्तीय कथन 2016-17 में लाइन आयटम के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए अतिथि गृह का लेखा खाता अलग से वार्षिक लेखांकन में संलग्न किया गया है।

12. अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्म एवं शीत अवधि (आईएसडब्ल्यूटी) का खाता सीईपी में अलग से रखा जाता है। इसलिए उसे वित्तीय कथन में वर्तमान चलन के अनुसार लाइन आयटम के रूप में रखा गया है।

13. सेवानिवृत्ति लाभ

13.1 उपदान (ग्रेच्युटी) एवं छुट्टी नकदीकरण देयता :

मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर कार्मिकों (प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों को छोड़कर) को भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण को प्रोदभूत आधार पर प्रोदभूती द्वारा प्रोदभूत मूल्यांकन किए गए हैं।

13.2 पेंशन की देयता : पेंशनधारियों को पेंशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आबंटित निधि से दी जाती है। देयता प्रोदभूत आधार पर नहीं दर्शाई गई है।

(S. Nayak)
Asst. Registrar (A/Cs)



आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2017 के लेखा की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची 24 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखांकन टिप्पणियां

A. आकस्मिक देयताएं

माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय एवं माननीय जिला न्यायालय, पश्चिम मेदिनीपुर, केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण नई दिल्ली के समक्ष निम्नलिखित न्यायालय मुकद्दमे अनिर्णीत चल रहे हैं-

क्रम सं.	मुकद्दा संख्या	मुकद्दे की विषय वस्तु	मुकद्दा दायर करने की तिथि	प्राधिकार
1.	W.P. No. 15270(W) of 2003 प्रो. सुब्रतो रॉय, पूर्व प्राध्यापक वीजीसोम Vs UOI/MHRD, कुलसचिव, निदेशक, उपनिदेशक, संकायाध्यक्ष (एफएण्डपी), प्रो. कल्याण चक्रवर्ती, संकायाध्यक्ष वीजीसोम	वीजीसोम में प्राध्यापक के रूप में अनुबंधित नौकरी से असंतुष्टि के कारण निष्कासन	02.09.2003	कोलकाता उच्च न्यायालय
2.	W. P. No. 317 (W) of 2004 बी. रवि कुमार, दत्तक पुत्र स्व. बी लक्ष्मीअम्मा, के पूर्व अनुचर, अर्ध-कुशल, ईएण्डएम के Vs कुल सचिव, सहायक कुलसचिव एवं उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)	क्षतिपूर्ति रोजगार के लिए प्रार्थना, अपनी दत्तक माँ के मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभों का भुगतान हेतु प्रार्थना	08.04.2001	-do-
3.	W. P. No. 17084 (W) of 2005 आनंदा मुर्मू, पुत्र स्व. जादूनाथ मुर्मू, पूर्व सफाई कर्मचारी, सेनेटरी अनुभाग Vs आईआईटी खड़गपुर, कुलसचिव, सहा. कुलसचिव (भर्ती), सहा. कुलसचिव (लेखा)	क्षतिपूर्ति रोजगार, दावाकर्ता के पिता के मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभ के लिए प्रार्थना	30.08.2005	-do-
4.	F.M.A. 2451 of 2005 आईआईटी खड़गपुर Vs के. एल. दोलई, पूर्व सिविल ठेकेदार	सिविल निर्माण कार्यों में भुगतान के लिए दावा मामला संख्या MS No 75/1995 जिला न्यायाधीश मेदिनीपुर में लंबित मामला	2005	-do-
5.	W. P. No. 384 (W) of 2006 जादव कुमार पाल, पूर्व सहा. कुलसचिव Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, निदेशक, कुलसचिव, अध्यक्ष- शासी मंडल एवं चयन समिति	उप कुलसचिव (ओबीसी) पद पर चयन नहीं किए जाने हेतु	05.01.2006	-do-
6.	F.A.T. No. 455 of 2008 में.रेडोन हाउस प्र. लि. कोलकाता, बीसीरॉय प्रौद्योगिकी अस्पताल में फिलिप्स लि. के पुराने एक्स रे मशीन मुल्लर डायग्नोस्टिक 40 के स्पेयर पार्ट्स विक्रेता Vs आईआईटी खड़गपुर	दिनांक 31.03.99 सेरु.1,00,582/-+ब्याज @6% प्रति वर्षतथा रु.12040/- के आदेशात्मक लागत के लिए डिक्ली	09.11.2008	डिक्ली के क्रियान्वयन हेतु संस्थान द्वारा दायर मनी एक्स.3/2011, अलीपुर न्यायालय को स्थानांतरित
7.	W.P.No. 5199 (W) of 2009 नितोश कुमार ब्रह्मा, पूर्व एस.ओ., रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग Vs मानव संसाधन विकास मंत्रालय /आईआईटी खड़गपुर	नौकरी जारी रखने की अनुमति देना, सेवानिवृत्ति उम्र 62 से 65 वर्ष बढ़ाये जाने, वेतन निर्धारण हेतु प्रार्थना.	29.06.2009	कोलकाता उच्च न्यायालय
8.	W. P. No. 284 (W) of 2011 डॉ. अमित कुमार घोष, पूर्व प्राध्यापक, वातरिक्ष अभियांत्रिकी विभाग Vs अध्यक्ष, शासी मंडल, निदेशक, कुलसचिव, सचिव, अधिशासी मंडल, न्यायाधीश रोमोजित मित्रा, श्री रंजन कुमार सरकार, वीएलओ, भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डॉ. जे.के. तिवारी, डीजीएस, आईईई (आई)	30.04.2011 से सेवानिवृत्त याचिकाकर्ता के संबंध में संस्थान कोविभागीय कार्यवाही इत्यादी में निग्रहण हेतु प्रार्थना	19.05.2011	-do-
9.	W. P. No. 6341 (W) of 2011 प्रणव कुमार राय, पूर्व खेल अधिकारी (पर्सनल), प्रौद्योगिकी छात्र जिमखाना Vs वरिय केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता, आईआईटी खड़गपुर, अध्यक्ष, अधिशासी मंडल, निदेशक, कुलसचिव, अध्यक्ष टीएसजी, सव्यसाची सेनगुप्ता, क्रीडा अधिकारी (पर्सनल)	खेल अधिकारी प्रभारी के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु	30.03.2011	-do-

क्रम सं.	मुकद्दा संख्या	मुकद्दे की विषय वस्तु	मुकद्दा दायर करने की तिथि	प्राधिकार
10.	W.P. No. 8555 (W) of 2011 मुतियाह रत्नासामी, पूर्व उप पुस्ताकलयाध्यक्ष, बीजीसोम में पदस्थापित Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईआईटी खड़गपुर अध्यक्ष, अधिशासी मंडल, निदेशक, कुलसचिव, उपकुलसचिव	62 वर्ष की उम्र तक उनकी सेवा जारी रखने हेतु	16.05.2011	-do-
11.	W.P. No. 18447 (W) of 2011 संजीव घोष दासतीदार, रताला, तालबागीचा, खड़गपुर-721302 Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (ऑडिट), रुपचंद मूर्म, विश्वनाथ घोष, श्यामल कुमार मंडल	अनुबंधित सुरक्षा पर्यवेक्षक / सुरक्षा गार्ड के पद पर नियुक्ति हेतु	14.11.2011	-do-
12.	CAN No. 611 of 2011 FMA 1766 of 2006, आईआईटी खड़गपुर Vs पश्चिम बंगाल राज्य, खड़गपुर नगरपालिका अध्यक्ष, खड़गपुर नगरपालिका, भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिलाधिकारी, पश्चिम मेदिनीपुर एवं आयुक्त, वर्धमान	आईआईटी खड़गपुर पर लगाये गये नगरपालिका कर से संबंधित	13.01.2011	-do-
13.	W. P. No. 20932 (W) of 2011 पार्थ प्रतिम भट्टाचार्जी, पूर्व तकनीकी सहायक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग Vs आईआईटी खड़गपुर, निदेशक, कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, डीजी एनआईआरडी, सचिव एमआरडी	कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक के पद पर पुनः बहाली हेतु प्रार्थना	08.12.2011	-do-
14.	W.P. No. 7082 (W) of 2013 डॉ. अनूप शर्मा, पूर्व चिकित्सा अधिकारी (होम्यो), बीसीआरटीएच अस्पताल Vs आईआईटी खड़गपुर, निदेशक, कुलसचिव, अध्यक्ष अधिशासी मंडल, प्रमुख बीसीआरटीएस, प्रो. रिटू बनर्जी, अध्यक्ष, एससीओडब्ल्यू	संस्थान सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु निग्रह प्रार्थना	06.03.2013	-do-
15.	W. P. No.32830 (W) of 2013 पुरनेन्दु शेखर पाणिग्रही, पूर्व अंशकालिक विपणन पर्यवेक्षक, सीईएलसी Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सचिव सीईएलसी, निदेशक आईआईटी खड़गपुर	विपणन पर्यवेक्षक पद पर पुनःनियुक्ति, सीईएलसी में पूर्व सेवा काल के वित्तीय लाभ हेतु प्रार्थना	18.09.2013	-do-
16.	W.P. No. 11666 (W) of 2014 डॉ. अशोक कुमार साहा, पूर्व प्राध्यापक वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रामीण विकास केन्द्र Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईआईटी खड़गपुर, अधिशासी मंडल, निदेशक, कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (स्थापना)	सीपीजी से जीपीएफ में रुपांतरण एवं पेंशन लाभ के भुगतान हेतु प्रार्थना	04.04.2014	-do-
17.	W.P. No. 16600 (W) of 2014 संतोष कुमार दोलई, पूर्व सहचर/पेशनर, कृषि एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग Vs निदेशक, कुलसचिव, पीएओ(पी) कृषि मंत्रालय एवं अधिशासी मंडल	संस्थान सेवा के साथ-साथ जेबीएमएफ परियोजना सेवा की मंजूरी, पिछला वेतन संरक्षण तथा तदानुसार पेंशन लाभ	11.06.2014	-do-
18.	W. P. No. 33773 (W) of 2014 तपन कुमार गुड्डैत, पूर्व खेल अधिकारी, टीएसजी Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईआईटी खड़गपुर, अधिशासी मंडल, निदेशक, सहायक कुलसचिव (स्थापना)	सीपीजी से जीपीएफ में रुपांतरण एवं पेंशनर लाभ के भुगतान हेतु प्रार्थना	05.12.2014	-do-
19.	W. P. No. 33771 (W) of 2014 प्रलय कुमार सेनगुप्ता, पूर्व अधीक्षक, भंडार एवं क्रय विभाग Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईआईटी खड़गपुर, अधिशासी मंडल, निदेशक, सहायक कुलसचिव (स्थापना)	सीपीएफ से जीपीएफ में रुपांतरण एवं पेंशनर लाभ के भुगतान हेतु प्रार्थना	05.12.2014	-do-



क्रम सं.	मुकद्दा संख्या	मुकद्दे की विषय वस्तु	मुकद्दा दायर करने की तिथि	प्राधिकार
20.	W. P. No. 33782 (W) of 2014 गोपी दास, पूर्व वरीय सहचर, वीसीआरटीएच Vs भारत सरकार /मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईआईटी खड़गपुर, अधिशासी मंडल, निदेशक, सहायक कुलसचिव (स्थापना)	सीपीएफ से जीपीएफ में रूपांतरण एवं पेंशनर लाभ के भुगतान हेतु प्रार्थना	05.12.2014	-do-
21.	M.S. No. 75/1995 कनई लाल दोलोई, पूर्व सिविल ठेकेदार Vs आईआईटी खड़गपुर तथा अन्य लंबित अपील	सिविल निर्माण कार्य हेतु पूर्ण एवं अंतिम निपटान	1995	पश्चिम मेदिनीपुर जिला न्यायालय
22.	J. Misc. No. 15/1989 बिमल कांति चक्रवर्ती, पूर्व सिविल ठेकेदार Vs आईआईटी खड़गपुर तथा अन्य	सिविल निर्माण कार्य हेतु पूर्ण एवं अंतिम निपटान	1989	-do-
23.	J. Misc. No. 16/1989 बिमल कांति चक्रवर्ती, पूर्व सिविल ठेकेदार Vs आईआईटी खड़गपुर तथा अन्य	सिविल निर्माण कार्य हेतु पूर्ण एवं अंतिम निपटान	1989	-do-

उपरोक्त मामले संबंधित माननीय उच्च न्यायालय/जिला न्यायाधीश न्यायालय/कैट में लंबित हैं। अतः इनके विषय में देयताएं वर्ष के दौरान आंकलित नहीं की जा सकी हैं।

ख. लेखांकन सूचना

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का लेखा विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिपत्र संख्या F.No.32-21/2013-TS-1 दिनांक 13 मई, 2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरण हेतु उपयुक्त रूप से स्वीकार किया गया है और उसके अनुरूप केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के लिए निर्धारित वित्तीय विवरणों के लिए प्रपत्र के अनुकूलन में प्रस्तुत किया गया है।
- चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम- प्रबंधन के विचार में चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम की कीमत सामान्य कामकाज व्यवहार में वास्तविकताओं पर होती है जो कि तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के कम से कम औसत के समतुल्य होती है।
- निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज बैंकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर लिए गए हैं। यदि किसी मामले में जहां बैंक द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है वहां उसकी गणना साधारण ब्याज आधार पर कागजातों में दर्शाई गई दरों पर की गई है।
- भंडार एवं पुर्जों की कीमत लागत मूल्यपर निकाली जाती है और जहां भी अंतिम भंडारों की उपलब्धि है वहां चालू परिसंपत्तियों में शामिल कर लिए जाते हैं।
- पैरा 9.1(iv) अनुसूची 23 के संदर्भ में: विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ, अनुदान-सहायता 2016-17 से निर्मित संपत्तियों को पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रेक्षण तथा मासिक के निर्धारित संरूप के अनुसार समग्र निधि/मूल निधि में जमा की गई है; प्रारंभिक शेष राशि एवं अन्य, इससे संबंधित, यदि कोई है, के समायोजन के उपरांत प्राप्त अनुदान से आधिक्य व्यय को अगले वर्ष के "ऋण एवं अग्रिम" मद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्य राशि, जहां आवश्यक हो, के रूप में ले जाया गया है। योजना सहायक अनुदान की अव्यय राशि "ऋण एवं अग्रिम" मद में वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्य राशि के अंतर्गत दर्शाया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान सिक द्वारा क्रय प्रायोजित परियोजना निधि से 16.06 करोड़ रुपये की, जहां स्वामित्व संस्थान के लिए निहित है, स्थाई परिसंपत्तियों को स्थानांतरित किया गया। जैसा कि स्थाई परिसंपत्ति जो संस्थान के स्वामित्व में है, उन्होंने संस्थान की स्थाई संपत्तियों के साथ मिलाकर तुलन पत्र में दर्शाया है। कथित परिसंपत्तियां जहां तक संस्थान इससे संबंधित है सभी ऋणों से मुक्त है इसलिए, परिसंपत्तियां संपत्तियों को घटाकर तथा स्थाई/मूल निधि को जोड़कर निर्धारित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुदान-सह-सहायता/ विनिर्धारित/ विशिष्ट निधि से निर्मित परिसंपत्तियां तथा परियोजना निधि से निर्मित परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व संस्थान में निहित है, स्थाई/मूल निधि में स्थानांतरित की गई है।

अनुदान-सह-सहायता राशि/ विनिर्धारित/ विशिष्ट निधि से निर्मित परिसंपत्तियों, प्रायोजित परियोजना निधि/परियोजना निधि या अन्य निधि से निर्मित परिसंपत्तियों पर भी अवमूल्यन की गणना की गई है तथा रुपये 73.58 करोड़ की राशि आय-व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान सिक ने अनुदान-सह-सहायता राशि/ विनिर्धारित/ विशिष्ट निधि तथा प्रायोजित परियोजना राशि (जहां स्वामित्व संस्थान में निहित है) से निर्मित परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन की रुपये 73.54 करोड़ की राशि को वर्ष 2016-17 के वित्तीय लेखा के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए आय-व्यय खाते में अलग-अलग स्थानांतरित किया गया है।

तदनुसार, अनुदान-सह-सहायता राशि, विनिर्धारित एवं विशिष्ट निधि, प्रायोजित परियोजना निधि से निर्मित निवल परिसंपत्तियां स्थाई/मूल निधि में अलग-अलग दिखाई गई है। वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा उत्पन्न राशि/घटनाओं से निर्मित परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन आधिक्य / (घटाव) से समायोजित की गई है।

- जैसा कि परिलक्षित हो रहा है, स्थाई/मूल निधि तथा आरक्षित एवं आधिक्य का कोई भौतिक प्रभाव मात्र उपर्युक्त कथित खुलासे के सीमा तक, वित्तीय वर्ष की किसी स्थिति पर नहीं हुआ है।

- (ii) अवमूल्यन की नीति में परिवर्तन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिपत्र संख्या F.No.32-21/2013-TS-1 दिनांक 13 मई, 2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरण हेतु उपयुक्त रूप से स्वीकार किया गया है और उसके अनुरूप केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के लिए निर्धारित वित्तीय विवरणों के लिए प्रपत्र के अनुकूलन में प्रस्तुत किया गया है।
6. जेईई, गेट, आईसीएम, ईएसडी, जेएमईटी, सीईपी, पीजीडीबीए कोर्स के साथ तीनों संस्थान, दीक्षांत समारोह लेखाकरण के नई संरूप के अनुसार आयोजित घटनाएं मानी जाती है तथा इनको अनुसूची-13 में अलग-अलग दर्शाया गया है।
7. अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म एवं शीत कार्यक्रम (आईएसडब्ल्यूटी) लेखा सीईपी द्वारा अलग से संचालित की जाती है। यह मौजूदा अभ्यास के अनुसार एक लाइन आइटम के रूप में वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।
8. स्रिक द्वारा अलग से लेखा खाते संचालित किए जाते हैं। स्रिक की परिसंपत्तियां एवं दायित्व मौजूदा अभ्यास के अनुसार एक लाइन आइटम के रूप में वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। वर्ष 2016-17 तक स्रिक द्वारा प्रायोजित परियोजना राशि के रुपये 407.03 करोड़ से निर्मित परिसंपत्ति जिसका स्वामित्व संस्थान में निहित होना है, संस्थान स्थाई परिसंपत्ति में जोड़ने के बदले वर्तमान परिसंपत्तियों में जोड़ा गया है तथा तदनुसार समान राशि स्रिक/संस्थान की स्थाई निधि से निकाल दी गई है तथा संस्थान के वर्तमान दायित्व में अलग से परियोजना निधि में लाइन आइटम के रूप में स्थानांतरित कर दी गई है। अन्य परिसंपत्तियां एवं दायित्व मौजूदा अभ्यास के अनुसार एक लाइन आइटम के रूप में वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।
9. प्रौद्योगिकी अतिथि गृह अलग लेखा खाते संचालित करती है। प्रौद्योगिकी अतिथि गृह से शुद्ध लाभ वित्तीय विवरण में अलग से शामिल की गई है। अतिथि गृह की परिसंपत्तियां एवं दायित्व वित्त वर्ष 2016-17 में अलग से लाइन आइटम के रूप में शामिल की गई है। अतिथि गृह की वर्ष 2016-17 की वार्षिक लेखा अलग से संलग्न की गई है।
10. विशिष्ट निधि/ विनिर्धारित निधि - इस वर्ष में "संस्थान का परियोजनाओं में अंशदान" नामक विशिष्ट निधि/ विनिर्धारित निधि निम्नप्रकार से बनाई गई है जिससे संस्थान का अंशदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं (जैसे कि हीरक जयंती परियोजना एवं बहुविशेषज्ञता अस्पताल) एवं निर्माण उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएम) में दिया जा सके-
- (i) वर्ष 2016-17 की शैक्षणिक प्राप्ति में से रुपये 30 करोड़ की राशि नए बनाई निधि "संस्थान का परियोजनाओं में अंशदान" में स्थानांतरित की गई है। इसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्राप्ति में वर्ष 2016-17 में 30 करोड़ रुपये घट गई हैं।
- (ii) वर्ष 2016-17 के लिए अक्षय निधि की ब्याज अर्जन आय से रुपये 20 करोड़ की राशि नए बनाई निधि "संस्थान का परियोजनाओं में अंशदान" में स्थानांतरित की गई है।
- उपरोक्त निधि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं एवं निर्माण उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएम) के लिए बीज राशि अथवा अन्य अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संस्थान अंशदान के रूप में उपयोग की जाएगी।
11. कर: भारतीयप्रौद्योगिकी संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। अतः लेखांकन में आयकर का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
12. वर्ष 2016-17 के दौरान यह देखा गया कि एसबीआई केजीपी शाखा में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बैंक गारंटी के रूप में प्रत्याभूति जमा के रूप में निवेश की मूल राशि रुपये 8,37,67,449 दिनांक 31.03.2017 को है। इस 8,37,67,449 रुपये में से रुपये 4,95,27,082 को वर्ष 2015-16 तक लेखांकन बही खातों में प्रत्याभूति जमा के रूप में दर्शाया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बैंक गारंटी के रूप में 31.03.2017 को रुपये 7,73,06,787 है। इसलिए निम्नलिखित समायोजन बही खातों में वर्ष 2016-17 के लिए किए गए हैं।
- (i) बची हुई प्रत्याभूति राशि रुपये 2,77,79,705 (रुपये 77306787- रुपये 4,95,27082)की बैंक गारंटी के समतुल्य राशि प्रत्याभूति जमा खाते से घटा दी गई है और स्थाई निधि / मूल निधि में जोड़ दी गई है।
- (ii) रुपये 64,60,662 की आधिक्य राशि (जैसे निवेश राशि रुपये 8,37,67,449 में से रुपये 7,73,06,787 बैंक गारंटी राशि) को बैंक द्वारा प्रत्याभूति जमाराशि के रूप में रखा गया है, उसे अन्य संस्थान द्वारा अन्य निवेश के रूप में अन्य निवेशों खाता से घटाते हुए और स्थाई निधि/ मूल निधि में जोड़ते हुए दर्शाया गया है।
- (iii) संचित ब्याज राशि रुपये 8,77,299 कुल निवेश 8,37,67,449 रुपये पर को संस्थान की आय के रूप में दर्शाया गया है।
13. कुल 24 अनुसूची 31 मार्च 2015 की समाप्ति के आय-व्यय खाते तथा तुलन पत्र के अविभाज्य एवं अभिन्न अंग के रूप में क्रमशः अनुलग्नक हैं।
14. ग्रेच्युटी एवं छुट्टी वेतन के प्रावधान बीमांकित मूल्यों के आधार पर किए गए हैं।
15. पैंशन भुगतान देय आधार पर किया गया है।
16. अनुसूची 8 में दर्शाई गई अचल संपत्तियों को प्रायोजित शोध परियोजना / अध्ययन / योजनागत निधियों जिनका स्रिक ने उपभोग किया है से क्रय की गई परिसंपत्तियों के रूप में नहीं दिखाया है क्योंकि स्वीकृत परियोजनाओं में यह पूर्व अनुबंध किया जाता है कि इस प्रकार परियोजना निधि से क्रय की गई समग्र संपत्तियां प्रायोजकों की संपत्ति ही रहेंगी।
17. जीपीएफ, सीपीएफ एवं एनपीएस खातों को अलग से रखा गया है और उन्हें संस्थान खाते में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें अलग संलग्न किया गया है।
18. वित्तीय विवरण 2016-17 में घटनाओं एवं लेन देन की उपयुक्त प्रस्तुतिकरण हेतु पिछले वर्ष की संगत संख्याओं को जहां आवश्यक है वहां पुनः समूहित तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है।



प्रौद्योगिकी अतिथि गृह
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर

31 मार्च 2017 के लिए तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

फंड का स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
समग्र निधि / मूलधन निधि	1	26510471	18424238
विनिर्धारित / अक्षय निधि	2	-	-
चालू ऋण एवं व्यवस्था	3	7730964	4009916
कुल		34241435	22434154

निधि का अनुप्रयोग	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अचल संपत्तियां	4		
मूर्त परिसंपत्तियां		6855683	5094681
निवेश	5	-	-
चालू परिसंपत्तियां	6	26667921	16608578
ऋण, अग्रिम एवं जमा	7	717831	730895
कुल		34241435	22434154

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

प्रौद्योगिकी अतिथि गृह
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
आय			
कक्ष किराये से आय	8	34790324	26258276
प्राप्त ब्याज	9	437105	504554
अन्य आय	10	281562	292
कुल (A)		35508991	26763122
व्यय			
स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	11	2053636	1113780
मरम्मत एवं रख रखाव	12	24560579	23241311
वित्त लागत	13	28663	21302
अवमूल्यन	4	779880	541303
कुल (B)		27422758	24917696
व्यय से अधिक आय (A-B)		8086233	1845426
अवमूल्यन राशि के लिए आरक्षित मूलधन स्थानांतरण		-	-
अधिक कुल / (घाटा)मूल निधि में ले जाया गया		8086233	1845426

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)



प्रौद्योगिकी अतिथि गृह
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर

वर्षांत 31 मार्च 2017 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I	प्रारंभिक कुल		
	हाथ में नकद	63961	52211
	बैंक में राशि	11477669	11077321
II	कमरों का किराया	31079006	25244520
III	निवेश से आय	-	-
IV	प्राप्त ब्याज	571956	474636
V	उधार ली गई राशि / प्रत्याभूति वापसी प्राप्त हुई	-	689758
VI	अन्य प्राप्तियाँ	52513	292
	कुल	43245105	37538738
क्रम सं.	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I	स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	2048189	986315
II	स्थाई परिसंपत्तियों पर व्यय	2490973	173009
III	किये गये निवेश एवं जमा	-	-
IV	रख रखाव एवं मरम्मत	17134794	20951966
V	जमा एवं अग्रिम	1500000	-
VI	अन्य भुगतान	2181494	3885818
VII	अंतिम कुल		
	हाथ में नकद	29611	63961
	बैंक में राशि	17860044	11477669
	कुल	43245105	37538738

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

(सी.ए. बी. भट्टाचार्य)
उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)

(पी. पाइन)
कुलसचिव

(पी.पी.चक्रवर्ती)
निदेशक

दिनांक: 10 जुलाई 2017

प्रौद्योगिकी अतिथि गृह
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर

वर्षांत 31 मार्च 2017 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष
अनुसूची 1 : समग्र निधि/मूल निधि			
वर्षारंभ में कुल राशि	18424238		16578812
जोड़: व्यय से अधिक आय	8086233	26510471	1845426
कुल		26510471	18424238
अनुसूची 2 : विनिर्धारित/अक्षय निधि			
		-	-
अनुसूची 3 : वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान			
बकाया व्यय		7338078	1924600
एएमजीएच को देय		20400	20400
आईएसएस फैसिलिटी सर्विसेज हेतु किये गये जमा		-	116125
जमा प्रतिभुति		334488	415693
एएमजीएच को देय (पिछला खाता)		2600	2600
डी मुखोपाध्याय से आधिक्य आरटी (पिछला खाता)		8800	8800
भोजन बिल आईएसएस (पिछला खाता)		2283	2283
भोजन बिल कोलकाता कार्यालय (पिछला खाता)		149	149
एनडीएसएस का बकाया बिल (पिछला खाता)		1271	1271
टीसीएस का बकाया बिल (पिछला खाता)		745	745
संस्थान कि ओर से प्राप्ति (पिछला खाता)		17250	17250
आईआईटी खड़गपुर को देय (ऋण)		-	1500000
आयकर को देय		100	-
डीन (एएआईआर) को देय		4800	-
कुल		7730964	4009916



(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

प्रौद्योगिकी अतिथि गृह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
31 मार्च 2017 के तुलना-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

अनुसूची- 4 अचल संपत्ति

		(राशि रुपये में)												
		मूल्य व्यक्त					अन्य मूल्य					नोट व्यक्ति		
विवरण		अनुमूल्यन दर	चालू वित्त वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	"वर्ष के दौरान कटौती"	चालू बर्षों में लागत / मूल्यांकन	वर्षों में समायोजन के बाद	वर्षों में औष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान अमूल्यन	वर्ष के दौरान अमूल्यन	वर्षों में संशुद्ध अमूल्यन	चालू शेषों में	पिछले बर्षों में
A)	व्याज संपत्ति													
1	अचल संपत्ति													
a)	भूमि													
b)	श्री होल्डिंग	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भवन :													
a)	आन श्री होल्डिंग लिड	2%												
b)	आन श्री होल्डिंग लिड	2%												
c)	कार्पोरेट परिसर एवं गैर आवासीय भवन	2%												
d)	आवासीय हाउस एवं बैंक एवं पोस्ट ऑफिस एवं अतिथि गृह	2%												
e)	मालिकाना फ्लैट/परिसर	2%												
f)	भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर्स	2%												
3	रोड एवं ब्रिज	2%												
4	स्टीरिज एवं ड्रेनेज	2%												
5	कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	संवय, मशीनरी एवं उपकरण	5%												
7	वाहन	10%												
8	परिसर एवं फिसर्स	7.50%	479822			479822	107960	35987				143947	335875	443835
9	कार्यालय उपकरण	7.5%	1599583	2156801		3756384	301788	119969	161760			583517	3172867	1319581
10	कंप्यूटर्स / परिपक्व	20%	159822	384081		543903	91941	31964	76816			200722	343181	127858
11	वैद्युतीय व्यापार	5%	0			0	0	0	0			0	0	0
12	पुस्तकालय पुस्तकें	10%	0			0	0	0	0			0	0	0
13	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%	0			0	0	0	0			0	0	0
14	दृश्य-श्रवण उपकरण	7.5%	0			0	0	0	0			0	0	0
15	दृश्य-श्रवण एवं अनापूर्ति	2%	4417294			4417294	1060151	353384				1413534	3003760	4063910
कुल	अन्य अचल संपत्तियां	8%	6656521	2540882	0	9197403	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5955184
B)	कुल अचल संपत्ति		6656521	2540882	0	9197403	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5955184
i)	अचल संपत्ति	40%												
ii)	पुस्तकालय अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%												
कुल अचल संपत्ति			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	कैपिटल वॉल्यूम प्रगति													
A+B+C	कुल		6656521	2540882	0	9197403	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5955184

Sayan
(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

प्रौद्योगिकी अतिथि गृह
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
वर्षांत 31 मार्च 2017 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 5 : निवेश	-	-
अनुसूची 6 : वर्तमान परिसंपत्ति		
विविध देनदार	8778266	5066948
कुल नगद राशि	29611	63961
बैंक में कुल राशि		
एसबीआई बचत	10884368	10402827
एसबीआई पीओ	6975676	1074842
कुल	26667921	16608578
अनुसूची 7 : ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्ति		
जमा प्रतिभूति (गैस सिलेन्डर)	12545	12545
प्रोद्भूत ब्याज	-	134851
पूर्वदत्त केबल प्रभार	692027	570240
पूर्वदत्त व्यय (पिछला खाता)	3414	3414
प्राप्य टीडीएस (पिछला खाता)	9845	9845
कुल	717831	730895

Shayam

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)



प्रौद्योगिकी अतिथि गृह
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र की आंशिक आधारीय अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष
Schedule No.8 : Income from Room Rent			
कमरे के किराये से प्राप्त हुआ	31079006		26258276
जोड़ : प्राप्त	3711318	34790324	
कुल		34790324	26258276
अनुसूची 9 : प्राप्त ब्याज			
बचत खाते से ब्याज (उपार्जित सहित)	571956		504554
घटाना : प्रोद्भूत ब्याज समायोजित	134851	437105	
कुल		437105	504554
अनुसूची 10: अन्य आय			
मिश्रित आय	3548		292
पैनल्टी	278014	281562	-
कुल		281562	292
अनुसूची 11: स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय			
मानदेय		123300	70580
मुद्रण एवं स्टेशरी		104060	114403
विज्ञापन एवं प्रचार		140681	-
वर्दी		-	45434
यातायात एवं ईंधन प्रभार		1100	2265
टेलिफोन प्रभार		1000	2933
भोजन एवं पेय		111226	100671
संचालन व्यय		1514769	777494
लेखा परीक्षण शुल्क		57500	-
कुल		2053636	1113780
अनुसूची 12: मरम्मत एवं रख रखाव			
गृह प्रबंधन एवं रख रखाव प्रभार		23230853	22026191
धुलाई व्यय		316319	242176
वागवानी व्यय		26447	26874
केबल व्यय		986960	946070
कुल		24560579	23241311
अनुसूची 13 : वित्तीय लागत			
बैंक प्रभार		28663	21302

Shayan

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

सामान्य भविष्यनिधि

31 मार्च 2017 के वर्षांत हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारम्भिक कुल		Rs	व्यय		Rs
चालू खाता एसबीआई	4743667	11386654	अग्रिम/एनआरडब्ल्यू/एफपी	208111147	215916134
बचत खाता एसबीआई	5307415	3825033			
निवेशों का नकदीकरण			निधि स्थानांतरण		
दीर्घअवधि निवेशों की पूर्णता	1499677231	810599223	लियन अंशदान	0	189571
निवेशों पर आय			अन्य प्रभार		
निवेशों पर ब्याज	153706139	92875171	बैंक प्रभार	2245	632
			अन्य भुगतान	52000	1560
अंशदान एवं अन्य जमा	204275915	208474351	निवेश		
			दीर्घअवधि निवेश	1653013423	901192584
अन्य प्राप्तियां			अंतिम कुल		
लियन अंशदान	0	189571	चालू खाता एसबीआई	4975367	4743667
अन्य	267992	1560	बचत खाता एसबीआई	1824177	5307415
कुल	1867978359	1127351563	Total	1867978359	1127351563

31 मार्च 2017 के वर्षांत हेतु आय एवं व्यय

(राशि रुपये में)

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अंशदाताओं के खाते में स्थानांतरण					
निजी अंशदान पर ब्याज	117405919	116938456	वर्ष के लिए ब्याज	54749795	50873266
प्रशासनिक खर्चे			जोड़- संचयित ब्याज	63318631	76888679
बैंक प्रभार	2245	632			
व्यय से अधिक आय	660262	10822857			
कुल	118068426	127761945	Total	118068426	127761945

31 मार्च 2017 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	परिसंपत्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अंशदाता खाता			निवेश	1625863776	1472527584
प्रारंभिक कुल	1445331470	1335821495			
घटाना-समायोजन	17968	325426109	संचयित ब्याज	63318631	98956344
जोड़ना- अंशदान एवं अन्य जमा	321629834				
घटाना-वर्ष की देयताएं	207429382	215916134	आधिक्य एफपी प्राप्य	413773	
अंतिम कुल	1559513954	1445331470			
एरियर ब्याज भुगतान न हुई (दिवंगत कर्मचारी)	0	2927	अंतिम कुल		
आरक्षित एवं आधिक्य	136881770	136200613	चालू खाता एसबीआई	4975367	4743667
			बचत खाता एसबीआई	1824177	5307415
कुल	1696395724	1581535010	Total	1696395724	1581535010



(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)



(सी.ए. बी. भट्टाचार्य)
उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)



(पी. पाडन)
कुलसचिव



(पी.पी.चक्रवर्ती)
निदेशक

दिनांक: 10 जुलाई 2017



अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2017 के वर्षांत हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक कुल		Rs	व्यय		Rs
एसबीआई बचत खाता	4378961	1183465	अग्रिम/एनआरडब्ल्यू/एफपी	10564092	4085191
निवेशों का नकदीकरण			निधि का स्थानांतरण	0	0
दीर्घअवधि के निवेशों की पूर्णता	164116390	134308950	विविध भुगतान	0	6904
निवेशों पर आय			बैंक प्रभार	184	0
निवेशों पर ब्याज	14526409	15544278	निवेश		
अंशदान एवं अन्य जमा	11118135	10524598	दीर्घ अवधि निवेश	181336161	155562168
प्राप्त आईसी	2524350	2465029	अंतिम कुल		
अन्य प्राप्तियां	21995	6904	एसबीआई बचत खाता	4785803	4378961
कुल	196686240	164033224	Total	196686240	164033224

31 मार्च 2017 के वर्षांत हेतु आय एवं व्यय खाता

(राशि रुपये में)

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अंशदाता के खाते में जमा			वर्ष के लिए ब्याज	4487339	3312346
निजी अंशदान एवं आईसी पर ब्याज	11694519	11093102	जोड़-संचयित ब्याज	9189783	10041221
प्रशासनिक खर्चे					
बैंक प्रभार	184	0			
व्यय से अधिक आय	1982419	2260465			
कुल	13677122	13353567	Total	13677122	13353567

31 मार्च 2017 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	परिसंपत्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अंशदाताओं के खाते			निवेश	176781939	159562168
प्रारंभिक कुल	145130240	125132702			
घटाना-समायोजन	64928	24082729	संचयित ब्याज	9189783	10041221
जोड़-अंशदान एवं अन्य जमा	25337004		पिछले वर्ष का संचयित ब्याज	2151	0
घटाना-वर्ष भर में देयताओं का भुगतान	10542097	4085191	संस्थान से प्राप्य	0	0
अंतिम कुल	159860219	145130240	अंतिम कुल		
आरक्षित एवं आधिक्य	30899457	28852110	एसबीआई बचत खाता	4785803	4378961
कुल	190759676	173982350	Total	190759676	173982350

(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)

(सी. ए. वी. भट्टाचार्य)
उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)

(पी. पाइन)
कुलसचिव

(पी. पी. चक्रवर्ती)
निदेशक

दिनांक: 10 जुलाई 2017

नई पेंशन योजना

31 मार्च 2017 के वर्षांत हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक कुल		Rs	व्यय		Rs
एसबीआई बचत खाता	73826	144902	निधि का स्थानांतरण	93305002	79858370
निवेशों का नकदीकरण			वापसी	12	1638
दीर्घअवधि के निवेशों की पूर्णता	1004730	900000	बैंक प्रभार	184	
निवेशों पर आय			निवेश	1084889	1004730
निवेशों पर ब्याज	143374	180305			
अंशदान एवं अन्य जमा	93305014	79860008	ब्याज भुगतान		
			अन्य भुगतान	0	146651
अन्य प्राप्तियां	0	0	अंतिम कुल		
			एसबीआई बचत खाता	136857	73826
कुल	94526944	81085215	Total	94526944	81085215

31 मार्च 2017 के वर्षांत हेतु आय एवं व्यय खाता

(राशि रुपये में)

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अंशदाता के खाते में जमा			वर्ष के लिए ब्याज	115204	129086
निजी अंशदान एवं आईसी पर ब्याज	0	0	जोड़-संचयित ब्याज	30243	28170
प्रशासनिक खर्चे					
बैंक प्रभार	184	0			
व्यय से अधिक आय	145263	157256			
कुल	145447	157256	Total	145447	157256

31 मार्च 2017 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	परिसंपत्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
Subscribers' A/C			निवेश	1084889	1004730
प्रारंभिक कुल	107000	262744	संचयित ब्याज	30243	28170
जोड़-अंशदान एवं अन्य जमा	93305014	79860008			
घटाना-वर्ष भर में देयताओं का भुगतान	93305014	80015752	अंतिम कुल		
अंतिम कुल	107000	107000	एसबीआई बचत खाता	136857	73826
आरक्षित एवं आधिक्य	1144989	999726			
कुल	1251989	1106726	Total	1251989	1106726



(एस. नायक)
उपकुलसचिव (लेखा)



(सी. ए. वी. भट्टाचार्य)
उपकुलसचिव (वित्त एवं लेखा)




(पी. पाइन)
कुलसचिव



(पी. पी. चक्रवर्ती)
निदेशक

दिनांक: 10 जुलाई 2017

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17



**INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
KHARAGPUR - 721302**



SPEED POST
CONFIDENTIAL

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग
महा निदेशक, लेखा-परीक्षा का कार्यालय,
केन्द्रीय, कोलकाता

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
CENTRAL, KOLKATA.**

No: OA II (AB)/AR/2016-17/IIT Kharagpur 1439
Date: 05.12.2017

To
The Secretary,
Ministry of Human Resource Development,
Government of India,
Department of Secondary & Higher Education,
New Delhi - 110001

**Subject: Separate Audit Report on the accounts of the Indian Institute of Technology,
Kharagpur, for the year 2016-17**

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report in the prescribed format introduced by the C & A.G of India on the accounts of the **Indian Institute of Technology, Kharagpur**, for the year 2016-17. A copy of the annual accounts of the organisation for the year 2016-17 is also enclosed.

2. Two copies of Separate Audit Report (both English and Hindi Version), as presented before Parliament, may please be forwarded to this office for necessary action at this end.
3. The dates of laying the audited accounts and the Separate Audit Reports for the years 2016-17 on the Tables of both the Houses of Parliament may also please be communicated to this office.

Yours faithfully,

(P.K.Singh)

**Director General of Audit
Central: Kolkata**

Encl.: As stated

जि. आई. प्रेस बिल्डिंग, 8 किरण शंकर राय रोड (1म मंजिल), कोलकाता- 700001
Govt. of India Press Building, 8, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700001
Phone : 2254-0221, (Gram : ACCOUNTCENT) POST BOX : 2689, Fax No.: 033 22135377



CONFIDENTIAL

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग
महा निदेशक, लेखा-परीक्षा का कार्यालय,
केन्द्रीय, कोलकाता

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
CENTRAL, KOLKATA.**

No: OA II (AB)/AR/2016-17/IIT Kharagpur / 440

Date: 05/12/2017

A copy of the Separate Audit Report alongwith Annexure on the accounts of the **Indian Institute of Technology, Kharagpur**, for the year 2016-17 is forwarded to the **Registrar, Indian Institute of Technology, Kharagpur, , PIN-721302**, for information and necessary action.

Arrangement may please be made for preparation of Hindi Version of the Separate Audit Report with Annexure at your end and sending the same directly to the Ministry.

It may please be ensured that the Audited Accounts and the Separate Audit Report along with Annexure are placed before the apex body for consideration and adoption before the same are sent to the Government for being placed in Parliament.

Two copies of the printed Annual Report for the year 2016-17 (both English and Hindi Version) containing the Audited Accounts and the Separate Audit Report along with Annexure, as laid before Parliament, may please be forwarded to this office for necessary action at this end.

Encl: As stated

[Signature]
05/12/2017
Deputy Director (Inspection)

जि. आई. प्रेस बिल्डिंग, 8 किरण शंकर राव रोड (1म मंजिल), कोलकाता- 700001
Govt of India Press Building, 8, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700001
Phone : 2254-0221. (Gram : ACCOUNTCENT) POST BOX : 2899, Fax No. : 033 22135377

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Indian Institute of Technology, Kharagpur for the year ended 31 March 2017

We have audited the attached Balance Sheet of the Indian Institute of Technology, Kharagpur as at 31 March 2017, the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section-19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section-23(2) of the Indian Institute of Technology Act, 1961. These financial statements include the accounts of two branch units also. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i.* We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii.* The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up except stated in the report in the format prescribed by the Ministry of Human Resource Development, Government of India vide order No. 29-4/2012-FD dated 17 April 2015.
- iii.* In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Indian Institute of Technology, Kharagpur as required under Section 23(2) of the Indian Institute of Technology Act, 1961 in so far as it appears from our examination of books.
- iv.* We further report that

Comments on Accounts

A. Balance Sheet

1.1 Liabilities

1.1.1 Corpus/ Capital Fund (Schedule 1) – ₹1695.60 crore

The above head had been overstated by ₹0.83 crore since amounts of ₹0.71 crore and ₹0.12 crore received from Institute-Main during the years 2015-16 and 2016-17 respectively had been recognized as income by Sponsored Research and Industrial Consultancy (SRIC) and included in 'Capital & Project Fund-SRIC' in Corpus Fund (Schedule-1) instead of Current Liabilities (Schedule-3).

This resulted in understatement of Current Liabilities and Provision (Schedule-3) by ₹ 0.83 crore.

1.1.2 Current Liabilities and Provisions (Schedule-3) – ₹827.66 crore

The above head had been understated by ₹0.16 crore due to inclusion of negative balance under the head 'Transferable Deduction' in Current Liabilities instead of Current Assets. This also resulted in understatement of Current Assets (Schedule-7) by ₹ 0.16 crore.

1.2 Assets

1.2.1 Fixed Assets-Capital Work in Progress (Schedule-4): ₹359.27 crore

The above had been overstated by ₹5.21 crore due to inclusion of net value of fixed assets of SRIC and Technology Guest House, instead of showing the same under Fixed Assets (Tangible/Intangible). This also resulted in understatement of Fixed Assets by ₹5.21 crore.

1.2.2 Loans, Advances & Deposit (Schedule-8): ₹642.93 crore

The above had been overstated by ₹19.96 crore due to inclusion of 'Advance to SRIC' and 'Provision for Foreign Exchange' amounting to ₹12.53 crore and ₹7.43 crore respectively as deduction from Plan grant in Grant Receivable, in violation of Format of Accounts prescribed by MHRD. Correspondingly, provision of ₹19.96 crore against receivable amounts was also created in Current Liabilities. This resulted in overstatement of Current Liabilities and Provisions (Schedule-3) by ₹19.96 crore

B. Income & Expenditure Account

2.1 Expenditure

2.1.1 Depreciation (Schedule-4): ₹ 73.58 crore

The above head had been understated by ₹0.68 crore due to charging of depreciation for SRIC-project assets valued ₹22.54 crore @ 5 per cent under 'Plant, Machinery & Equipment' instead of @ 8 per cent under 'Scientific & Laboratory Equipment'. This also resulted in overstatement of Excess of Income over Expenditure by ₹0.68 crore.

C. Receipts and Payments Account

3.1 Despite mention in previous year's Audit Report, the Institute had not prepared Receipts and Payments Account for the year 2016-17 as per the Format of Account prescribed by MHRD. As per the Format, separate heads for expenses (Establishment Expenses, Academic Expenses, Administrative Expenses, Repair & Maintenances and Expenditure on Fixed Assets and Capital Works in Progress) should be exhibited in the Accounts. However, Institute had prepared in Receipts and Payments Account in different format and exhibited all the expenditure (except expenditure on Investment made-₹990.01 crore, Finance Cost-₹3.11 lakh) under one head 'Payment to the Sundry Creditors/Settlement of Current Liability & Provision (including Employees/Students etc.)'. As such, head wise payments as per the Format could not be ascertained in audit.

D. GPF, CPF & NPS Account

4.1 Though Bank provided the maturity value of ₹4.09 crore for 8 Investments consisting 56 Fixed Deposit Receipts, the same was included in General Provident Fund Accounts as ₹3.91 crore. This resulted in understatement of interest income and Excess of Income over Expenditure by ₹0.18 crore.

4.2 Due to incorrect computation of accrued interest in respect of five Investments, Accrued Interest on Investments and Excess of Income over Expenditure had been overstated by ₹0.32 crore.

E. General

5.1 In contravention of Format of Account prescribed by MHRD, separate head of account for 'Plant, Machinery & Equipment' and 'Scientific & Laboratory Equipment' had not been maintained in SRIC Account instead of both accounts were clubbed together.

5.2 In contravention of Format of Accounts prescribed by MHRD, Institute did not disclose in the Notes to Accounts the book value and notional depreciation of fixed assets which were not included in Fixed Assets (Schedule-4) of Institute as ownership remained with sponsor.

5.3 Though, Institute adjusted Advance to SRIC valued ₹24.00 crore towards capital expenditure during the year 2016-17, SRIC Account did not exhibit the effect of adjustment neither in Fixed Assets-Sponsored Project (Schedule-4A) nor in Project Fund (Schedule-1B).

5.4 Interest earned from investment of balances of non-SRIC projects was included as income of SRIC instead of respective project accounts.

F. Grants in Aid

The Institute is mainly financed by grants from the Government of India. Since no separate heads as per revised Format of Account was exhibited in the Receipts and Payments Accounts, the utilization of grants could not be ascertained in audit. (Ref. Para 3.1). However, a statement in this regard was submitted by the Institute to audit. As per the statement, during the year 2016-17, the Institute had received total grant of ₹441.51 crore (Plan grants: ₹180.33 crore and Non- Plan grants: ₹261.18 crore). Out of the total grants of ₹441.51 crore, the Institute had utilized ₹552.08 crore (Plan: ₹206.60 crore and Non-Plan grant: ₹345.48 crore). The excess expenditure (₹26.27 crore) under Plan grant was met out by taking temporary loan from Endowment Fund and excess expenditure under Non-Plan grant (₹84.30 crore) was met out from internal resource generation.

(i) The Institute had received grant of ₹34.75 crore under Research Park (NIIT) after adjusting recoverable balances of the previous year and had spent ₹5.12 crore under the head Capital Work in Progress leaving unspent balance of ₹29.63 crore.

(ii) The Institute had received TEQIP-II grant of ₹1.63 crore from the MHRD and had spent ₹1.18 crore (including 20% over head charges) during the year 2016-17 resulting in an unspent balance of ₹0.45 crore.

(iii) The Institute had also received an amount of ₹25.59 crore for GIAN (Global Initiative of Academic Network) programme from the MHRD and had released ₹38.00 crore to different participating institutes in the programme during the year 2016-17. The excess expenditure was met from unspent balance of previous year and thus, leaving an unspent balance of ₹9.60 crore lying with the IIT, Kharagpur.

G. Net Effect

The net impact of comments in preceding paragraphs was that the Assets and Liabilities were overstated by ₹19.80 crore as at 31 March 2017 and Excess of Income over Expenditure (Surplus) of GPF, CPF and NPS Account was also overstated by ₹0.14 crore for the year ended 31 March 2017.

H. Management letter


Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Director, IIT Kharagpur, through a management letter, issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

- a. in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Indian Institute of Technology, Kharagpur as at 31 March 2017 and
- b. in so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



(P.K.Singh)
Director General of Audit
(Central) Kolkata

Place: Kolkata
Date: 05.12.2017

Annexure

A. Adequacy of Internal Audit System

Internal Auditing System is inadequate due to the following:

- No Internal Audit Manual was in use.
- Internal audit function was outsourced to a Chartered Accountant firm and covered only the Financial and Accounting part of the Institute against the various scope of work as per agreed terms and conditions of engagement.
- The Institute's Internal Audit wing was not adequately staffed (manned by two officials) and functioned as a coordination cell.

B. Adequacy of Internal Control System

Internal Control System is inadequate in the following areas:

- No Accounting Manual was in use;
- The Institute was following a improper practice in a number a cases, to pass the bills of SRIC through a single cheque. Hence, possibility of the excess payment cannot be ruled out.
- The outstanding liabilities as well as the receivables were not reviewed periodically.
- There was no system to issue pre-numbered Goods Receipt Notes (GRN) to evidence the receipt of materials. As such no copies of GRN forwarded to Accounts Department and list of goods received to Purchase Departments for keeping of proper records at their end.
- Suppliers invoices are not directly routed through Accounts Department.
- There was no system of periodical reporting on shortage/excess of inventory.
- Purchases were not centralized in the purchase department.
- The transactions were entered in the Ledgers of the SRIC and Allied Accounts without recording any narration against the vouchers. As such, the nature of transactions could not be ascertained and correctness of the account head-wise classification could not be verified from the Ledgers submitted to audit

C System of Physical Verification of Fixed Assets

The Institute including SRIC had not maintained Fixed Assets Register. Instead, year wise Stock Register of fixed asset (addition during the year) is maintained for the Institute since 2006-07 and for SRIC Accounts since 2013-14. The year wise Stock Registers, however, did

not depict opening and closing balances of particular fixed asset. Besides, physical verification of these fixed assets was not ever done. Thus, in absence of the Fixed Asset Register and physical verification report, conditions and actual existence of the fixed assets valuing ₹1497.60 crore (net value) could not be ascertained in audit.

D Regularity in payment of statutory dues: The Institute was regular in payment of Statutory dues.



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
A. 1.1 1.1.1	<p>Balance Sheet</p> <p>Liabilities</p> <p>Corpus/ Capital Fund (Schedule 1) –Rs.1695.60 crore</p> <p>The above head had been overstated by Rs. 0.83 Crores since amounts of Rs. 0.71Crores and Rs.0.12.Crores received from Institute-Main during the years 2015-16 and 2016-17 respectively, had been recognized as income by SRIC and included in 'Capital and Project Fund-SRIC' in Corpus Fund (Schedule-1) instead of Current Liabilities (Schedule-3)</p> <p>This also resulted in understatement of Current Liabilities and Provision (Schedule-3) by Rs.0.83 Crores.</p>	<p>Necessary advice has been communicated to SRIC for rectification entries, wherever necessary as suggested by the audit. The same will be shown to the Audit in the year 2017-18.</p>
1.1.2	<p>Current Liabilities and Provisions (Schedule-3) Rs. 827.66 crore</p> <p>The above head had been understated by Rs. 0.16 crore due to inclusion of negative balance amounting under the head 'Transferable Deduction' in Current Liabilities instead of Current Assets. This also resulted in understatement of Current Assets (Schedule-7) by Rs 0.16 crore.</p>	<p>Netting off the particular head liabilities with the other heads of liabilities under same group of liabilities i.e. Current Liabilities has been done inadvertently. But such netting off liabilities does not any material effect on the position of Financial Statements.</p> <p>However, as suggested by the audit same will be taken into consideration in the future.</p>
1.2 1.2.1	<p>Assets</p> <p>Fixed Assets-Capital Work in Progress (Schedule-4): Rs. 359.27 crore</p> <p>The above had been overstated by Rs. 5.21 crore due to inclusion of fixed assets valued of SRIC and Technology Guest House, instead of showing the same under Fixed Assets (Tangible/ Intangible) This also resulted in understatement of Fixed Assets by Rs. 5.21 crore.</p>	<p>The Fixed Assets as disclosed in the Balance Sheet includes :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tangible Assets (ii) Intangible Assets (iii) Capital Work in Progress <p>Hence, total of the above three components represent the Net value of the Fixed Assets.</p> <p>As mentioned by Audit, a sum of Rs.5.21 crores representing net assets of SRIC & Technology Guest House have been inadvertently clubbing with the CWIP during the year 2016-17. Since, the assets have been duly depreciated; there is no material effect in the Income and Expenditure of the Institute for the year 2016-17.</p> <p>Further misclassification within the group of Fixed Assets has also no impact in the Financial Statement. Hence, there is no understatement of Fixed Assets as pointed out by the Audit.</p> <p>However, necessary rectification will be made in 2017-18. In view of the above, the para may be dropped.</p>

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
1.2.2	<p>Loans, Advances & Deposit (Schedule-8): Rs. 642.93 crore</p> <p>The above had been overstated by Rs.19.96 crore due to inclusion of 'Advance to SRIC' and 'Provision for Foreign Exchange' amounting to Rs. 12.53 crore and Rs.7.43 crore respectively as deduction from Plan grant in Grant Receivable, in violation of Format of Accounts of prescribed by MHRD. Correspondingly, provision of Rs.19.96 crore against receivable amounts was also created in Current Liabilities. This resulted in overstatement of Current Liabilities and Provisions (Schedule-3) by Rs. 19.96 crore</p>	<p>The provision of Rs. 19.96 crores has been made keeping in perspective the provisions of Accounting Standard 29, as it fulfills the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Entity has a present obligation as a result of past event i.e. purchase order has been issued. (ii) Confirmed obligation is present as material has been delivered. (iii) It pertains to or arise out of past event, not out of event to happen in future. (iv) It is probable that outflow will take place to settle the obligation as the material has been delivered. (v) A reliable estimate can be made on the obligation. <p>Further, regarding Provision for Liabilities, Institute had made a Provision against the confirmed obligation which was present on the Balance Sheet date and said liabilities have been arisen out of past event, not out of event to occur in future. Provision has been made as per condition laid down in the Accounting Standard-29.</p> <p>In this regard following points may be noted:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) MHRD vide letter no. F.No.4-I/2015-TS-I dated 18.02.2016 clarified that committed expenditure is normally reflected in the Utilization. The Schedule 3C is the replica of utilization of Plan and Non-Plan Grant-in-Aid. Copy enclosed at Annex-I (ii) During the year 2016-17 a provision was made for liabilities towards purchase of Foreign Equipments amounting to Rs.12.53 crores for which materials weredelivered before 31.03.2017. As the materials were already been delivered in a year 2016-17 but payment is due, liability should be provided for in the same year to the fund from which it will be settled. <u>Considering the above provisions of Rs. 12.53 crores which has been made in the year 2016-17 towards foreign purchased to the Plan Grant is correct</u> (iii) During the year another provision was made for liabilities towards expenditure for project works undertaken by SRIC amounting to Rs.7.43 crores. The above payment was made



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
		<p>to the SRIC for meeting approved Project expenditure from the Plan Grant. It is in the nature of committed expenditure and payment was made from Plan Grant during the year.</p> <p><u>Considering the clarification of MHRD letter no. F.No.4-I/2015-TS-I dated 18.02.2016, a provision of Rs.7.43 crores has been made against the stated committed expenditure to Plan Grant.</u></p> <p>Audit may please note that in case ,the committed liabilities will not settle in the future, the unsettled provision / liabilities will be written back to the Plan Grant in the subsequent year.</p> <p>Hence, considering the Indian GAPP, Accounting Standards 29, principle for exhibiting the expenditure of the relating period for that period in the financial statement, Provision for committed liabilities made during the year is correct.</p> <p>Considering the explanation given above, para may be dropped.</p>
<p>B.</p> <p>2.1</p> <p>2.1.1</p>	<p>Income & Expenditure Account</p> <p>Expenditure</p> <p>Depreciation (Schedule-4): Rs. 73.58 crore</p> <p>The above head had been understated by Rs. 0.68 crore due to charging of depreciation for SRIC-project assets valued Rs. 22.54 crore @ 5 per cent under 'Plant & Machinery' instead of @ 8 per cent under 'Lab/Scientific Equipment'. This also resulted in overstatement of Excess of Income over Expenditure by Rs. 0.68 crore.</p>	<p>Necessary advice has been communicated to SRIC for reconciliation and rectification, wherever necessary as suggested by the audit. The same will be shown to the Audit in the year 2017-18.</p>
<p>C.</p> <p>3.1</p>	<p>Receipts and Payments Account</p> <p>Despite mention in previous year's Audit Report, the Institute had not prepared Receipts and Payments Account for the year 2016-17 as per Format prescribed by MHRD. As per the Format, separate heads for expenses (Establishment Expenses, Academic Expenses, Administrative Expenses, Repair & Maintenances and Expenditure on Fixed Assets and Capital Works in</p>	<p>The Institute has already pointed out in the previous year that the Statement of Receipt and Payment is slightly difference from the Revised Format communicated by MHRD. The is due to. and the following Journals entries were passed</p> <p>(a) maintain of vendors/ Supplier/ Creditors/ Debtors / Employees ledger are required for better control, avoidance of duplicate payment, reconciliation and compliance of statutory provisions such as TDS, GST etc</p>

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
	<p>Progress) should be exhibited in the Accounts. However, Institute had prepared in Receipts and Payments Account in different format and exhibited all the expenditure (except expenditure on Investment made-Rs. 990.01 crore, Finance Cost-Rs. 3.11 lakh) under one head 'Payment to the Sundry Creditors/Settlement of Current Liability & Provision (including Employees/Students etc.)'. As such, head wise payments as per the Format could not be ascertained in audit.</p>	<p>(b) Journal entries are passed while any bills for payment to the vendor/ supplier/ employees/ students are processed. This done by Debiting: Head of Expenditure A/c Crediting: Vendor/ Supplier/ Sundry Creditors/ Employees A/C</p> <p>(c) At the time of making actual payment the following journals entries are passed: Debiting: Vendor/ Supplier/ Sundry Creditors/ Employees A/C Crediting: Bank/ Cash A/c</p> <p>Hence, under this system , Receipt and Payment Statement only reflect the payment to the Vendor/ Supplier/ Sundry Creditors/ Employees A/C, which is shown under Current Liabilities and Provision for the relevant financial year instead of Head wise Expenditure as pointed out by Audit.</p> <p>The system is based on accrual system of accounting i.e. recognition of liabilities first in the books of accounts and the settlement is made at the time of actual payment.</p> <p>In case of receipt same principle has been followed for the year 2016-17.</p> <p>The audit has already checked the Head wise expenditure from the books of accounts maintained and also from the records kept under electronic mode (i.e Tally software) .</p> <p>Considering the above, the para may be dropped.</p>
<p>D. 4.1</p>	<p>GPF, CPF & NPS Account</p> <p>Though Bank provided the maturity value of Rs. 4.09 crore for 8 Investments consisting 56 Fixed Deposit Receipts, the same was included in General Provident Fund Accounts as Rs. 3.91 crore. This resulted in understatement of interest income and Excess of Income over Expenditure by Rs. 0.18 crore.</p>	<p>The short recognition of interest as pointed out by the audit was made in the accounts as the bank has credited less amount of interest from the committed interest and as the GPF account has been maintained on cash basis , the actual interest received from the bank was recognized in the books of accounts of the GPF.</p> <p>The said has been identified by the Institute and taken up with the bank during the year 2016-17. Bank explained that the mistake was due to technical error at their end and they will credit the short interest to our accounts. Copy of the letter is enclosed at Annex-II.</p> <p>Now, based on the said letter bank has already credited part of the amount to our bank accounts. The remaining part of the amount will be credited shortly.</p> <p>As the amount has already identified before the audit and same has already been credited by the respective bank , para may be dropped.</p>



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
4.2	Due to incorrect computation of accrued interest in respect of five Investments, Accrued Interest on Investments and Excess of Income over Expenditure had been overstated by Rs. 0.32 crore.	<p>Audit may please note that the accrued interest for the year 2015-16 on investments which were made in the year 2014-15 was not recognized in the books of accounts of GPF for the year 2015-16 as the accounts are being maintained on cash basis.</p> <p>During the year 2016-17, when said investments were matured, the total interest earned was recognized into the accounts on cash basis as there was no balance under the head Accrued Interest.</p> <p>As a result though the accrued interest was not recognized in the year 2015-16 but due to reorganization of entire interest earned in the books of accounts in the year 2016-17, the error / omission occurred in the previous year has been settled during the year 2016-17.</p> <p>Hence, no rectification entries are required to be passed and considering the above para may be dropped.</p>
E.	General	
5.1	In contravention of Format of Account prescribed by MHRD, separate head of account for 'Plant, Machinery & Equipment' and 'Scientific & Laboratory Equipment' had not been maintained in SRIC Account instead of both accounts were clubbed together.	<p>Equipments purchased by SRIC for different projects during the year 2016-17 are Scientific and Lab equipments but the said equipments were booked under the head Equipments instead of Scientific and Lab equipments.</p> <p>Audit may please note that as the ownership of the assets is yet to be transferred, no depreciation was charged to the account. Hence, there was no material effect in the books of accounts for the year 2016-17 due to change in rate of depreciation.</p> <p>However advised has been communicated to SRIC for classification of Assets under the approved Head of accounts in the future. In view of the above, para may be dropped.</p>
5.2	In contravention of Format of Accounts prescribed by MHRD, Institute did not disclose in the Notes to Accounts the book value and notional depreciation of fixed assets which were not included in Fixed Assets (Schedule-4) of Institute as ownership remained with sponsors.	Necessary advice has been communicated to SRIC for reconciliation and rectification, wherever necessary as suggested by the audit. The same will be shown to the Audit in the year 2017-18.
5.3	Though, Institute adjusted Advance to SRIC valued Rs. 24 crore towards capital expenditure during the year 2016-17, SRIC Account did not exhibit the effect of adjustment neither in Fixed Assets-Sponsored Project (Schedule-4A) nor Project Fund (Schedule-1B).	Necessary advice has been communicated to SRIC for reconciliation and rectification, wherever necessary as suggested by the audit. The same will be shown to the Audit in the year 2017-18.

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply												
5.4	Interest earned from investment of balances of non-SRIC projects was included as income of SRIC instead of respective project accounts.	Necessary advice has been communicated to SRIC for reconciliation and rectification, wherever necessary as suggested by the audit. The same will be shown to the Audit in the year 2017-18.												
F.	<p>Grants in Aid</p> <p>The Institute is mainly financed by grants from the Government of India. Since no separate heads as per revised Format of Account was exhibited in the Receipts and Payments Accounts, the utilization of grants could not be ascertained in audit. (Ref. Para 3.1). However, a statement in this regard was submitted by the Institute to audit. As per the statement, during the year 2016-17, the Institute had received total grant of Rs. 441.51 crore (Plan grants: Rs.180.33 crore and Non- Plan grants: Rs. 261.18 crore). Out of the total grants of Rs.441.51 crore, the Institute had utilized Rs.552.08 crore (Plan: Rs.206.60 crore and Non-Plan grant: Rs.345.48 crore). The excess expenditure (Rs.26.27 crore) under Plan grant was met out by taking temporary loan from Endowment Fund and excess expenditure under Non-Plan grant (Rs.84.30 crore) was met out from internal resource generation.</p>	<p>Audit may please note that MHRD vide letter no. F.No.4-1/2015-TS-I dated 18.02.2016 clarified that committed expenditure is normally reflected in the Utilization. Schedule 3C is the replica of Utilization of Plan and Non Plan Grant-in-Aid. Ref. Annex- III</p> <p>Considering the MHRD clarification letter dated 18.02.2016, the Utilization of Grant-in-Aid (i.e.Recurring and Non-Recurring)have been prepared on accrual basis excluding depreciation. The summarized position of utilization of Grant-in-Aid under Plan and Non-Plan are given below:</p> <p>1. Utilization of Plan Grant-in-Aid</p> <p align="right">Rupees in Crores</p> <table border="1" data-bbox="824 989 1333 1287"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Amount (Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grant-in-Aid Received</td> <td align="right">180.33</td> </tr> <tr> <td>Less: Recoverable balance of Previous year i.e. 2015-16 admitted by MHRD in the SOE/ UC</td> <td align="right">20.00</td> </tr> <tr> <td>Fund available for utilization</td> <td align="right">160.33</td> </tr> <tr> <td>Plan Expenditure for the year 2016-17</td> <td align="right">209.79</td> </tr> <tr> <td>Unspent balance as on 31.03.2017</td> <td align="right">(-) 49.46</td> </tr> </tbody> </table> <p>It is observed that audit has not taken into consideration the opening Recoverable Balance of Rs. 20 crores of Plan Grant for the year 2016-17. In this context, MHRD's acceptance letter bearing number F.No.4-1/2015-TS-I dated 20.01.2017 regarding recoverable balance under the head of Plan Grant relating to the year 2015-16 is attached for your perusal. Ref Annex- Annex-IV</p> <p>In view of the above, Audit is requested to consider the opening recoverable balance for the year 2016-17 for determination of utilization of Grant-in-Aid based on the MHRD's letter dated 20.01.2017.</p>	Particulars	Amount (Rs.)	Grant-in-Aid Received	180.33	Less: Recoverable balance of Previous year i.e. 2015-16 admitted by MHRD in the SOE/ UC	20.00	Fund available for utilization	160.33	Plan Expenditure for the year 2016-17	209.79	Unspent balance as on 31.03.2017	(-) 49.46
Particulars	Amount (Rs.)													
Grant-in-Aid Received	180.33													
Less: Recoverable balance of Previous year i.e. 2015-16 admitted by MHRD in the SOE/ UC	20.00													
Fund available for utilization	160.33													
Plan Expenditure for the year 2016-17	209.79													
Unspent balance as on 31.03.2017	(-) 49.46													



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply												
		<p>2. Utilization of Non-Plan Grant-in-Aid</p> <p style="text-align: right;">Rupees in Crores</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Particulars</th> <th style="width: 30%;">Amount (Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grant-in-Aid Received (including Grant-in-Transit)</td> <td style="text-align: right;">315.00</td> </tr> <tr> <td>Non-Plan/ Recurring Expenditure for the year 2016-17 excluding Depreciation</td> <td style="text-align: right;">368.19</td> </tr> <tr> <td>Excess Expenditure met from Internal Resource Generation</td> <td style="text-align: right;">53.19</td> </tr> <tr> <td>Unspent Balance as on 31.03.2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Based on the above utilization may be reviewed.</p>	Particulars	Amount (Rs.)	Grant-in-Aid Received (including Grant-in-Transit)	315.00	Non-Plan/ Recurring Expenditure for the year 2016-17 excluding Depreciation	368.19	Excess Expenditure met from Internal Resource Generation	53.19	Unspent Balance as on 31.03.2017	0.00		
Particulars	Amount (Rs.)													
Grant-in-Aid Received (including Grant-in-Transit)	315.00													
Non-Plan/ Recurring Expenditure for the year 2016-17 excluding Depreciation	368.19													
Excess Expenditure met from Internal Resource Generation	53.19													
Unspent Balance as on 31.03.2017	0.00													
	<p>(i) The Institute had received grant of Rs. 34.75 crore under Research Park (NIIT) after adjusting recoverable balances of the previous year and had spent Rs.5.12 crore under the head Capital Work in Progress leaving unspent balance of Rs.29.63 crore.</p>	<p>The unspent balance as on 31.03.2017 was Rs. 24.40 crores under NITT (Research Park) Grant-in-Aid instead of Rs.29.63 crores as mentioned by the Audit.</p> <p>During the year 2016-17 an amount of Rs. 49,62,50,000 has been received towards Grant-in-Aid for NITT(Research Park) instead of Rs.34.75 crores as mentioned by the audit.</p> <p>After adjustment of previous year's recoverable amount from MHRD for NITT(Research Park) of Rs. 14,8771250/- (Ref Schedule-8), an amount of Rs. 34,74,78,750 was available for utilization on account of NITT (Research Park)- (Ref Schedule-2).</p> <p>Utilization of Grant-in-Aid under the Head NITT(Research Park) are as follows:</p> <p style="text-align: right;">Rupees in Crores</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Particulars</th> <th style="width: 30%;">Amount (Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grant-in-Aid Received</td> <td style="text-align: right;">49.63</td> </tr> <tr> <td>Less: Recoverable balance of Previous year i.e. 2015-16 admitted by MHRD in the SOE/ UC</td> <td style="text-align: right;">14.88</td> </tr> <tr> <td>Fund available for utilization</td> <td style="text-align: right;">34.75</td> </tr> <tr> <td>Expenditure for the year 2016-17</td> <td style="text-align: right;">10.35</td> </tr> <tr> <td>Unspent balance for the year 2016-17</td> <td style="text-align: right;">24.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Out of the total expenditure of Rs. 10.35 crores , the unadjusted advances was Rs. 5.23 as on 31.03.2017,</p>	Particulars	Amount (Rs.)	Grant-in-Aid Received	49.63	Less: Recoverable balance of Previous year i.e. 2015-16 admitted by MHRD in the SOE/ UC	14.88	Fund available for utilization	34.75	Expenditure for the year 2016-17	10.35	Unspent balance for the year 2016-17	24.40
Particulars	Amount (Rs.)													
Grant-in-Aid Received	49.63													
Less: Recoverable balance of Previous year i.e. 2015-16 admitted by MHRD in the SOE/ UC	14.88													
Fund available for utilization	34.75													
Expenditure for the year 2016-17	10.35													
Unspent balance for the year 2016-17	24.40													

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply												
		<p>which was paid to CPWD for capital works .</p> <p>It is also observed that audit has not taken into consideration the opening Recoverable Balance of NITT(Research Park) for the year 2016-17. In this context, MHRD's acceptance letter bearing number F.No.4-27/2013-TS-I dated 24.01.2017 regarding acceptance of recoverable balance for the year 2015-16 under the head of NITT(Research Park) is attached for your perusal. MHRD's letter is enclosed at Annex-V.</p> <p>In view of the above, Audit is requested to consider the opening recoverable balance for the year 2016-17 for utilization of Grant-in-Aid based on the MHRD's letter dated 20.01.2017 for determination of Unspent Balance for the year 2016-17.</p>												
	<p>(ii) The Institute had received TEQIP-II grant of Rs.1.63 crore from the MHRD and had spent Rs.1.18 crore (including 20% over head charges) during the year 2016-17 resulting in an unspent balance of Rs. 0.45 crore.</p>	<p>The unspent balance as on 31.03.2017 was Rs. 0.47 crores under TEQIP-II Grant-in-Aid instead of Rs.0.45 crores as pointed out by the Audit.</p> <p align="right">Rupees in Crores</p> <table border="1" data-bbox="824 1052 1333 1297"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Amount (Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opening Unspent balance</td> <td align="right">0.02</td> </tr> <tr> <td>Grant-in-Aid Received</td> <td align="right">1.63</td> </tr> <tr> <td>Fund available for utilization for the year 2016-17</td> <td align="right">1.65</td> </tr> <tr> <td>Expenditure for the year 2016-17 excluding Depreciation</td> <td align="right">1.18</td> </tr> <tr> <td>Unspent Balance as on 31.03.2017</td> <td align="right">0.47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Audit has not considered the opening unspent balance for determination of closing unspent balance for the year 2016-17. In view of the above, Unspent balance as indicated by the audit may be re examined.</p>	Particulars	Amount (Rs.)	Opening Unspent balance	0.02	Grant-in-Aid Received	1.63	Fund available for utilization for the year 2016-17	1.65	Expenditure for the year 2016-17 excluding Depreciation	1.18	Unspent Balance as on 31.03.2017	0.47
Particulars	Amount (Rs.)													
Opening Unspent balance	0.02													
Grant-in-Aid Received	1.63													
Fund available for utilization for the year 2016-17	1.65													
Expenditure for the year 2016-17 excluding Depreciation	1.18													
Unspent Balance as on 31.03.2017	0.47													
	<p>(iii) The Institute had also received an amount of Rs.25.59 crore for GIAN (Global Initiative of Academic Network) programme from the MHRD and had released Rs.38.00 crore to different participating institutes in the programme during the year 2016-17. The excess expenditure was met from unspent balance of previous year and thus, leaving an unspent balance of Rs.9.60 crore lying with the IIT, Kharagpur.</p>	<p>Agreed with the Audit.</p>												



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
	<p>G. Net Effect</p> <p>The net impact of comments in preceding paragraphs was that the Assets and Liabilities were overstated by Rs. 19.80 crore as at 31 March 2017 and Excess of Income over Expenditure (Surplus) of GPF, CPF and NPS Account was also overstated by Rs.0.14 crore for the year ended 31 March 2017.</p>	<p>Net Impact of the comments of Audit paras on Income and Expenditure (Surplus) in Main Account is NIL.</p> <p>Net Impact of comments of Audit paras on Balance Sheet of Main Account may kindly be reviewed based on Management's Reply.</p> <p>It may kindly be noted that as per audit points the impact of Balance Sheet are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) For Audit para No. 1.1.2 (Rs. 16 lakhs) :In the stated case the Current Liabilities is understated by Rs.16 lakhs and Current Assets is also understated by Rs. 16 lakhs due to netting off the current liabilities with Rs.16 lakhs instead of showing it as Current Assets for the year 2016-17.(ii) For Audit para No. 1.2.2 (Rs. 19.96 crores): In the stated case, both the heads (i.e Unspent Balance of Plan Grant-in-Aid and Provision for Liabilities) are in the same group called Current Liabilities. Hence, inter head transfer/ wrong transfer within the group, have no effect in the overall Liabilities/ Assets side. <p>However, Institute has furnished the justified reasons for accounting treatments, which is questioned by the Audit in their para No. 1.1.2 and 1.2.2 may be considered for drop and Net effect may be reviewed based on the Management's Reply.</p> <p>Further to that, the net Impact of comments of Audit para in respect of Income and Expenditure of CPF, GPF and NPS is noted.</p>

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
	Annexure	
A	<p>Adequacy of Internal Audit system Internal Auditing System is inadequate due to the following: No Internal Audit Manual was in use.</p>	Matter is being reviewed for compliance.
	Internal audit function was outsourced to a Chartered Accountant firm and covered only the Financial and Accounting part of the Institute against the various scope of work as per agreed terms and conditions of engagement.	Matter is being reviewed for compliance.
	The Institute's Internal Audit wing was not adequately staffed (manned by two officials) and conditions of engagement.	Matter is being reviewed for compliance.
B	<p>Adequacy of Internal Control System Internal Control System is inadequate in the following areas: No Accounting Manual was in use;</p>	Matter is being reviewed for compliance.
	The Institute was following Management's Reply for Inspection Audit for the year 2016-17 an improper practice in a number a cases, to pass the bills of SRIC through a single cheque. Hence, possibility of the excess payment cannot be ruled out.	As suggested by the audit necessary action is being initiated.
	The outstanding liabilities as well as the receivables were not reviewed periodically.	Noted for future compliance.
	There was no system to issue pre-numbered Goods Receipt Notes (GRN) to evidence the receipt of materials. As such no copies of GRN forwarded to Accounts Department and list of goods received to Purchase Departments for keeping of proper records at their end.	ERP has already been implemented w.e.f. 01.04.2017. Under New ERP system, goods are being received only through Goods Receipt Notes (GRN).
	Suppliers invoices are not directly routed through Accounts Department.	Supplier invoice are being placed with necessary certification from the concerned department to Accounts Section for Payment. Hence, the system followed by the Institute is in compliance with GFR.



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Para wise reply to the Separate Audit Report on Annual Accounts for the Year 2016-17

Audit Para Nos.	Audit Observations	Management's Reply
	There was not system of periodical reporting or shortage/excess of inventory.	Noted for future compliance.
	Purchases were not centralized in the purchase department.	Noted for future compliance.
	The transactions were entered in the Ledgers of the SRIC and Allied Accounts without recording any narration against the vouchers. As such, the nature of transactions could not be ascertained and correctness of the account head-wise classification could not be verified from the Ledgers submitted to audit	Noted for future compliance.
C	System of Physical Verification of Fixed Assets The Institute including SRIC had not maintained Fixed Assets Register. Instead, year wise Stock Register of fixed asset (addition during the year) is maintained for the Institute since 2006-07 and for SRIC Accounts since 2013-14. The year wise Stock Registers, however, did not depict opening and closing balances of particular fixed asset. Besides, physical verification of these fixed assets was not ever done. Thus, in absence of the Fixed Asset Register and physical verification report, conditions and actual existence of the fixed assets valuing Rs. 1497.60 crore (net value could not be ascertained in audit.	Previously Fixed Assets Register was maintained manually in each department/ centre/ school / section. After implementation of New ERP system, Fixed Assets Register is being maintained under ERP system w.e.f 1 st April'2017. The process for engagement a for physical verification of Fixed Assets as well as of the identification of Assets upto 31.03.2018 has been initiated.
D	Regularity in payment of statutory dues: The Institute was regular in payment of Statutory dues.	Noted

**Balance Sheet as at 31ST MARCH 2017****(Amount in Rupees)**

SOURCES OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	16955960424	14915833727
RESERVE AND SURPLUS	1A	0	0
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	2	6494349027	6025627754
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	8276585288	8002471484
TOTAL		31726894738	28943932965
APPLICATION OF FUNDS			
FIXED ASSETS	4		
- Tangible Assets		11267894520	10941448325
- Intangible Assets		115482558	66135673
- Capital Work in Progress		3592654544	2839096484
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	5	5194639231	5120859089
- Long Term			
- Short Term			
INVESTMENTS - OTHERS	6	3579323805	3112947443
CURRENT ASSETS	7	1547627825	1223836397
LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	8	6429272255	5639609554
TOTAL		31726894738	28943932965
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	23		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	24		

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)**(CA. B. Bhattacharyya)**
Dy. Registrar (F & A)**(P. Pyne)**
Registrar**(P.P. Chakrabarti)**
Director

Dated : 10th July 2017

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

(Amount in Rupees)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Academic Receipts	9	264684547	442936955
Grants / Subsidies	10	3923045250	3522391148
Income from Investments	11	19942615	51927277
Interest Earned	12	27445995	37740238
Other Income	13	227976877	203450495
Prior Period Income	14	4342266	20173220
TOTAL(A)		4467437551	4278619333
EXPENDITURE			
Staff Payments & Benefits (Establishments Expenses)	15	2607226573	2583426629
Academic Expenses	16	995312909	876362639
Administrative and General Expenses	17	616856587	576005999
Transportation Charges	18	3387557	3587791
Repairs & Maintenance	19	203724487	175155366
Finance Cost	20	402181	353613
Depreciation	4	735847515	1265407175
Other Expenses	21	25326687	42405560
Prior Perod Expenses	22	2787324	68981655
TOTAL(B)		5190871819	5591686427
Balance being excess of Expenditure over Income before adjustment of Depreciation (B-A)		723434268	1313067094
Transfer to Corpus/Capital Reserve for equivalent amount of Depreciation of Assets Purchased from Plan Grant/ Projects/ Transfer of ownership of assets etc		735353178	1264775313
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CAPITAL FUND		11918910	(48291780)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	23		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	24		



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



(CA. B. Bhattacharyya)
Dy. Registrar (F & A)



(P. Pyne)
Registrar



(P.P. Chakrabarti)
Director

Dated : 10th July 2017



Statement of Receipts & Payment for the year ended 31st March 2017

(Amount in Rupees)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year
Opening Balance		
Cash at Bank	650137524	438826954
Cash In Hand	226220	301948
Grants Received		
Non Plan	2611800000	2800000000
PLAN	1803300000	1951252000
Grant In Transit (NITT - Research Park) for last year Received during the year		30000000
Loans, Advances & Deposits	1547049011	1097744221
Investment Matured - Earmarked/Specific Fund	5396579207	5657860142
Investment Matured - Other	4432315108	5833994907
Interest Received on Investment	17050070	51293030
Interest Income	18171868	28090133
Net Fund Received for Earmarked/Endowment/Specific Fund	875447676	451808023
Other Receipt	250347133	267569637
Total	17602423818	18608740996
PAYMENT	Current Year	Previous Year
Payment to the Sundry Creditors/Settlement of Current Liability & Provision (including Employees/Students etc.)	7102141545	6651609136
Investment - Earmarked/Specific Fund	5724273591	5161305344
Investment - Others	4175816568	5763598510
Finance Cost	311105	353614
Margin money for opening of LC for Purchase of Foreign Equipment	0	381510649
Closing Balance		
Cash at Bank	599880926	650137524
Cash In Hand	82	226220
Total	17602423818	18608740996

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

(CA. B. Bhattacharyya)
Dy. Registrar (F & A)

(P. Pyne)
Registrar

(P.P. Chakrabarti)
Director

Dated : 10th July 2017

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 1 - CORPUS / CAPITAL FUND

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
Balance as at the Beginning of the year	13645147236		778408108	
Less : Transferred to Unspent balance of Plan Grant as per last Audit Report/Last Guest	0		13299530	
Less : Last Years Profit of Technology Guest House included in Corpus now regrouped	1845425	13643301810		765108578
Add :				
Net Assets Created out of Plan Grant Upto 2014-15			11798315462	
Less : Accumulated adjusted Depreciation Upto 2014-15	0		187897168	
Net Assets Created out of Plan Grant and Earmarked fund transferred from Capital Reserve	0		11610418294	
Add : Assets Purchased out of Sponsor Project where ownership vests in the Institute	160593417		52470121	
Add: Grant from MHRD to the extent utilized for Capital Expenditure	1370257928		1818149555	
Add: Provision for Expenditure/ Trade Liabilities utilized/ Transferred to Corpus in the year 2016-17	113806008			
Add: Grant from MHRD to the extent utilized for Capital Expenditure Under Diamond Jubilee	24908800			
Total	1669566153		13481037970	
Less Depreciation on Assets Purchased from Plan Grant/ projects/ transfer of ownership etc transferred from Income & Expenditure	734202550	935363603	1075961530	12405076440
Net Assets Created out of Earmarked/Specific Fund Upto 2015-16			211959011	
Less : Adjusted Depreciation Upto 2014-15			45657	
Net Assets Purchase from Earmarked Fund Transferred to Capital Reserve after adjustment of Accumulated Depreciation Upto 2014-15	0		211913354	
Add: Assets created out of Earmarked Funds during the Year				
NIIT (Science Park)	51134137		200000000	
GSSOT During The Year	940149		1701591	
Multi Speciality Hospital	259273042		262112394	
NSS/M.Tech Scholarship	2003252			
Other Donated Chair			25000	
Total	313350580		675752339	
Less Depreciation on Assets Purchased from Earmarked Fund transferred from Revenue Income & Expenditure	1150628	312199952	870958	674881381
Add: Donation for Creation of Assets		529029013		
Add : Prior period adjustment for Security Deposit against Bank Guarantee		34240367		
Add: Excess of Income over expenditure transferred from the Income & Expenditure Account		11918910		-48291780
Total		15466053655		13796774619
Transfer to Income Expenditure A/c for SRIC Project Expenditure		65112522		151627383
Sub Total		65112522		151627383
Balance at the Year end Institute A/c		15400941133		13645147236
Add : Capital & Project Fund - SRIC		1528508820		1254107680
Add : Capital Fund - Technology Guest House.		26510471		16578812
Balance at the end of the Year		16955960424		14915833728


(S. Nayak)
 Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 1A: RESERVE AND SURPLUS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
1) Capital Reserve :			12023483693	
As per last Account				
Less : Prior Period Adjustment			13209220	
Less : Short Depreciation for the year 2014-15 over the savings in Change in Depreciation rate in the year 2014-15			187897168	
Add: (a) Contribution towards Corpus/Capital Fund				
(i) Assets created out of grant in aid 2016-17				
(i) Assets created out of earmarked and other fund transfer from Corpus				
				11822377305
Less: (b) Deduction towards Depreciation of the prior year transferred from Corpus				
Less: (c) Deductions during the year (Depreciation on Assets created out of plan Grant/ Earmarked / Specific Fund)				0
Less : Net Assets created from Grant In Aid and Earmarked fund Transfer to Corpus				11822377305
				0
2) Revaluation Reserve :				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: adjustment during the year for (Depreciation on upward revaluation of fixed assets)				
3) Special Reserves				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
TOTAL		0		0


(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 2: EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Particulars	Endowment Fund	IDF	Multi Speciality Hospital	Research Park (NIIT)	Diamond Jubilee	GSSOT	RC & RSC	IESPF	CET	Scholarship NSS/M.Tech
A) Opening Balance of the Funds	3378722117	801187337	714547083	0	0	81931193	784733	66527767	13324772	65244288
B) Additions to the Funds										
i) Donations/Grants/Others				347478750			9259911			391875
ii) Grant In Transit										
iii) Transfer from Corpus / Subsidiaries/Revenue A/c										
iv) Income from Investments	130675784	24557653	24902218			5049088		3037460	722919	2282209
v) Accrued Interest	112136975	43420496	18394658			1178554		2067425	297298	1889045
vi) Prior Period Adjustment										
vii) Loan Refunded from Institute A/C										
viii) Fund Receivable from MHRD/Other Earmarked Fund	24908800									
ix) Fund received from Plan grant for Expenditure /Earmarked/Endowment Fund /Loan payable to fund	27897349				24908800					
x) Application Fees										
xi) Contribution Received from Pensioners										
xii) Contribution by Members										
xiii) Others			6817000					3246580		63900860
TOTAL (A+B)	3674341026	869165486	764660958	347478750	24908800	88158835	10044644	74879232	14344989	133708278
C) Utilisation/Expenditure towards objectives of Funds										
i) Capital Expenditure										
a) Capital Work In Progress			259273042	51134137	24908800					
b) Fixed Assets						940149				2003252
c) Advance	545250		167543958	52365863						
d) Advance to NSS				23748						
e) Preliminary Expenditure										
f) Refundable Loan to Institute /Other Earmarked Fund	24908800									
g) Project Expenditure amount transferred to Plan Grant										
h) Fund Transfer to Other Specific Fund	200000000									
Total	225454050	0	426817000	103523748	24908800	940149	0	0	0	2003252
ii) Revenue Expenditure										
a) Contingencies							193753			
b) Transportation Charges						165534	151579			16046
c) Salaries & Wages.			1440000				1300563			
d) Honorarium							550912			948778
e) Training Programme Expense										
f) Prior Period Adjustment -										
g) Prior Period Income of transferred to Income and Expenditure A/c										
h) Prior Period Adjustment -										
i) Course Fees & Scholarship, Prizes & Award							4772109	3399402		56869192
j) Conference, Seminar & Workshop										
k) Repair & Maintenance						138612				
l) Reimbursement of Medical Exp to the Pensioners										
m) Payment to medicine Vendor										5023
n) Overhead Charges Payable										
o) Payment to EM Staff										
p) Other Administrative Exp incl. Bank Charges	633	633	9848508			390664	1712449	57		682628
Total	633	633	11288508	0	0	694810	8681365	3399459	0	58521666
TOTAL (C)	225454683	633	438105508	103523748	24908800	1634959	8681365	3399459	0	60524918
BALANCE AS AT THE YEAR-END (A+B-C)	3448886343	869164854	326555450	243955002	0	86523876	1363279	71479773	14344989	73183359
Represented by:										
Cash and Bank Balance	6427212	55364	9509993	243955002		530838	1474105	1277364	663752	4758472
Investments	3119997940	827905866	298770800			84824556		68134983	13383939	66535842
Interest Accrued but not due	113164748	41203626	18394657			1178554		2067425	297298	1889045
Less : Exp due but not paid	-200000000		-120000			-10072	-110826			
Fund Receivable from MHRD/Other Earmarked Fund/ Others	409296443									
TOTAL (D)	3448886343	869164855	326555450	243955002	0	86523876	1363279	71479773	14344989	73183359
E) SRIC - Earmarked Fund										
TOTAL (D + E)										


(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



(Amount in Rupees)

VGSOM	GIS	BC Roy Memorial	Vijay Kiyawat Endowment	Nehru Mesuam	Donated Chair Professor	PRMS MFP	OSC	Subsidiary Fund	Institute's Contribution towards Approved Project	ISWT	TOTALS	
											Current Year	Previous Year
36005656	4708708	247441	1718095	2958449	141373268	404359040	127382448			11859320	5852881716	5718247384
					20585626			71790462		17056529	466563153	155677595
								32780678	500000000		0	0
1719948	128078	25655	32719	118383	7758018	20402135	3161869			626826	225200962	238121912
1137985	174808		78920		3191464	10537679	6570993				201076300	235493843
											0	0
											0	79600000
											24908800	484744651
											52806149	485640151
											0	3198900
	5798002					8982850					8982850	0
								5547		550000	5798002	9889440
											74519987	16237284
38863590	10809596	273096	1829735	3076832	172908376	444281704	137115310	104576687	500000000	30092675	7445518597	7426851160
											0	0
											335315979	762595081
										646270	3589671	6024051
											220455071	43251800
											0	0
											23748	4367459
											24908800	643556242
			100000								100000	0
											200000000	0
0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	646270	784393269	1459794633
											0	0
						321461					515214	0
						829029					4741609	1536734
						10688912					13429475	11871580
											2514597	8400480
											0	0
											0	9086975
											0	0
											0	0
											0	0
						1200000					75257186	7329354
						256570					0	0
											395182	1633549
											46578695	39499649
											5023	0
											0	0
											0	0
											0	0
											23339321	34816490
	5440096	633		52	2735807	60604		1817675		648885	0	0
0	5440096	633	0	52	16031779	46639299	0	6412003	0	9665368	166776301	114174811
0	5440096	633	100000	52	16031779	46639299	0	6412003	0	10311638	951169570	1573969444
38863590	5369500	272464	1729735	3076780	156876597	397642405	137115310	98164684	500000000	19781037	6494349027	5852881716
423645	3013866	272464	461234	3076780	3931324	6187436	108530	98659277		5544208	390330867	140710377
37301961	2180826		1189581		150559861	380917290	130435787			12500000	5194639231	4985359089
1137984	174808		78920		3191465	10537680	6570993				199887202	249720224
					-806053			-494593			-201541544	-10219266
									500000000	1736829	911033272	487311293
38863590	5369500	272464	1729735	3076780	156876597	397642405	137115310	98164684	500000000	19781037	6494349029	5852881718
												172746038
											6494349027	6025627754

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 3: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES:				
1. Deposits from staff				
2. Deposits from students (Caution Money)		100153672		96296672
3. Sundry Creditors				
a) For Goods			17831139	
b) For Services	76629799		81478456	
c) Others	98079918		6200435	
d) Vendor	8887112		3145900	
e) Outstanding Liability for Subsidiary				
- JEE				
- GATE				
- Vijay Kiyawat Endowment Fund				
- RC & RSC	110826		154989	
- HAL Chair Professor				
- HAL - Claim Payable to Institute				
- Donated Chair Payable	300000		13,50,033	
- Medical Facility to Pensioners			23,28,705	
- Multi Speciality Hospital			1,20,000	
- GIS			52,439	
- Nehru Mesuam			6,66,631	
- Scholarship Payable			5546469	
- Endowments		184007655		118875196
4. Deposit- Others (Including ESD, Security Deposit)		90175952		84426261
5. Statutory Liabilities (GPF,TDS,WC,TAX,CPF,GIS,NPS)				
a) Overdue				
b) Others	2813820	2813820	44371872	44371872
6. Other Current Liabilities				
a) Salaries	178814678		75163189	
b) Outstanding Liability for Scholarship.	1748075			
c) TCCS Ltd.	90		90	
d) Capitalisation of Works			143520	
e) Career Award			617756	
f) Expenses payable in cash	238270		265074	
g) Deposit Work			3824942	
h) Student's Fest	49100		49100	
i) Donation for creation of Assets			9229270	
j) GIS	120		120	
k) Bank Loan for Students			386275	
l) SRIC			30856	
m) Scientific Research Award			280522	
n) Boyscast Fellowship	309615		309615	
o) Sponsorship/Seminar/Conference	1568188		1568188	
p) Transferable Deduction	-1649015			
q) Unidentified/Misc Receipts			2414808	
r) Payable to CPF				


(S. Nayak)
 Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 3: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
s) Rejendra Mishra School	-100		7204750	
t) Emeritus Fellowship			300000	
u) Mining Sponsor	537705		537705	
v) TMES	250000	181866726	250000	102575780
7. Loan Payable to -				
a) Endowment Fund	545250		27897349	
b) Course fees received in Advance	119508150		131900500	
c) Unspent Plan Grant-in-Aid	0			
d) Unspent Grant in aid for Pilot Project	100000		100000	
e) Unspent Grant in aid for Seminar	102152		102152	
f) Unspent Grant in aid for PHE Training	299000		299000	
g) Sponsorship including CNF	2050474		3770975	
h) Unspent Student Welfare Fund	2602396		2602396	
i) Unspent CRR Project Fund	10859158		124859158	
j) Outside Scholarship Payable			1748075	
k) Transferable Student Fees			0	
l) Donation for creation of Assets			529029013	
m) Unspent Balance of Gopal Rajagharria (SGRIP)			1752664	
n) Unspent balance of GIAN/Sponsored Project (Sch. 3a)	1721963325		1509067508	
o) Unspent balance of Trans Disciplinary Prog on Petroleum Engg.			31028014	
p) Payable to Scholarship A/c from Institute A/c			2007642	
q) Other Liability	5982979	1864012884	1752693	2367917139
TOTAL (A)		2423030709		2814462920
B. PROVISIONS				
1) Gratuity	565680084		553740415	0
2) Provision for PGDBA course fees payable to other Institute	8262000		8262000	
3) Accumulated Leave Encashment	641795716		527420500	
4) Trade Warranties/Claims	21566276		23249243	
5) Provision for Expenses	125290483		132712362	
6) Provision for Interest Subvention	34374813			
7) Provision for Liabilities towards NITT (Research Park)	48865863			
8) Provision for Liabilities towards Multi Specialty Hospital	167543958			
9) Provision for Project Expenditure	74274331	1687653524	85200000	1330584520
TOTAL (B)		1687653524		1330584520
TOTAL (A + B)		4110684233		4145047440
(C) Technology Guest House - Current Liability (Details Separately Enclosed)		7730964		4009916
(D) Current Liability - SRIC		87846679		128937059
Project Fund (Representing Project Assets) - SRIC		4070323412		3724477069
TOTAL (A + B + C + D)		8276585288		8002471484


(S. Nayak)
 Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

Schedule 3(a): Sponsored Project

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Name of the Project	Opening Balance		Receipts/ Recoveries during the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance As on	
		CR	DR				CR	DR
1	Global Initiative of Academic Network - MHRD/Others	220015939		255944691	475960630	379976139	95984491	
	Global Initiative of Academic Network - UKERI	24325000			24325000	0	24325000	
	Sub Total (A)	244340939		255944691	500285630	379976139	120309491	0
2	SRIC - Sponsored Project - Details As per SRIC A/c	1264726569		1172597905	2437324474	835670640	1601653834	
	Sub Total (B)	1264726569		1172597905	2437324474	835670640	1601653834	0
	TOTAL (A+B)	1509067508	0	1428542596	2937610104	1215646779	1721963325	0

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULES 3(b): SPONSORED FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIP

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Name of the Project	Opening Balance		Transaction During the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance As on	
		CR	DR				CR	DR
	University Grant Commission Ministry Other							
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 3C: UNUTILISED GRANTS FROM MHRD

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
A. Plan Grants: Government of India		
Balance B/F	-200014769	-20341912
Prior Period Adjustment/Adjustment		148340565
Amount Transferred from IDF for NITT		93000000
Amount Transferred from Endowment Fund for Diamond Jubilee Project		37914242
Adjusted Opening Balance	-200014769	258912895
Add : (i) Receipts during the year	1803300000	1951252000
(ii) LC Margin Money Matured during the year	130912362	
(iii) Amount Transferred from CRR Project	114000000	
Total (A)	1848197593	2210164895
B. Less :		
Utilized for Revenue Expenditure	773045250	722391148
Utilized for Capital Expenditure transfer to Capital Reserve/Corpus/Capital Fund	1370257928	1514576154
Amount Transfer to Corpus		
Advance to Supplier/Provision for Project Expenditure SRIC	74274331	42300000
Provision for Foreign Purchase- Part Payment	125290483	130912362
Total (B)	2342867992	2410179664
Unspent Grant in Aid (A-B)	-494670399	-200014769
C. Non Plan Grants: Government of India		
Balance B/F	0	0
Add : Receipts during the year	3150000000	2800000000
Total (C)	3150000000	2800000000
D. Less		
Refund		
Utilized for Revenue Expenditure	3150000000	2800000000
Utilized for Capital Expenditure		
Total (C-D)	0	0
Unspent Grant in Aid (A-B)	-494670399	-200014769

**(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 4 : FIXED ASSETS (Consolidated)

Particulars	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
FIXED ASSETS																
1 TANGIBLE ASSETS																
a) LAND																
a) Freehold	0%	158967666	0	0	158967666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158967666	158967666
b) Leasehold	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		158967666	0	0	158967666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158967666	158967666
2 BUILDINGS :																
a) On Freehold Land	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) On Leasehold Land:	2%	7077047256	97110123	0	7174157379	424228882	0	0	424228882	141540945	1942202	0	143483148	567712030	6606445349	6652818374
c) Office Premises and non-residential building	2%															
d) Residential quarter and Bank & Post Office & Guest House	2%															
e) Ownership Flats/ Premises	2%															
f) Superstructures on Land	2%															
not belonging to the entity																
3 ROADS & BRIDGES	2%	3734042	31602971	0	35337013	74681	0	0	74681	74681	632059	0	706740	781421	34555592	3659361
4 SWEARGE & DRAINAGE	2%	12948866	0	0	12948866	258977	0	0	258977	258977	0	0	258977	517954	12430912	12689889
Total		7093730164	128713094	0	7222443258	424562540	0	0	424562540	141874603	2574262	0	144448865	569011405	6653431853	6669167624
5 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	2167613961	380977164	0	2548591125	291923638	0	0	291923638	108380698	19048858	0	127429556	419353195	2129237930	1875690322
6 VEHICLES	10%	17237305	1872186	0	19109491	4563288	0	0	4563288	1723731	187219	0	1910949	6474237	12635254	12674018
7 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	320093488	40235772	0	360329260	61547801	0	0	61547801	24007012	3017683	0	27024695	88572496	271756764	258545687
8 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	314648522	11454722	0	326103244	69637178	0	0	69637178	23598639	859104	0	24457743	94094921	232008323	245011344
9 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%	513561828	127268443	0	640830271	243979185	0	0	243979185	102712366	25453689	0	128166054	372145239	268665032	269582643



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 4: FIXED ASSETS (Consolidated)

Particulars	Rate of Dep	GROSS BLOCK					DEPRECIATION					NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
10 ELECTRIC INSTALLATIONS	5%	68375330	38366692	0	106742022	8308688	0	0	8308688	3418767	1918335	0	5337101	13645789	93096233	60066642
11 LIBRARY BOOKS	10%	173784305	8928735	0	182713040	47912385	0	0	47912385	17378431	892874	0	18271304	66183689	116529351	125871920
12 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	1222440394	230772573	0	1453212967	97795232	0	0	97795232	97795232	18461806	0	116257037	214052269	1239160698	1124645162
13 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	260970	169000	0	429970	19573	0	0	19573	19573	12675	0	32248	51821	378150	241397
14 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	34484423	9136075	0	43620498	1910940	0	0	1910940	689688	182722	0	872410	2783350	40837148	32573483
15 OTHER FIXED ASSETS	8%	74669898	428900	0	75098798	17920776	0	0	17920776	5973592	34312	0	6007904	23928680	51170118	56749122
Total		4907170424	849610262	0	5756780686	845518683	0	0	845518683	385697726	70069275	0	455767001	1301285685	4455495001	4061651740
Total Tangible Assets		12159868254	978323356	0	13138191610	1270081223	0	0	1270081223	527572330	72643537	0	600215867	1870297090	11267894520	10889787030
B) INTANGIBLE ASSETS																
i) LIBRARY JOURNAL	40%	137790261	177065525	0	1554965786	1325250903	0	0	1325250903	52649358	70826210	0	123475568	1448726471	106239315	52649358
ii) COMPUTER SOFTWARE	40%	22477192	7913008	0	30390200	8990877	0	0	8990877	8990877	3165203	0	12156080	21146957	9243243	13486315
Total Intangible Assets		1400377453	184978533	0	1585355986	1334241780	0	0	1334241780	61640235	739914113	0	135631648	1469873428	115482558	66135673
Capital Working Progress		2839096484	1164258050	462800711	3540553823					0	0	0	0		3540553823	2839096484
TOTAL (A+B+C)		16399542191	2327559939	462800711	18264101419	2604323003	0	0	2604323003	58912565	146634950	0	735847515	3340170518	149239390901	13795019187
D Fixed Assets of SRIC		48318686	556340	21039	48853987	1752072	0	0	1752072	1752072	105855	1052	1856876	3608949	45245038	48566614
E Technology Guest House		6656521	2540882	0	9197403	1561839	0	0	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5094681
TOTAL (A+B+C+D)		16454317398	2330657161	462821750	18322152809	2607636914	0	0	2607636914	591505940	146979381	1052	738484271	3346121187	14976031622	13846680482

S. Nayak

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 4(a) : EARMARKED FIXED ASSETS

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	11231763	2016351	0	13248114	1123176	0	0	1123176	561588	100818	0	662406	1785582	11462532	10108587
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	1051856	52460	0	1104316	148748	0	0	148748	78889	3935	0	82824	231572	872744	903108
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	1331291	0	0	1331291	99847	0	0	99847	9847	0	0	99847	199694	1131597	1231444
5 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%	528548	874590	0	1403138	156440	0	0	156440	105710	174918	0	280628	437068	966070	372108
6 ELECTRIC	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 INSTALLATIONS	10%	249245	0	0	249245	49850	0	0	49850	24925	0	0	24925	74774	174471	199396
8 LIBRARY BOOKS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		14392703	2943401	0	17336104	1578061	0	0	1578061	870958	279670	0	1150628	2728689	14607415	12814643
TOTAL OF CURRENT YEAR		14392703	2943401	0	17336104	1578061	0	0	1578061	870958	279670	0	1150628	2728689	14607415	12814643
Capital WIP		66212394	310407179		972519573										972519573	66212394
TOTAL OF CURRENT YEAR		676505097	313350580	0	989855677	1578061	0	0	1578061	870958	279670	0	1150628	2728689	987126988	674927037

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS: JEE

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT & MACHINERY AND EQUIPMENT	5%	998889	0	0	998889	99888	0	0	99888	49944	0	0	49944	149833	849056	899001
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	377893	0	0	377893	56684	0	0	56684	28342	0	0	28342	85026	292867	321209
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%	822617	189440	0	1012057	288874	0	0	288874	164523	37888	0	202411	491285	520772	533743
6 ELECTRIC	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2199399	189440	0	2388839	445446	0	0	445446	242810	37888	0	280698	726144	1662695	1753953
TOTAL OF CURRENT YEAR		2199399	189440	0	2388839	445446	0	0	445446	242810	37888	0	280698	726144	1662695	1753953

Kharagpur

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - GATE

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	2247047	0	0	2247047	224704	0	0	224704	112352	0	0	112352	337056	1909991	2022343
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	207020	10200	0	217220	31054	0	0	31054	15527	765	0	16292	47346	169875	175967
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 COMPUTER / PERIPHERALS	20%	420669	4305	0	424974	156493	0	0	156493	84134	861	0	84995	241488	183486	264176
6 INSTALLATIONS	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2874736	14505	0	2889241	412251	0	0	412251	212013	1626	0	213639	625890	2263351	2462485
TOTAL OF CURRENT YEAR		2874736	14505	0	2889241	412251	0	0	412251	212013	1626	0	213639	625890	2263351	2462485

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - GSS0T

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	1214614	13099	0	1227713	121462	0	0	121462	60731	655	0	61386	182847	1044866	1093152
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	217840	52460	0	270300	23646	0	0	23646	16338	3935	0	20273	43919	226382	194194
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	1331291	0	0	1331291	99847	0	0	99847	99847	0	0	99847	199694	1131597	1231444
5 COMPUTER / PERIPHERALS	20%	344760	874590	0	1219350	87924	0	0	87924	68952	174918	0	243870	331794	887556	256836
6 INSTALLATIONS	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%	6560	6560	0	1312	1312	0	0	1312	656	0	0	656	1968	4592	5248
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		3115065	940149	0	4055214	334191	0	0	334191	246524	179507	0	760222	3294993	2780874	2780874
TOTAL OF CURRENT YEAR		3115065	940149	0	4055214	334191	0	0	334191	246524	179507	0	760222	3294993	2780874	2780874

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - RC & RSC

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	12975	0	0	12975	1298	0	0	1298	649	0	0	649	1947	11029	11677
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 COMPUTER / PERIPHERALS	20%	40700	0	0	40700	16280	0	0	16280	8140	0	0	8140	24420	16280	24420
6 ELECTRIC INSTALLATIONS	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		53675	0	0	53675	17578	0	0	17578	8789	0	0	8789	26367	27309	36097
YEAR		53675	0	0	53675	17578	0	0	17578	8789	0	0	8789	26367	27309	36097

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - CET

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	1316960	0	0	1316960	131696	0	0	131696	65848	0	0	65848	197544	1119416	1185264
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 COMPUTER / PERIPHERALS	20%	48588	0	0	48588	19436	0	0	19436	9718	0	0	9718	29153	19435	29152
6 ELECTRIC INSTALLATIONS	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1365548	0	0	1365548	151132	0	0	151132	75566	0	0	75566	226697	1138851	1214416
YEAR		1365548	0	0	1365548	151132	0	0	151132	75566	0	0	75566	226697	1138851	1214416


(S. Nayak)
 Deputy Registrar (A/Cs)



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - NSS/M.Tech /Scholarship

PARTICULARS	GROSS BLOCK					DEPRECIATION					NET BLOCK					
	Rate of Dep	Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	0	2003252	0	2003252	0	0	0	0	100163	0	0	100163	100163	1903089	0
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%	65000	0	0	65000	26000	0	0	26000	13000	0	0	13000	39000	26000	39000
6 ELECTRIC	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		65000	2003252	0	2068252	26000	0	0	26000	13000	100163	0	139163	1929089	65000	65000
TOTAL OF CURRENT YEAR		65000	2003252	0	2068252	26000	0	0	26000	13000	100163	0	139163	1929089	65000	65000

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - VGSOM

PARTICULARS	GROSS BLOCK					DEPRECIATION					NET BLOCK					
	Rate of Dep	Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%	8687214	0	0	8687214	868722	0	0	868722	434361	0	0	434361	1303082	7384132	7818492
2 VEHICLES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	824016	0	0	824016	123602	0	0	123602	61801	0	0	61801	185403	638613	700414
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 ELECTRIC	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%	238688	0	0	238688	47738	0	0	47738	23869	0	0	23869	71607	167081	190950
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		9749918	0	0	9749918	1040062	0	0	1040062	520031	0	0	1560092	8189826	9749918	9749918
TOTAL OF CURRENT YEAR		9749918	0	0	9749918	1040062	0	0	1040062	520031	0	0	1560092	8189826	9749918	9749918

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - Donated Chair

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%															
2 VEHICLES	10%															
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	10000			10000	1500		1500						2250	7750	8500
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%															
5 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%	29500			29500	6800		6800						5900	16800	22700
6 ELECTRIC	5%															
7 INSTALLATIONS	10%	3997			3997	800		800						400	2798	3197
8 LIBRARY BOOKS	10%															
9 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%															
10 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%															
11 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%															
OTHER FIXED ASSETS	8%															
Total		43497	0	0	43497	9100	0	9100	0	7050	0	0	0	16149	27348	34397
TOTAL OF CURRENT YEAR		43497	0	0	43497	9100	0	9100	0	7050	0	0	0	16149	27348	34397

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - NITT (Research Park)

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%															
2 VEHICLES	10%															
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%															
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%															
5 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%															
6 ELECTRIC	5%															
7 INSTALLATIONS	10%															
8 LIBRARY BOOKS	10%															
9 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%															
10 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%															
11 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%															
OTHER FIXED ASSETS	8%															
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL OF CURRENT YEAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Capital Working Progress			51134137		451134137										451134137	400000000


(S. Nayak)
 Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

FIXED ASSETS - Multi Speciality Hospital

PARTICULARS	Rate of Dep	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK				
		Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the Year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation 2014-15	Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
1 PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
2 VEHICLES	10%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
3 FURNITURE, FIXTURES	7.50%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
4 OFFICE EQUIPMENT	7.5%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
5 COMPUTER/ PERIPHERALS	20%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
6 ELECTRIC INSTALLATIONS	5%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
7 LIBRARY BOOKS	10%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
8 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
9 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
11 OTHER FIXED ASSETS	8%			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL OF CURRENT YEAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Capital Working Progress		262112394	259273042		521385436										521385436	262112394


(S. Nayak)
 Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 4(b): MAIN FIXED ASSETS

Fixed Assets (Main A/C)	Rate of Dep	GROSS BLOCK						
		Cost/ Valuation at the beginning of current year	Diamond Jubilee Assets	Plan Cash Procurement during the Year	Book Adjustment	Addition during the Year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end
FIXED ASSETS								
A) TANGIBLE ASSETS								
1 LAND								
a) Freehold		0					0	0
b) Leasehold		158967666		0			0	158967666
Total		158967666				0	0	158967666
2 BUILDINGS :								
a) On Feehold Land		0				0	0	0
b) On Leasehold Land:	2%	7077047256	25041340	16366381	55702402	97110123		7174157379
c) Office Premises and non-residential building	2%						0	
d) Residential quarter and Bank & Post Office & Guest House	2%						0	
e) Ownership Flats/Premises	2%						0	
f) Superstructures on Land not belonging to the entity								
3 ROADS & BRIDGES	2%	3734042	25901345	5384328	317298	31602971	0	35337013
4 SWEARGE & DRAINAGE	2%	12948866		0				12948866
Total		7093730164	50942685	21750709	56019700	128713094	0	7222443258
5 PLANT & MACHINERY AND EQUIPMENT	5%	2153136262		1438442	377522371	378960813		2532097075
6 VEHICLES	10%	17237305		112472	1759714	1872186		19109491
7 FURNITURE, FIXTURES	7.50%	318456719		39468055	705057	40173112		358629831
8 OFFICE EQUIPMENT	7.5%	313317231		11454722		11454722		324771953
9 COMPUTER / PERIPHERALS	20%	511789994		107710876	18489232	126200108		637990102
10 ELECTRIC INSTALLATIONS	5%	68375330	6937725	29772967	1656000	38366692		106742022
11 LIBRARY BOOKS	10%	173535060		8928735		8928735		182463795
12 SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	1222440394		202166565	28606008	230772573		1453212967
13 AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	260970		169000		169000		429970
14 TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	34484423	2339637	4742541	2053897	9136075	0	43620498
15 OTHER FIXED ASSETS	8%	74669898		428900		428900	0	75098798
Total		4887703586	9277362	406393275	430792279	846462916	0	5734166502
Total Tangible Assets		12140401416	60220047	428143984	486811979	975176010	0	13115577426
B) INTANGIBLE ASSETS								
i) LIBRARY JOURNAL	40%	1377900261		177065525		177065525		1554965786
ii) COMPUTER SOFTWARE	40%	22477192		2590872	5322136	7913008		30390200
Total Intangible Assets		1400377453	0	179656397	5322136	184978533	0	1585355986
C) Capital Working Progress		2176984090	24908800	762457547	66484524	853850871	462800711	2568034250
TOTAL (A+B+C)		15717762959	85128847	1370257928	558618639	2014005414	462800711	17268967662



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



(Amount in Rupees)

DEPRECIATION										NET BLOCK	
As at the beginning of the year	Prior Period Adjustment for Excess/ Short Depreciation	Prior Period Adjustment for Change in method of Depreciation in 2014-15		Balance as at beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the Year	As at the current year end	As at the previous year end
0				0	0	0	0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0	0	158967666	158967666
0						0	0	0	0	0	0
424228882					141540945	1942202	0	143483148	567712030	6606445349	6652818374
0							0	0	0	0	
0							0	0	0		
0							0	0	0		
0							0	0	0		
74681					74681	632059	0	706740	781421	34555592	3659361
258977					258977	0	0	258977	517954	12430912	12689889
424562540	0	0	0	0	141874603	2574262	0	144448865	569011405	6653431853	6669167624
290475870					107656813	18948041	0	126604854	417080723	2115016352	1862660392
4563288					1723731	187219	0	1910949	6474237	12635254	12674018
61311315					23884254	3012983	0	26897237	88208553	270421278	257145404
69537331					23498792	859104	0	24357896	93895228	230876725	243779900
243377378					102357999	25240022	0	127598020	370975399	267014703	268412616
8308688					3418767	1918335	0	5337101	13645789	93096233	60066642
47862536					17353506	892874	0	18246380	66108915	116354880	125672524
97795232					97795232	18461806	0	116257037	214052269	1239160698	1124645162
19573					19573	12675	0	32248	51821	378150	241397
1910940					689688	182722	0	872410	2783350	40837148	32573483
17920776					5973592	34312	0	6007904	23928680	51170118	56749122
843082926	0	0	0	0	384371946	69750091	0	454122037	1297204962	4436961540	4044620660
1267645465	0	0	0	0	526246549	72324353	0	598570902	1866216367	11249361059	10872755950
1325250903					52649358	70826210	0	123475568	1448726471	106239315	52649358
8990877				8990877	8990877	3165203	0	12156080	21146957	9243243	13486315
1334241780	0	0	0	8990877	61640235	73991413	0	135631648	1469873428	115482558	66135673
							0	0	0	2568034250	2176984090
2601887245	0	0	0	8990877	587886784	146315766	0	734202550	3336089795	13932877867	13115875713

S. Nayak

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 5: INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
1) Debentures and Bonds	150000000	41390000
2) Term Deposit with Banks	5044639231	4943969089
3) Others		
TOTAL (A)	5194639231	4985359089
(B) Technology Guest House - Current Assets (Details Separately Enclosed)	0	0
(C) SRIC - Investment		135500000
TOTAL (A + B + C)	5194639231	5120859089

SCHEDULE 5 (A): INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS/SUBSIDIARIE'S (Excluding SRIC)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
Endowment A/c	3119997940	2899261231
Institute Development Fund	827905866	630742351
Multi Speciality Hospital	298770800	565199443
GSSOT	84824556	78430526
IESPF	68134983	62283824
CET	13383939	12399380
Scholarship	66535842	55383195
VGSOM	37301961	33914813
GIS	2180826	2000000
Vijay Kiyawat Endowment Fund	1189581	1093618
HAL Chair Professor	17708600	0
Other Donated Chair	132851261	133207728
Medical Facility to Pensioners	380917290	393589221
OSC PLAN	130435787	117853760
ISWT	12500000	
Total	5194639231	4985359089

SCHEDULE 6: INVESTMENTS - OTHERS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
1) In Government Securities		0
2) In State Government Securities		
3) Other approved Securities/Term Deposit		
4) Share		
5) Others	137374904	400000000
6) ESD	101931502	91114415
7) Student Caution Money (ICM)	120473356	108633236
8) JEE	229174837	212211424
9) GATE	346964701	244985397
10) JMET	24679618	22778081
TOTAL (A)	960598917	1079722554
(B) Technology Guest House - Current Assets (Details Separately Enclosed)	0	0
(C) SRIC-Investment Others	2618724888	2033224889
TOTAL (A + B + C)	3579323805	3112947443

S. Nayak

**(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)**



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 7: CURRENT ASSETS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
1) Stock				
a) Store and Spares	1064044		4184452	
b) Building Material				
c) Water Supply Materials		1064044		4184452
2) Sundry Debtors :				
a) Debt Outstanding	400000			
b) Others				
c) Imprest	140498	540498		
3) Cash and Bank Balance				
a) Cash balances in hand:				
Establishment Account	82		212241	
Grants Account			13979	
RC & RSC Account			2386	
GATE Account			894	
JEE Account			11545	
IESPF Account			960	
GSSOT Account			9963	
Pension Account			323	
Kolkata Extn Centre	3224		20000	
RCSIDM			-4647	
BBSR Extn Centre	56724	60030	45328	312972
b) With Scheduled Banks :				
In Current Account				
Cash At Bank (ESD)	6922665		5106853	
Student Caution Money (ICM)	2825098		2467915	
Joint Entrance Examination (JEE)	5335948		1256868	
Graduate Apptitude Test In Engineering (GATE)	1262320		2704177	
JMET	1022662		973151	
G.S Sanyal School of Telecommunication (GSSOT)	530838		2067092	
RC & RSC	1474105		939722	
Institute Endowment, Scholarship & Prize Fund (IESPF)	1277364		1333807	
Centre for Education Technology (CET)	663752		631616	
Scholarship & Stipened	4758472		10981443	
Vinod Gupta School of Management (VGSOM)	423645		396679	
Group Insurance Scheme (GIS)	3013866		2443641	
B.C Roy Memorial Fund	272464		247441	
Vijay Kiyawat Endowment Fund	461234		541991	
Nehru Mesuam	3076780		3625080	
Donated Chair	3931324		2530315	
Medical Facility to Pensioners	6187436		265511	
Oversight Committee (OSC)/ OBC	108530		107459	
Multi Speciality Hospital	9509993		267044	
Endowment Fund	6427212		4143892	

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 7: CURRENT ASSETS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
Institute Development Fund (IDF)	55364		28325	
International Summer & Winter Training (CEP - ISWT)	5544208		11859320	
SBI Works A/c	450488		451120	
SBI MOP A/c	419752		26198426	
In Saving Accounts				
Main A/c	84208715		4193671	
Establishment A/c	24284378		24178220	
Grant Savings A/c	199316428		198912163	
Golbal Initiative of Academic Network (GIAN)	124601729		248269237	
PNB Pension A/c	10042		10336	
SBI Pension A/c	3537905		5288607	
Syndicate Pension A/c	450436		12329	
POS Receipt	1251803			
IIT Subsidiary Fund	98659277			
PNB Other POS Receipt	98387			
SBI Departmental Running & Main	100000			
SBI Entry Tax	2950515	605425134	1263394	563696844
C) Sweep Deposit - MSH				98300000
d) Grant In Transit	538200000	538200000	82500000	82500000
Sub total (1+2+3)		1145289706		748994268
4. Technology Guest House - Current Assets (Details Separately Enclosed)		26667921		17339473
5. SRIC - Current Assets		375670198		457502656
TOTAL (1+2+3+4+5)		1547627825		1223836397

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 8: LOANS,ADVANCES AND OTHER ASSETS:

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
1) Advances to employees : (Non - Interest bearing)				
a) Salary				
b) Festival	2310071		1991471	
c) Medical Advance	8074150		7813713	
d) LTC	437539		4685240	
e) Personal Advance	1093834		2440270	
f) Advance CPDA	3930975		4782871	
g) TA advance	384650			
h) Soft loan to employee	545250	16776469		21713565
2) Long Term Advances to employee : (Interest bearing)				
a) Vehicle loan	779303		2104321	



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 8: LOANS,ADVANCES AND OTHER ASSETS:

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
b) Home Loan	27877749		38058416	
c) Computer Advance	1539073		829283	40992020
d) Others (to be specied)		30196125		
3) Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				
a) On Capital Account			121787501	
b) Advance to SRIC	74274331		267712229	
c) JEE			3482839	
d) GATE			24048018	
e) Others Advances			38569451	
f) Advance to Supplier	136412494		130912362	
g) Advance to Fellowship (Boys Cast)/ Student Contingencies Advance	806755		877046	
h) Advance to different Halls & Others			6235089	
i) Claims Receivable & Other Advances	190400595	401894175		593624535
4) Prepaid Expenses Prepayments				
a) Insurance				4337282
b) SRIC - Service Tax				
5) Deposits				
a) Telaphone				
b) Lease rent				
c) Electricity (Security Deposit held with Bank)	77306787			49527082
d) PMC Advance	461196987	538503774		
6) Income Accrued:				
OBC A/c			2177287	
Diamond Jubilee			128072344	
Grants A/c			32916663	
on Savings A/c			50900596	
Earmarked/ Endowment Fund	113164748		4182953	
Institute Development Fund	41203626		2468735	
Multi Speciality Hospital	18394657		6074894	
ESD A/C	3937625.45		13518015	
Student Caution Money (ICM).	2318901		1183942	
JEE	4504421		634247	
GATE	14689325.54		1433575	
JMET	1071219		2910136	
Grant Savings	2892545.16		293776	
GSSOT	1178554		2418476	
IESPF	2067425		1694165	
CET	297298		181306	
Scholarship	1889045		82487	
VGSOM	1137984		6985258	
GIS	174808		12410213	
Vijay Kiyawat Endowment Fund	78920		9421229	
HAL Chair Professor	107075			
Donated Chair	3084390			
Medical Facility to Pensioners	10537680			
OSC PLAN	6570993			
Others	877299	230178538		279960295

S. Nayak

**(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 8: LOANS,ADVANCES AND OTHER ASSETS:

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year		Previous Year	
7) Claims Receivable:				
TDS Receivable			57719	
Receivable from ST/Dept			1161249	
Student Fees Receivable	15762699.75		9441073	
OSC PLAN A/c			10040554	
JMET A/c			1799736	
Receivable from Institute in Scholarship			2007642	
Receivable from M Tech Fund			5505728	
Transferable Student Fees	27846350		0	
Receivable from CEP	13000000		14053115	
Receivable from Donated Chair			14041	
Grant Receivable from MHRD on account of Plan Expenditure	494670399		200014769	
Grant Receivable from MHRD on account of Diamond Jubilee	409296443		384387643	
Grant Receivable from MHRD on account of NITT/ ISWT	1736829	962312721	148771250	777254519
Sub Total (A)		2179861802		1767409298
B) i) Technology Guest House - Current Assets (Details Separately Enclosed)		717831		
C) i) SRIC - Current Assets		178369210		147723188
ii) SRIC - Project Assets Created out of Sponsored Project ownership yet to be vested		4070323412		3724477069
TOTAL (A + B + C)		6429272255		5639609554

SCHEDULES FORMING PART OF Income & Expenditure AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 9: ACADEMIC RECEIPTS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
A) FEES FROM STUDENTS		
1) Tution Fee	430942704	234159900
2) Admssion Fee		20472250
3) Enrolment Fee		
4) Library Admission Fee		
5) Laboratories Fee	13099200	9519000
6) Art & Craft Fee		
7) Registration Fee	6931690	3821950
8) Syllabus fee		
9) Training & Placement Fee	4652701	386550
10) Academic Verification Fee	2700000	1168639
11) Modenization Fee	1244200	1837850
12) Seat Rent		8053900
Sub Total	459570495	279420039



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF Income & Expenditure AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 9: ACADEMIC RECEIPTS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
Add : Fees received in Advance 15-16		92116478
Less : Fees received in Advance in 16-17	0	0
Total (A)	459570495	371536517
Examination Fee (B)		
1) Admission Test Fee	4000	
2) Annual Examination Fee		
3) Mark Sheet, Certificate Fee		219750
4) Entrance examination fee		
5) Examination fee	7196600	5238775
Total (B)	7200600	5458525
Other Fee		
1) Identity Card Fee	1170	790
2) Fine/ Miscellaneous Fee	197	284377
3) Medical Examination fee	449100	1122400
4) Transportation fee		
5) Hostel Fee	14291190	2335750
6) Student Amenities Contribution		
7) Electricity & Water Fees	16693186	12071600
8) Insurance Fees	18095843	12999597
9) Internet Fees	8732840	6346000
10) Statutory Fees	1384000	1467000
11) Student Amenity Fees	13098600	9519000
12) Student Welfare Fees	463500	595600
13) Duplicate Verification Fees Receipt	1484650	624057
14) Fees Received from M Tech Railway Engineering		5390000
15) Net Income from PGDBA Course with ISI & IIM(C)		
- Gross Receipts from PGDBA	26302050	
- Less Direct expenditure incurred on PGDBA	3338450	
17) Others	255576	39686
Total (C)	97913452	65941913
Sale of Publications		
1. Sale of Admission Form		0
2. Sale of Syllabus and Question Paper, etc		0
3. Sale of Prospectus including admission forms		0
Total (D)	0	0
Other Academic Receipts		
1. Registration fee for workshops, programme		0
2. Registration fees (Academic Staff College)		0
Total (E)	0	0
Less : Fund Transfer to Institute's Contribution to Approved Project Fund	-300000000	
TOTAL (A+B+C+D+E)	264684547	442936955

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 10: GRANTS/ SUBSIDIES (IRREVOCABLE GRANTS RECEIVED)

(Amount in Rupees)

Particulars	MHRD				Total
	Plan		Non Plan	Total	Previous Year
	Current Year	Current Year	Current Year	Current Year	
Balance B/F	-200014769				
Prior Period Adjustment					
Amount Transferred from CRR Project	0				
Amount Transferred from Endowment Fund for Diamond Jubilee Project		-200014769		-200014769	258912895
Add: (i) Receipts during the year		1803300000	3150000000	4953300000	4751252000
(ii) LC Margin Money Matured during the year		130912362		130912362	0
(iii) Amount Transferred from CRR Fund for meeting CRR related expenditure from Plan Fund		114000000		114000000	0
(iv) Transfer from Plan Grant for Revenue Expenditure			773045250	773045250	722391148
Total (A)		1848197593	3923045250	5771242843	5732556043
Less:					
Utilised for Revenue Expenditure		773045250	3923045250	4696090500	4244782296
Less: Utilized for Capital Expenditure		1370257928		1370257928	1514576154
Provision for Foreign Purchase		125290483		125290483	130912362
Advance to Supplier (LC Advance)/Project Expenditure		74274331		74274331	42300000
Total (B)		2342867992	3923045250	6265913242	5932570812
Balance C/F (A-B)	0	-494670399	0	-494670399	-200014769

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 11: INCOME FROM INVESTMENTS: (Income on Investment from Earmarked/ Endowments funds transferred to Funds)

(Amount in Rupees)

Particulars	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1) Interest				
On Government Securities			19942615	51927276.59
Endowment Fund A/c	242812759	269016114		
Institute Development Fund (IDF)	67978149	51064835		
Multi Speciality Hospital	43296875	75537085		
G.S Sanyal School of Telecommunication (GSSOT)	6227642	6450435		
Institute Endowment, Scholarship Prize Fund (IESPF)	5104885	5313121		
Centre for Educational Technology (CET)	1020217	1070676		



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

**SCHEDULE 11: INCOME FROM INVESTMENTS: (Income on Investment from Earmarked/ Endowments funds transferred to Funds)
(Amount in Rupees)**

Particulars	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Scholarship	4171254	3783071		
Vinod Gupta School of Management (VGSM)	2857933	2888010		
General Insurance Scheme (GIS)	302886	296748		
BC Roy Memorial	25655			
Vijay Kiyawat Endowment	111639	180176		
Nehru Mesuam	118383	35277		
Donated Chair	10949482	12789744		
Post Retirement Medical Scheme (PRMS)	30939814	34716506		
Oversight Committee (OSC)/OBC	9732862	10097769		
b) Other Bonds/Debentures				
2) Dividends				
On Shares				
On Mutual Fund Securities				
3) Rents				
4) Interest on Term Deposits				
TOTAL	425650437	473239567	19942615	51927277
TRANSFERRED TO EARMARKED/ EARMARKED FUNDS	425650437	473239567	0	0
Transferred to Income and Expenditure A/c	0	0	19942615	51927277

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 12: INTEREST EARNED

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
1) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	5093708	14391111
2) On Loans:		
a) Employees/Staff	9575750	8496522
b) Others	1797535	
3) Interest on Debtors and Other Receivables	10979002.42	14852605
4) Interest on Electricity Deposits		
TOTAL	27445995	37740238

**(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 13: OTHER INCOME

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
A. Income from Land & Building				
1. Hostel Room Rent				
2. License fee/Electricity/Water Charges Recovery	15619249		13445384	
3. Hire Charges of Auditorium/ Play Ground/ Convocation Centre	43500		32600	
4. Electricity Recovery	35667897		31413434	
5. Water Charges Recovery	583715		572108	
6. Recovery of other Charges	180300			
7. Telephone Charges Recovery	83706		23956	
8. Recovery of Guest House Charges	599639		85645	
Total		52778006		45573127
B. Sale of Institute Publications				
C. Income from Holding events				
1. Gross Receipts from JEE	44739563		66516087	
Less Direct expenditure incurred on JEE	24410656	20328907	18324023	48192064
2. Gross Receipts from GATE	172799535		131196033	
Less Direct expenditure incurred on GATE	53245651	119553884	57440696	73755337
3. Gross Receipts from ICM	8192250		8649094	
Less Direct expenditure incurred on ICM	1783	8190468	1473	8647621
4. Gross Receipts from ESD	7639628		7771178	
Less Direct expenditure incurred on ESD	0	7639628	0	7771178
5. Gross Receipts from JMET	1838325		1933785	
Less Direct expenditure incurred on JMET		1838325	0	1933785
6. Gross Receipts towards Convocation	4476500		5605001	
Less Direct expenditure incurred on Convocation	10485462	-6008962	3954607	1650394
7. Project Expenses				
Amount Transferred from Corpus for Project Expenditure	65112522		151627383	
Less : Project Expenditure incurred by SRIC on behalf of Institute including earlier year(s)				
(i) Salary	16024169		42614918	
(ii) Consumables	44941092		97783582	
(iii) Travelling Expenditure	4142261		10836314	
(iv) Misc Expenditure	5000	0	392569	0
8. CEP Overhead				1053115
D. Others				
1. Oncome from Conultency				
2. RTI fees	5592		3822	
3. Income from Royalty				
4. Sale of Appilication form (Recruitment)				



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 13: OTHER INCOME

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
5. Sale of tender form, waste paper, etc	2006305		1422485	
6. Enlishment Fees			377000	
7. Profit on Sale/ Diposal of Assets				
a) Own Assets				
b) Assets received free of cost				
8. Liability Written back	6663783			
9. Transport Recovery			286187	
10. Auction Sale & Sale of Farm Product	3336396			
11. Hospital charges recovery	359943			
12. Sale of Consumable				
13. Liquidity Damage	1699804		1596015	
14. Income from Library				
15. Foreign Service /Lien Contribution	4155661		4189946	
16. Received from Vijay Kiyawat for Recurring Expenditure			800000	
17. Other Misc.	5429138	23656622	4352993	13028448
Sub Total (A+B+C+D)		227976877		201605069
E) Net Income from Technology Guest House (Details at Separate Schedule)				
Gross Receipts from Technology Guest House			26763122	0
Less Direct expenditure inccred of Technology Guest House			24917696	1845426
Grand Total (A+B+C+D+E)		227976877		203450495

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 14: PRIOR PERIOD INCOME

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Academic Receipt		
2. Income From Investments		
3. Interest Earned		
4. Other Income	4342265.92	11,63,519
5. Surplus from Subsidiary - JMET for the year 2013-14		
6. Other (Specify)		
7. Diamond Jubilee Fund		
8. Adjustment of Opening Unspent Balance of Plan Grant		35,16,796
9. Petrol Chair Professor - Donated Chair		1,47,93,978
10. GSSOT		71,996
11. Nehru Mesuam		5,74,202
12. RC & RSC		52,729
13. Multi Speciality Hospital	0	0
Grand Total (A+B+C+D)	43,42,266	2,01,73,220

S. Nayak

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 15: STAFF PAYMENT & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
a) Salaries and Wages		1516789788	1516789788		1416862815	1416862815
b) Allowances and Bonus		8981572	8981572		8760476	8760476
c) Contribution to CPF		2204510	2204510		2175749	2175749
d) Leave Salary			0			0
e) Retirement and Terminal Benefits		931829585	931829585		994101123	994101123.3
f) LTC Facility		30774447	30774447		35758638	35758638
g) Medical Facility		66136602	66136602		61927457	61927457
h) Children Education Allowance		9221036	9221036		16571453	16571453
i) Others (Specify)			0			0
j) Cumulative Professional Development Allowance		31344774	31344774		38444239	38444239
k) Liveries		2350571	2350571		2275497	2275497
l) Honararium/ Overtime Allowance		7593688	7593688		6495982	6495982
m) Staff Welfare Expenses			0		53200	53200
Total	0	2607226573	2607226573	0	2583426629	2583426629

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE- 15A: EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFIT

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year				Previous Year			
	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total
Opening Balance as on 01.04.2016 (a)		553740415	527420500	1081160915	0	535059462	452705514	987764976
Less : Actual Payment During the Year (b)		54393329	43446311	97839640		57161780	56225007	113386787
Balance available as on 31.03.2017 c= (a-b)		499347086	483974189	983321275	0	477897682	396480507	874378189
Provison required on 31.03.2017 as per actuarial valuation (d)		565680084	641795716	1207475800		553740415	527420500	1081160915
A. Provision to be made in the current year (d-c)		66332998	157821527	224154525	0	75842733	130939993	206782726
B. Contribution to New Pension Scheme				43254142				40274788
C. Self Pension & Family Pension paid				627558281				599861504
D. Arrear Self and Family Pension				3277947				103381626
E. Commitation of Pension				29977350				40637789
F. Travel to Hometown on Retirement				2349790				2982690
G. Deposit Linked Insurance Payment				1257550				180000
Total (A+B+C+D+E)				931829585				994101123



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 16: ACADEMIC EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
a) Scholarship	768102539		768102539	703289670	32400	703322070
b) Field work/ Participation in Conference		49771512	49771512		37244660	37244660
c) Expenses on Seminars/ Workshops		20470	20470		59091	59091
d) Payment to visiting Faculties/Expert		16959535	16959535		4475901	4475901
e) Examination expenses		679346	679346		17279883	17279883
f) Student Welfare Expenses/Student Support Service		53029419.5	53029420		29992091	29992091
g) Laboratory Expenses			0	822969	52661512	53484481
h) Publications			0		77518	77518
i) Stipend/ means -cum-merit Scholarship			0			0
k) Subscription/Registration Expenses		166500	166500		654724	654724
l) Other Academic Expenses			0			0
m) Departmental Operating Expenses		7970086	7970086			0
n) Prize & Award		76100	76100		39000	39000
o) Other Support Service Departmental Exp		64162588	64162588		25932813	25932813
p) Training & Education Expenses			0		3800407	3800407
q) Provision for Interest Subvention		34374813	34374813			
Total	768102539	227210370	995312909	704112639	172249999	876362639

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 17: ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
A. Infrastructure						
a) Electricity and Power		339292969	339292969		323767576	323767576
b) Water Charges			0			0
c) Insurance		90234	90234			0
d) Rent, Rates and Taxes (including Property Taxes)		1079205	1079205		2016500	2016500

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 17: ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
B Communication			0			0
e) Postage and Stationery		1779289	1779289		2151826	2151826
f) Telephone, Fax and Internet/ Networking Charges		6534002	6534002		10672429	10672429
C. Others			0			0
g) Printing and Stationery		11546204	11546204		13232497	13232497
h) Travelling and Conveyance Expenses		18199535	18199535		16404452	16404452
i) Hospitality Expenses		10730818	10730818		16187353	16187353
j) Auditors Remuneration		1333740	1333740		4595454	4595454
k) Professional Charges		9044670	9044670		8294243	8294243
l) Advertisement and Publicity		12571115	12571115		10595598	10595598
m) Magazines & Journals		77545	77545		65301	65301
n) Security Charges		50115216	50115216		39601521	39601521
o) BOG Meeting Expenses		82545	82545		372189	372189
p) Celebration of Important Days		334991	334991		342479	342479
q) House Keeping Expenses		123636580	123636580	278642	122260252	122538894
r) Store & Consumables		27976950	27976950	19230	3940788	3960018
s) Website Development Charges		346304	346304		1153947	1153947
t) Miscellaneous and Contingencies		2084675	2084675		53722	53722
Total	0	616856587	616856587	297872	575708127	576005999

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 18: TRANSPORTATION EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
a) Vehicles (owned by Institution)			0			
b) Running Expenses		2847483	2847483		2646687	2646687
c) Repair & Maintenance			0			0
d) Insurance Expenses & Road Tax		9264	9264		7200	7200
e) Vehicles taken on rent/ lease			0			0
f) Rent/ Lease expenses		530810	530810		933904	933904
Total	0	3387557	3387557	0	3587791	3587791



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 19: REPAIRS AND MAINTENANCE

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
						0
a) Building	3469643	63391368	66861011	15026547	67266578	82293125
b) Furniture & Fixture	365595	6386294	6751889		3690920	3690920
c) Plant & Machinery		11142069	11142069		2231963	2231963
d) Office Equipment		26598148	26598148	1972816	14866210	16839026
e) Computers	36018	40718497	40754515	102415	23057750	23160165
f) Laboratories and Scientific equipment		23369624	23369624	865109	9196029	10061138
g) Audio Visual Equipment		131979	131979		221667	221667
h) Cleaning Material & Services		0	0			0
i) Gardening		1183949	1183949		3129750	3129750
j) Estate Maintenance		0	0			0
k) Other (Specify)		166436	166436		101716	101716
l) Water Works	593699	2568656	3162355	13750	23085663	23099413
m) Vehicle		1358026	1358026		774037	774037
n) Electrical Installation & Equipment	240984	6655359	6896343		5883035	5883035
o) Sanitation Maintenance	236772	13917260	14154032		112495	112495
p) Telephone Maintenance		1194111	1194111		3556916	3556916
Total	4942711	198781776	203724487	17980637	157174729	175155366

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 20: FINANCE COST

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
Bank Charges		402181	402181		353613	353613
						0
Total	0	402181	402181	0	353613	353613

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 21: OTHER EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
a) Provision for Bad and Doubtful Debt						0
b) Irrecoverable Balances Written -Off						0
c) Grants/ Subsidies to other Institution/ organization						0
d) Grant given to						0
i) HMC		15393407	15393407		35800000	35800000
ii) Gymkhana		6421200	6421200		3176700	3176700
iii) PRMS						0
iv) Subsidised Canteen		729000	729000		669000	669000
v) Other Misc Administrative Exp.		2783080	2783080		2759860	2759860
Total	0	25326687	25326687	0	42405560	42405560

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 22: PRIOR PERIOD EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
1. Establishment Expenses					20854873	20854873
2. Academic Expenses						0
3. Administrative Expenses						0
4. Transportation Expenses						0
5. Repair & Maintenance						0
6. Scholarship					47110176	47110176
7. Other		2787324	2787324		1016606	1016606
Total	0	2787324	2787324	0	68981655	68981655



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 23 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. The Financial Statements of Indian Institute of Technology Kharagpur have been presented as proximate to the Format of Financial Statements for the Central Higher Educational Institution and suitably adapted, w.e.f the Financial year 2014-15 as per MHRD 's Circular no F.No.32-21/2013-TS-1 dated 13th May,2015. As the stated format is adopted in the Financial Year 2014-15, the previous year's figure regrouped and recast wherever necessary for more appropriate presentation of events or transactions in the financial statements for the year 2016-17.
2. **Accounting Convention:**
The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting except otherwise stated and showing voluntary compliance to the accounting standards issued by "The Institute of Chartered Accountants of India", wherever applicable.
3. **Use of Estimates**
The Financial Statements have been prepared and presented in conformity with the applicable accounting standards - that is, based on the estimated and assumptions made by Indian Institute of Technology, Kharagpur as to the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities as at the date of the Financial Statements, and the reported amounts of revenue and expenses during the period. Actual results could differ from those of estimates.
4. **Inventory Valuation**
Stores and Spares (including Machinery Spares) are valued at cost.
5. **Investments**
Investments are shown at cost.
6. **Investment of Earmarked/ Specific Funds and Interest Income Accrued on such Investments:**
To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or Term Deposits for Fixed term with banks, leaving the balance to saving bank Accounts.

Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective fund and not treated as income of the Institution.
7. **Fixed Assets**
Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation. The actual cost capitalized includes cost of the asset, freight, installation cost, duties and taxes and other incidental expenses until fixed assets are ready for use.
8. **Depreciation**
Depreciation is on Fixed Assets is provided on Straight Line method at the following rate as per Revision of Formats of Accounting of Central Educational Institutions (CEIs) communicated by the MHRD vide letter no.F.No. 32/21/2013-TS-I dated 13.05.2015 from the Financial Year 2014-15.

Tangible Assets:			
1	Land	-	0%
2	Site Development	-	0%
3.	Buildings	-	2%
4.	Road & Bridges	-	2%
5.	Tube Wells & Water Supply	-	2%
6.	Sewerage & Drainage	-	2%
7.	Electrical Installation and Equipment	-	5%
8.	Plant and Machinery	-	5%
9.	Scientific & Laboratory Equipment	-	8%

10.	Office Equipment	-	7.5%
11.	Audio Visual Equipment	-	7.5%
12.	Computer & Peripherals	-	20%
13.	Furniture, Fixture & Fittings	-	7.5%
14.	Vehicles	-	10%
15.	Library Books & Scientific Journals	-	10%
Intangible Assets (Amortization):			
1.	E-Journals	-	40%
2.	Computer Software	-	40%
3.	Patents and Copyright	-	9 Years

The above change in Accounting Policies is made consequent upon the presentation of the Financial Statement as proximate to the Format of Financial Statements for the Central Higher Educational Institution and suitably adapted, w.e.f the Financial year 2014-15 as per MHRD 's Circular no F.No.32-21/2013-TS-1 dated 13th May,2015.

Depreciation on the assets created out of Grant-in-Aid, Earmarked/ Specific Fund / Assets created out of Sponsored Project Fund, where ownership has been vested with the Institute etc are charged to the Corpus/ Capital Fund on a systematic and rational basis over the useful life of depreciable asset by way of a reduced depreciation charge for systematic adjustment of the Grant-in-aid and Earmarked fund/ Specific Fund used for assets creation.

9. Revenue Recognition

9.1 Grant-in-Aid

The classification as to Non-Plan Grant (Revenue Grant-in-Aid) and Plan Grant for Capital Outlay is made as per sanction orders for respective grants.

ii) Grants in Aid received in kind are accounted for on receipt of the Asset at the estimated market value and the same is credited to Corpus/ Capital Fund as per Accounting Principal mentioned in Revision of Format of Accounts of Central Education Institutions (CEIs). An amount equal to the depreciation charged during the year on these Assets is credited to asset account and debited to the Corpus / Capital Fund Account – Grant in aid (assets in kind).

iii) Expenditure (including purchase of fixed assets) relating to grants received / receivable has been adjusted against the amount of the said grant. Unspent balances of Grants-in-Aid are carried forward to subsequent year under the head Current Liabilities and Provisions for adjustment against expenses in those years. Excess of Expenditure over the amount of the grant received after adjusting income, if any, related thereto, has been carried forward to subsequent year under the head "Loans and Advances" as amount receivable from Government of India, wherever necessary.

(iv) Assets created out of Grant-in-aid, Earmarked/ Specific Fund/ Assets purchased from the sponsored project Fund, where ownership vests in the Institution have been credited to the Corpus/ Account as per Accounting Principal mentioned in Revision of Format of Accounts of Central Education Institutions (CEIs).

9.2 Fees from Students

Fees collected from students for various courses (Long term/Short term) of the Institute are recognized on accrual basis and spread over the tenure of the course.

9.3 Income other than that listed above is recognized as per Accounting Standard 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

9.4 Interest on Grant-In-aid.

Interest on unspent balance of grant-in-aid is recognized as income in the Income and Expenditure account.

9.5 Income Tax:

The income of the Institute is exempt from Income Tax under Section 10(23C)(vi) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

10. Assets and Liabilities of SRIC have been incorporated in the Financial Statement as a line item as per existing practice. Assets created out of Sponsored Project Fund by SRIC for which ownership is yet to be vested to the Institute, is included in the Current Assets instead of adding it to the Fixed Assets of the Institute and correspondingly the equivalent amount is excluded from Corpus of SRIC/Institute and transferred to current liabilities of the Institute separately as line item as Project Fund. Other Assets and Liabilities have been shown as line item as per existing practice.

11. The Technology Guest House Account has been maintained separately. The net income from Technology Guest House is incorporated in the Financial Statement. Assets and Liabilities of Guest House are incorporated as line item in the Financial Statement for the year 2016-17. Separate Accounts of Guest House is attached with the Annual Accounts for the year 2016-17.

12. International Summer and Winter Terms (ISWT) Account is maintained at CEP separately. Hence, the same is incorporated in the Financial Statement as a line item as per existing practice.

13. RETIREMENT BENEFITS

13.1 Liability towards Gratuity and Leave Encashment:

Liability towards Gratuity payable on death / retirement of employees (except employees on deputation) and leave encashment are accrued based on actuarial valuation done by the actuaries.

13.2 Liability towards Pension: Pension is paid to the Pensioners from the fund allocated by the MHRD each year. Liability is not provided on actuarial basis.



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2017

SCHEDULE 24 : CONTINGENT LIABILITIES and NOTES ON ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

The following Court cases are pending before the Hon'ble High Court of Calcutta, Hon'ble District Courts of Paschim Medinipur, CAT, New Delhi.

Sl. No.	Court Case Nos.	Subject Matter	Date of Filing	Authority
1.	W.P. No. 15270(W) of 2003 Prof. Subroto Roy, Former Professor of VGSOM Vs UOI/MHRD, Registrar, Director, Deputy Director, Dean(F&P), Prof. Kalyan Chakraborty, Dean, VGSOM	Aggrieved with the Termination of his Contract Service as Professor from VGSOM	02.09.2003	HIGH COURT AT CALCUTTA
2.	W. P. No. 317 (W) of 2004 B. Ravi Kumar, Adopted Son of Late B. Laxmiamma, Ex- Attendant, Semi Skilled, E&M Vs Registrar, Assistant Registrar and Deputy Registrar (F&A)	Prayer for compassionate employment, payment of Death-cum-Retirement Benefits for his adoptive mother	08.04.2001	-do-
3.	W. P. No. 17084 (W) of 2005 Ananda Murmu, Son of Late Jadunath Murmu, Ex-Sweeper, Sanitary Section Vs IIT Kharagpur, Registrar, AR (Recruitment), AR(A/cs)	Prayer for compassionate employment, payment of retirement benefits in respect of death of petitioner's father	30.08.2005	-do-
4.	F.M.A. 2451 of 2005 IIT Kharagpur Vs K.L. Dolui, Ex-Civil Contractor	Claim of payment for civil constructional works in the matter of M.S. No. 75/1995 pending in the District Judges Court Medinipur	2005	-do-
5.	W. P. No. 384 (W) of 2006 Jadab Kumar Pal, Ex-Assistant Registrar Vs UOI/MHRD, Director Registrar, Chairman, BoG and Selection Committee	For non- selection to the post of Deputy Registrar (OBC)	05.01.2006	-do-
6.	F.A.T. No. 455 of 2008 M/s. Radon House Pvt. Ltd., Kolkata, Spare Parts seller for Old X-ray Machine Muller Diagnost 40 of Philips Ltd. at B.C. Roy Tech. Hospital Vs IIT Kharagpur	Decree for a sum of s.1,00,582/- +Interest @6%pa from 31.03.99 and decretal cost of Rs.12040/-	09.11.2008	For execution of the Decree the Institute filed Money Ex. 3/ 2011, transferred to Jurisdiction of Alipore Court.
7.	W.P.No. 5199 (W) of 2009 Nitosh Kumar Brahma, Ex-S.O., Department of Chemical Engineering Vs MHRD/IIT Kharagpur	Prayer for allowing him to continue his Service, Extension of Retirement Age from 62 to 65 years, Fixation of Pay, etc.	29.06.2009	HIGH COURT AT CALCUTTA
8.	W. P. No. 284 (W) of 2011 Dr. Amit Kumar Ghosh, Ex-Professor, Department of Aerospace Engineering Vs Chairman, BoG, BoG, Director, Registrar, Secretary, BoG, Justice Ronojit Mitra, Sri Ranjan Kumar Sarkar, VLO, UOI/MHRD, Dr. J.K. Tewari, DGS, IEE(I)	Prayer for restraining the Institute to proceed in the Departmental Proceedings, etc. in respect of the Petitioner since retired from service w.e.f. 30.04.2011	19.05.2011	-do-
9.	W. P. No. 6341 (W) of 2011 Pranab Kumar Roy, Ex-Sports Officer (Personal), Technology Students' Gymkhana Vs Sr. Central Government Advocate, IIT Kharagpur Chairman, BoG, Director Registrar, President, TSG Sabyasachi Sengupta, SO (Personal)	For appointing him as Sports Officer-in-Charge	30.03.2011	-do-

Sl. No.	Court Case Nos.	Subject Matter	Date of Filing	Authority
10.	W.P. No. 8555 (W) of 2011 Muthiah Ratnasamy, Ex-Deputy Librarian, Posted at VGSOM Vs UOI/MHRD, IIT Kharagpur Chairman, BoG, Director Registrar, Deputy Registrar	Allow him to continue his service up to 62 years.	16.05.2011	-do-
11.	W.P. No. 18447 (W) of 2011 Sanjib Ghosh Dastidar, Rathtala, Talbagicha, Kharagpur-721 302 Vs UOI/MHRD, Registrar, AR(Audit), Rup Chand Murmu, Biswanath Ghosh Shyamal Kumar Mandal	For selection for the post of Contractual Security Supervisor/Security Guard	14.11.2011	-do-
12.	CAN No. 611 of 2011 FMA 1766 of 2006 IIT Kharagpur Vs State of West Bengal, Kharagpur Municipality, Chairman, Kharagpur Municipality, UOI/MHRD, DM, Paschim Medinipur and Commissioner, Burdwan	In connection with the Levying of Municipal Taxes on IIT Kharagpur	13.01.2011	-do-
13.	W. P. No. 20932 (W) of 2011 Partha Pratim Bhattacharjee Ex-Technical Assistant, Department of Computer Science and Engineering Vs IIT Kharagpur, Director, Registrar, Assistant Registrar, DG, NIRD, Secretary, MRD	Prayer to reinstate in the post of Junior Technical Superintendent	08.12.2011	-do-
14.	W.P. No. 7082 (W) of 2013 Dr. Anup Sharma, Ex-Medical Officer (Homeo), B. C.R. Tech. Hospital Vs IIT Kharagpur, Director, Registrar, Chairman, BoG, Head, BCTRH, Prof. Rintu Banerjee, Chairperson, SCOW	Praying for restraining from Compulsory Retirement from the Institute Services	06.03.2013	-do-
15.	W. P. No.32830 (W) of 2013 Purnendu Sekhar Panigrahi Ex-Part-time Market Supervisor, CELC Vs UOI/MHRD, Secretary, CELC, Director, IIT Kharagpur	Prayer for reinstating him in the post of Market Supervisor, granting financial benefits of past services of CELC	18.09.2013	-do-
16.	W.P. No. 11666 (W) of 2014 Dr. Asok Kumar Saha, Ex-Principal Scientific Officer, Rural Development Centre Vs UOI/MHRD, IIT Kharagpur, BoG, Director, Registrar, Assistant Registrar (Estt)	Prayer for conversion from CPG to GPF and payment of pensioner benefits.	04.04.2014	-do-
17.	W.P. No. 16600 (W) of 2014 Santosh Kumar Dolai, Ex-Attendant/Pensioner, Department of Agril, & Food Engineering Vs Director, Registrar, PAO(P) Ministry of Agriculture and BoG	For granting his continuity of JBMF Project Services with the Institute Services, Last Pay Protection and pensioner benefits accordingly	11.06.2014	-do-
18.	W. P. No. 33773 (W) of 2014 Tapan Kumar Guchhait Ex-Sports Officer (Personal) Technology Students Gymkhana Vs UOI/MHRD, IIT Kharagpur, BoG, Director, AR(E)	Prayer for conversion from CPF to GPF and granting pensioner benefits	05.12.2014	-do-
19.	W. P. No. 33771 (W) of 2014 Pralay Kumar Sengupta Ex-Superintendent, Stores and Purchase Section. Vs UOI/MHRD/IIT Kharagpur, BoG, Director, AR (Establishment)	Prayer for conversion from CPF to GPF and granting pensioner benefits	05.12.2014	-do-
20.	W. P. No. 33782 (W) of 2014 Gopi Das, Ex- Senior Attdt.B.C.Roy Tehnology Hospital Vs UOI/MHRD, IIT Kharagpur, BoG, Director A.R. (Establishment)	Prayer for conversion from CPF to GPF and granting pensioner benefits	05.12.2014	-do-
21.	M.S. No. 75/1995 Kanai Lal Doloui, Ex- Civil Contractor, Vs IIT Kharagpur and Others Appeal pending	For full and final settlement for civil construction works	1995	District Court at Paschim Medinipur



Sl. No.	Court Case Nos.	Subject Matter	Date of Filing	Authority
22.	J. Misc. No. 15/1989 Bimal Kanti Chakraborty Ex-Civil Contractor Vs IIT Kharagpur and Others	For full and final settlement of claim for civil constructional works	1989	-do-
23.	J. Misc. No. 16/1989 Bimal Kanti Chakraborty Ex-Civil Contractor Vs IIT Kharagpur and Others	For full and final settlement of claim for civil constructional works	1989	-do-

The above cases are pending before the respective Hon'ble High Court/District Judge Court/CAT. Thus the liabilities for the above could not be ascertained during the year.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. The Financial Statements of Indian Institute of Technology Kharagpur have been presented as proximate to the Format of Financial Statements for the Central Higher Educational Institution and suitably adapted, w.e.f the Financial year 2014-15 as per MHRD 's Circular nof.No. 32-21/2013-TS-1 dated 13th May, 2015.
2. **Current Assets, Loans and Advances** In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.
3. **Accrued Interest on investments** is taken on the basis of certification provided by the Bankers. In case where no certification is provided by the bankers the same is calculated on simple interest basis as per rates appearing in the instruments.
4. **Stores and Spares are valued at cost** and included in the current assets wherever the closing stocks are available.
5. With reference to Para 9.1 (iv) of Schedule-23: Significant Accounting Policies, the Assets created out of grant-in-aid 2016-17 have been credited to the Corpus/ Capital Fund as per last year audit observation and prescribed format of MHRD; Excess of Expenditure over the amount of the grant received after adjusting opening balance and others, if any, related thereto, has been carried forward to subsequent year under the head "Loans and Advances" as amount receivable from MHRD Government of India, wherever necessary.

Unspent balance of Plan grant-in-aid is shown under the head "Loans and Advances" as amount receivable from MHRD Government of India during the year.

During the year 2016-17, SRIC has transferred Fixed Assets of Rs. 16.06 Crores purchased from Sponsored project fund where ownership has been vested to the Institute. As the Fixed Assets have been owned by the Institute, they have to exhibit in the Balance Sheet by merging with the Fixed Assets of the Institute. The said assets are free as far as the Institution is concerned and hence, assets are set up by debiting Assets and crediting Corpus/ Capital Fund..

During the Financial year 2016-17, assets created out of Grant-in-aid / Earmarked Fund / Specific fund and assets created out Sponsorship, where ownership vested to the Institute have been transferred to the Corpus/ Capital Fund.

The depreciation on assets created out of Grant-in-Aid, Earmarked Fund/ Specific Fund, assets created out of sponsored project fund/ project fund or other fund are also computed and an amount of Rs. 73.58 crores charged to the Statement of Income and Expenditure.

During the year depreciation amounting to Rs. 73.54 crores on assets created out of Grant-in-Aid, Earmarked Fund/ Specific Fund & Sponsored Project (where ownership has been vested to the Institute) transferred from Statement of Income & Expenditure to Corpus/ Capital Fund separately for better presentation of the Financial Statement for the year 2016-17.

Accordingly, net Assets procured out of Grant-in-aid, Earmarked & Specific Fund, Sponsored project Fund is separately shown in the Corpus/ Capital Fund. Depreciation on Assets procured from Institute generated fund / event is adjusted with the Surplus/ (Deficit) during the year.

- (i) As could be seen, the Corpus / Capital Fund (i) and Reserve & Surplus have not been resulted in any material effect on the overall financial position except to the extent disclose above.
- (ii) A change in accounting policy on depreciation has been made during the year 2014-15 consequent upon the adoption of the presentation of the Financial Statement as proximate to the Format of Financial Statements for the Central Higher Educational Institution and suitably adapted, w.e.f the Financial year 2014-15 as per MHRD 's Circular no F.No.32-21/2013-TS-1 dated 13th May,2015

6. Income and expenditure of JEE, GATE, ICM, ESD, JMET, CEP, PGDBA course with Tri Institutes, convocation are treated as holding events as per new format of Accounting and same have been shown separately in Schedule -13.
7. International Summer and Winter Terms (ISWT) Account is maintained at CEP separately. This has been incorporated in the Financial Statement as a line item as per existing practice.
8. SRIC has maintained separate books of accounts. Assets and Liabilities of SRIC have been incorporated in the Financial Statement as a line item as per existing practice. Assets created out of Sponsorship Project Fund amounting to Rs. 407.03 crore by SRIC upto 2016-17 for which ownership is yet to be vested to the Institute, is included in the Current Assets instead of adding it to the Fixed Assets of the Institute and correspondingly the equivalent amount is excluded from Corpus of SRIC/ Institute and transferred to the Current Liabilities of the Institute separately as lime item as Project Fund. Other Assets and Liabilities have been shown as line item as per existing practice.
9. The Technology Guest House Account has been maintained separately. The Assets and Liabilities of the Technology Guest House have been incorporated as line item in the Financial Statement for the year 2016-17. Separate Accounts of Guest House is attached with the Annual Accounts for the year 2016-17.
10. **Creation of Specific Fund/ Earmarked Fund** : During the year a Specific Fund/ Earmarked Fund Namely "Institute Contribution to Project" has been created in the following ways for meeting Institute's contribution towards MHRD's approved projects (i.e. Diamond Jubilee Project and Establishment of Multispecialty Hospital) and Centre for Excellence in Manufacturing (CEM):
 - (i) by transferring an amount of Rs.30 Crores from Academic Receipt for the year 2016-17 to this newly created fund namely "Institute's Contribution to Projects". As a result the academic Receipt is reduced by 30 crores during the Financial Year 2016-17.
 - (ii) by transferring an amount of Rs.20 crores from the interest income of Endowment Fund for the year 2016-17 to newly created fund namely "Institute's Contribution to Projects"

The above fund will be utilized for the purpose of MHRD's approved projects and seed money for Centre for Excellence in Manufacturing (CEM) or other approved project as Institute contribution.
11. **Taxation:** Indian Institute of Technology is exempted u/s 10(23C) of the Income Tax. Hence no provision has been made in the account in respect of Income Tax.
12. It was observed during the year 2016-17 from SBI KGP branch that an amount of Rs.8,37,67,449 as the principal value of investments has been kept with the bank as Security Deposits against Bank Guarantee to West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd as on 31,03,2017. Out of Rs. 8,37,67,449, an amount of Rs. 4,95,27,082 has been booked as Security Deposits in the books of accounts upto the year 2015-16. However, the value of Bank Guarantee to West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd. as on 31.03.2017 is Rs. 7,73,06,787. Hence, following adjustment entries have been passed in the books of accounts for the year 2016-17:
 - (i) Remaining amount of Security Deposit of Rs. 2,77,79,705 (i.e. Rs. 77306787- Rs.4,95,27082) equivalent to the bank guarantee amount has been debited to the Security Deposit accounts and credited to the Corpus/ Capital Fund.
 - (ii) Excess amount of Rs. 64,60,662 (i.e. 8,37,67,449, the investment amount minus Rs. 7,73,06,787, the bank guarantee amount) which is kept as security deposit by the bank has been taken as other Investments of the Institute by debiting the other Investments Account and crediting to the Corpus/ Capital Fund.
 - (iii) Accrued interest amounting to Rs. 8,77,299 on the total investment amount of Rs. 8,37,67,449 has been recognized as income of the Institute.
13. 24 Numbers of Schedule are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2015 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.
14. Provision for gratuity and Leave Salary has been made on the basis of actuarial valuation.
15. Pension payment is made on due basis.
16. Fixed Assets as set out in the Schedule-8 do not include assets purchased out of funds of sponsored Research Projects / Studies / Schemes held and used by the SRIC, as project sanctions include stipulations that all such assets purchased out of project funds will remain the property of the sponsors.
17. The GPF, CPF and NPS account are maintained separately which have not been incorporated in the Institute Account. The same have been enclosed separately.
18. The previous year's figure regrouped and recast wherever necessary for more appropriate presentation of events or transactions in the financial statement of 2016-17.



TECHNOLOGY GUEST HOUSE, IIT KHARAGPUR

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(Amount in Rs.)

SOURCES OF FUND	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1	26510471	18424238
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	2	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	7730964	4009916
TOTAL		34241435	22434154

APPLICATIONS OF FUND	Schedule	Current Year	Previous Year
FIXED ASSETS	4		
TANGIBLE ASSETS		6855683	5094681
INVESTMENT	5	-	-
CURRENT ASSETS	6	26667921	16608578
LOANS, ADVANCES & OTHERS	7	717831	730895
TOTAL		34241435	22434154

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

TECHNOLOGY GUEST HOUSE, IIT KHARAGPUR

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income from Room Rent	8	34790324	26258276
Interest Earned	9	437105	504554
Other Income	10	281562	292
TOTAL (A)		35508991	26763122
EXPENDITURE			
Estt & Administrative Expenses	11	2053636	1113780
Repairs & Maintenance	12	24560579	23241311
Finance Cost	13	28663	21302
Depreciation	4	779880	541303
TOTAL (B)		27422758	24917696
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		8086233	1845426
Transfer to Capital Reserve for equivalent amount of Depreciation		-	-
Balance being Surplus/(Deficit) Carried to Capital Fund		8086233	1845426

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



TECHNOLOGY GUEST HOUSE IIT KHARAGPUR

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH-2017

(Amount in Rupees)

S. No.	RECEIPTS	Current Year	Previous Year
I	Opening Balance		
	Cash in Hand	63961	52211
	Cash at Bank	11477669	11077321
II	Room Rent	31079006	25244520
III	Income from Investment	-	-
IV	Interest Received	571956	474636
V	Amount Borrowed/Security refund received	-	689758
VI	Other Receipts	52513	292
	TOTAL :	43245105	37538738
S. No.	PAYMENT	Current Year	Previous Year
I	Estt & Administrative Expense	2048189	986315
II	Expenditure on Fixed Assets	2490973	173009
III	Investment and Deposit made	-	-
IV	Housekeeping & Maintenance	17134794	20951966
V	Deposits and Advances	1500000	-
VI	Other Payment	2181494	3885818
VII	Closing Balance		
	Cash in hand	29611	63961
	Cash in Bank	17860044	11477669
	TOTAL :	43245105	37538738

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

(CA. B. Bhattacharyya)
Dy. Registrar (F & A)

(P. Pyne)
Registrar

(P.P. Chakrabarti)
Director

Dated : 10th July 2017

TECHNOLOGY GUEST HOUSE, IIT KHARAGPUR
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH-2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year		Previous Year
Schedule No.1 : Corpus/Capital Fund			
Balance as at the beginning the of the year	18424238		16578812
Add : Excess of income over Expenditure	8086233	26510471	1845426
Total		26510471	18424238
Schedule No.2 : Earmaked/Endowment Fund		-	-
Schedule No.3 : Current Liabilities and Provisions			
Outstanding Expenses		7338078	1924600
Payable to AMGH		20400	20400
Deposit held for ISS Facility Service		-	116125
Security Deposit		334488	415693
Payable to AMGH (Last A/C)		2600	2600
Excess RT From D Mukhapadhyia (Last A/C)		8800	8800
Food Bill ISS (Last A/C)		2283	2283
Food Bill Kolkata Office (Last A/C)		149	149
Outstanding Bill of NSDS (Last A/C)		1271	1271
Outstanding Bill of TCS (Last A/C)		745	745
Receipt on Behalf of Institute (Last A/C)		17250	17250
Payable to IIT Khargpur (Loan)		-	1500000
Payable to I Tax		100	-
Payable to Dean (AA-IR)		4800	-
Total		7730964	4009916



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE - 4: FIXED ASSETS

	Particulars	Rate of Dep	GROSS BLOCK			DEPRECIATION				NET BLOCK					
			Cost/Valuation at the beginning of current year	Addition during the Year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the current year end	"As at the beginning of the year" of the year"	Balance as at the beginning of the year after Adjustment	On Opening Balance	On Addition during the Year	On Deductions during the year	Depreciation During the year	Accumulated Depreciation at the end of the year	As at the current year end	As at the previous year end
A)	FIXED ASSETS														
1	TANGIBLE ASSETS														
a)	LAND														
	Freehold	0%													
	Leasehold														
b)	Total		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BUILDINGS :														
a)	On Freehold Land														
b)	On Leasehold Land:	2%													
c)	Office Premises and non-residential building	2%													
d)	Residential quarter and Bank & Post Office & Guest House	2%													
e)	Ownership Flats/Premises	2%													
f)	Superstructures on Land not belonging to the entity														
3	ROADS & BRIDGES	2%													
4	SWEARGE & DRAINAGE	2%													
	Total		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	5%													
6	VEHICLES	10%													
7	FURNITURE, FIXTURES	7.50%	479822			479822	107960	107960	35987			143947	335875	443835	
8	OFFICE EQUIPMENT	7.5%	1595583			3756384	301788	119969	281729			583517	3172867	1319581	
9	COMPUTER/ PERIPHERALS	20%	159822			543903	91941	31964	108781			200722	343181	127858	
10	ELECTRIC INSTALLATIONS	5%	0			0	0	0	0			0	0	0	
11	LIBRARY BOOKS	10%	0			0	0	0	0			0	0	0	
12	SCIENTIFIC & LABORATORY EQUIPMENT	8%	0			0	0	0	0			0	0	0	
13	AUDIO VISUAL EQUIPMENT	7.5%	0			0	0	0	0			0	0	0	
14	TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2%	0			0	0	0	0			0	0	0	
15	OTHER FIXED ASSETS	8%	4417294			4417294	1060151	353384	353384			1413534	3003760	4063910	
	Total		6656521	2540882	0	9197403	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5955184	
	Total Tangible Assets		6656521	2540882	0	9197403	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5955184	
B)	INTANGIBLE ASSETS														
i)	LIBRARY JOURNAL	40%				0	0	0	0			0	0	0	
ii)	COMPUTER SOFTWARE	40%				0	0	0	0			0	0	0	
	Total Intangible Assets		0		0	0	0	0	0			0	0	0	
C)	Capital Working Progress					0	0	0	0			0	0	0	
A+B+C	TOTAL		6656521	2540882	0	9197403	1561839	541303	238576	0	779880	2341720	6855683	5955184	

S. Nayak

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

TECHNOLOGY GUEST HOUSE, IIT KHARAGPUR
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH-2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year		Previous Year
Schedule No.5 : Investments		-	-
Schedule No.6 : Current Assets			
Sundry Debtors		8778266	5066948
Cash-in-hand		29611	63961
Cash-at-Bank			
SBI-Savings		10884368	10402827
SBI-POS A/c		6975676	1074842
Total		26667921	16608578
Schedule No.7 : Loan, Advance & Other Assets			
Security Deposits (Gas Cylinder)		12545	12545
Accured Interest		-	134851
Prepaid Cable Charges		692027	570240
Prepaid Expenses.(Last A/C)		3414	3414
TDS Receivable (Last A/C)		9845	9845
Total		717831	730895



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



TECHNOLOGY GUEST HOUSE, IIT KHARAGPUR
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH-2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year		Previous Year
Schedule No.8 : Income from Room Rent			
Room Rent Received	31079006		26258276
Add : Receivable	3711318	34790324	
Total		34790324	26258276
Schedule No. 9 : Interest Earned			
Interest from Saving Account	571956		504554
Less : Adjusted accrued Interest	134851	437105	
Total		437105	504554
Schedule No.10: Other Income			
Miscellaneous Income	3548		292
Penalty	278014	281562	-
Total		281562	292
Schedule No. 11: Estt & Administrative Expenses			
Honorarium		123300	70580
Printing & Stationery		104060	114403
Advertisement & Publicity		140681	-
Liveries		-	45434
Transport & Fuel charge		1100	2265
Telephone Charges		1000	2933
Food & Beverage		111226	100671
Operating Expenses		1514769	777494
Audit Fee		57500	-
Total		2053636	1113780
Schedule No.12: Repair & Maintenance			
Housekeeping & Maintaince Charge		23230853	22026191
Washing expenses		316319	242176
Gardening expenses		26447	26874
Cable Charges		986960	946070
Total		24560579	23241311
Schedule No.13 : Finance Cost			
Bank Charges		28663	21302

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

GENERAL PROVIDENT FUND

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

(Amount in Rupees)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENT	Current Year	Previous Year
Opening Balances:		Rs	Expenses		Rs
Current A/C SBI	4743667	11386654	Advance/NRW/FP	208111147	215916134
Savings A/C SBI	5307415	3825033	Transfer of Fund		
Encashment of Investments			Lien contribution	0	189571
Long Term Investments matured	1499677231	810599223	Other Charges		
Income on Investments			Bank Charges	2245	632
Interest on Investments	153706139	92875171	Other Payment	52000	1560
Subscriptions & Other Credits			Investments		
Other Receipts			Long Term Investments	1653013423	901192584
Lien contributions	0	189571	Closing Balance		
Others	267992	1560	Current A/C SBI	4975367	4743667
Total	1867978359	1127351563	Savings A/C SBI	1824177	5307415
			Total	1867978359	1127351563

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

(Amount in Rupees)

EXPENDITURE	Current Year	Previous Year	INCOME	Current Year	Previous Year
Credited to Subscribers' A/C:					
Interest on own subscription	117405919	116938456	Interest for the the year	54749795	50873266
Administrative Expenses:			Add: Accrued interest	63318631	76888679
Bank Charges	2245	632			
Excess of Income over Expenditures	660262	10822857			
Total	118068426	127761945	Total	118068426	127761945

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

(Amount in Rupees)

LIABILITIES	Current Year	Previous Year	ASSETS	Current Year	Previous Year
Subscribers' A/C			Investments	1625863776	1472527584
Opening Balance	1445331470	1335821495	Accrued Interest	63318631	98956344
Less: Adjustments	17968	325426109	Excess FP recoverable	413773	
Add: Subscription & Other Credits	321629834		Closing Balance		
Less: Liabilities met during the year	207429382	215916134	Current A/C SBI	4975367	4743667
Closing Balance	1559513954	1445331470	Savings A/C SBI	1824177	5307415
Undisbursed Arr Interest (expEmp)	0	2927	Total	1696395724	1581535010
Reserve & Surplus	136881770	136200613			
Total	1696395724	1581535010			



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



(CA. B. Bhattacharyya)
Dy. Registrar (F & A)



(P. Pyne)
Registrar



(P.P. Chakrabarti)
Director

Dated : 10th July 2017



CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

(Amount in Rupees)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENT	Current Year	Previous Year
Opening Balances:		Rs	Expenses		Rs
Savings A/C SBI	4378961	1183465	Advance/NRW/FP	10564092	4085191
Encashment of Investments			Transfer of Fund	0	0
Long Term Investments matured	164116390	134308950	Misc Payment	0	6904
Income on Investments			Bank Charges	184	0
Interest on Investments	14526409	15544278	Investments		
Subscriptions & Other Credits	11118135	10524598	Long Term Investments	181336161	155562168
IC Received	2524350	2465029	Closing Balance		
Other Receipts	21995	6904	Savings A/C SBI	4785803	4378961
Total	196686240	164033224	Total	196686240	164033224

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

(Amount in Rupees)

EXPENDITURE	Current Year	Previous Year	INCOME	Current Year	Previous Year
Credited to Subscribers' A/C:			Interest for the the year	4487339	3312346
Interest on own subs & IC	11694519	11093102	Add: Accrued interest	9189783	10041221
Administrative Expenses:					
Bank Charges	184	0			
Excess of Income over Expenditures	1982419	2260465			
Total	13677122	13353567	Total	13677122	13353567

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

(Amount in Rupees)

LIABILITIES	Current Year	Previous Year	ASSETS	Current Year	Previous Year
Subscribers' A/C			Investments	176781939	159562168
Opening Balance	145130240	125132702	Accrued Interest	9189783	10041221
Less: Adjustment	64928	24082729	Accrued Interest prev yrs	2151	0
Add: Subscription & Other Credits	25337004		Receivable from Instt	0	0
Less: Liabilities met during the year	10542097	4085191	Closing Balance		
Closing Balance	159860219	145130240	Savings A/C SBI	4785803	4378961
Reserve & Surplus	30899457	28852110	Total	190759676	173982350
Total	190759676	173982350			

(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)

(CA. B. Bhattacharyya)
Dy. Registrar (F & A)

(P. Pyne)
Registrar

(P.P. Chakrabarti)
Director

Dated : 10th July 2017

NEW PENSION SCHEME
STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

(Amount in Rupees)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENT	Current Year	Previous Year
Opening Balances:		Rs	Expenses		Rs
Savings A/C SBI	73826	144902	Transfer of Fund	93305002	79858370
Encashment of Investments			Refund	12	1638
Long Term Investments matured	1004730	900000	Bank Charges	184	
Income on Investments			Investments	1084889	1004730
Interest on Investments	143374	180305	Interest Payment		146651
Subscriptions & Other Credits	93305014	79860008	Other Payment	0	
Other Receipts	0	0	Closing Balance		
			Savings A/C SBI	136857	73826
Total	94526944	81085215	Total	94526944	81085215

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

(Amount in Rupees)

EXPENDITURE	Current Year	Previous Year	INCOME	Current Year	Previous Year
Credited to Subscribers' A/C:			Interest for the the year	115204	129086
Interest on own subs & IC	0	0	Add: Accrued interest	30243	28170
Administrative Expenses:					
Bank Charges	184	0			
Excess of Income over Expenditures	145263	157256			
Total	145447	157256	Total	145447	157256

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

(Amount in Rupees)

LIABILITIES	Current Year	Previous Year	ASSETS	Current Year	Previous Year
Subscribers' A/C			Investments	1084889	1004730
Opening Balance	107000	262744	Accrued Interest	30243	28170
Add: Subscription & Other Credits	93305014	79860008			
Less: Liabilities met during the year	93305014	80015752	Closing Balance		
Closing Balance	107000	107000	Savings A/C SBI	136857	73826
Reserve & Surplus	1144989	999726	Total	1251989	1106726
Total	1251989	1106726			



(S. Nayak)
Deputy Registrar (A/Cs)



(CA. B. Bhattacharyya)
Dy. Registrar (F & A)



(P. Pyne)
Registrar



(P.P. Chakrabarti)
Director

Dated : 10th July 2017



INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
Kharagpur - 721 302, India
www.iitkgp.ac.in